

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011—फाल्गुन 27, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश
स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29-11-2010	01 दिन	पूर्ण वैतन तथा भत्तों सहित	अवकाश के पूर्व दिनांक 28-11-10 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित।

क्र. एफ ए-5-08-2011-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति,
श्री ईश्वर सहाय श्रीवास्तव और मान. न्यायाधिपति, श्री आलोक
अराधे अतिरिक्त न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि
और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना
क्रमांक के 13025-4-2010-यूएस II, दिनांक 8 फरवरी 2011
द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने
अपने पद का कार्यभार दिनांक 15-2-2011 को पूर्वाह्न में ग्रहण
किया है।

क्र. एफ ए-5-12-2010-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय
न्यायाधिपति महोदय, श्री जे. के. माहेश्वरी साहब, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

मछलीपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 3-13-2010-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री यू. के. पुरोहित, संयुक्त संचालक, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 37,400-67000+ग्रेड पे 8900 में संचालक मत्स्योद्योग के पद पर पदोन्त किया जाता है।

श्री यू. के. पुरोहित के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती वीणा घांणेकर, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ, संचालक मत्स्योद्योग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. अहिरवार, अपर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. एफ. 1 (ए) 103-2005-ब-2-दो.—श्री आर. के. मराठे, भापुसे, सेनानी, 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा को दिनांक 20 से 27 अक्टूबर 2010 तक कुल आठ दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. मराठे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सेनानी, 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. मराठे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. मराठे, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)391-88-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 5 जनवरी 2011 द्वारा श्री विजय यादव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मुख्यालय), भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश एवं दि. 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 08,09 जनवरी 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुये उक्त अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के

विस्तार वर्ष 2010 में भारत में कहीं भी भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा की प्राप्ति के तहत सपरिवार “कान्हा, म. प्र.” परिवार के सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने एवं उक्त यात्रा हेतु उन्हें 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की अनुमति दी गई है।

(2) श्री विजय यादव, भापुसे द्वारा उक्त अवकाश यात्रा का लाभ न लेने के परिणामस्वरूप उक्त आदेश की कंडिका-1 एवं 2 राज्य शासन द्वारा निरस्त की जाती है। साथ ही उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, श्री विजय यादव, भापुसे को दि. 27 दिसम्बर, 2010 से 14 जनवरी 2011 तक कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश, दि. 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 15, 16 जनवरी 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दि. 5 जनवरी 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 1 (ए) 31-07-ब-2-दो.—श्री के. सी. जैन, भापुसे, तत्का. सेनानी, 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड को दिनांक 2 से 17 अक्टूबर 2010 तक कुल सोलह दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1(ए) 212-96-ब-2-दो.—श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), इन्दौर को दिनांक 7 से 23 दिसम्बर 2010 तक कुल सत्रह दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ. 1(ए) 243-93-ब-2-दो.—श्री वरुण कपूर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को शासन आदेश क्र. एफ 1-16-2011-ब-2-दो, दि. 17 फरवरी 2011 द्वारा उनके पुत्र श्री ईशान का इलाज यू.एस.ए. में स्वयं के व्यय पर कराने हेतु प्रदान की गई विदेश यात्रा की अनुमति के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 24 फरवरी से 15 मार्च 2011 तक कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वरुण कपूर, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री वरुण कपूर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरुण कपूर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ. 1(ए) 266-86-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2010 द्वारा श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिरेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्डौर को दिनांक 22 नवम्बर 2010 के द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2010 तक कुल छ: दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 20-21 एवं 28 नवम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री के. सी. वर्मा द्वारा दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2010 के दो दिवस के उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2010 के दो दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. एफ 1(ए) 280-76-ब-2-दो.—श्री एच. के. सरीन भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरेशक, होमगार्ड, म. प्र. का स्थानांतरण शासन आदेश क्र. एफ 1-128-2010-ब-2-दो, दिनांक 20 अगस्त 2010 द्वारा पुलिस महानिरेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी सेवाएं सौंपते हुये किया गया था। श्री सरीन द्वारा पुलिस महानिरेशक, होमगार्ड, म. प्र. के पद से कार्यमुक्ति के दिनांक 23 अगस्त 2010 के पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थल पर दिनांक 24 अगस्त 2010 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 25 अगस्त 2010 को कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था, परन्तु श्री सरीन का स्वास्थ्य खराब होने के कारण

उन्होंने नवीन पदस्थापना स्थल में पुलिस महानिरेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग के पद का दिनांक 23 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया है।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री सरीन द्वारा निर्धारित पद ग्रहण काल में नवीन पदस्थापना पर अपने पद का कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पद ग्रहण काल संबंधी मूलभूत नियम-5(5) में निहित प्रावधानों के अनुसार श्री हेमन्त सरीन, भापुसे, पुलिस महानिरेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु पद ग्रहण काल में वृद्धि करते हुये उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 22 सितम्बर 2010 तक कुल तीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री एच. के. सरीन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरीन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2011

क्र. एफ 1(ए) 73-2008-ब-2-दो.—श्री अनुराग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भिण्ड को Mid Career Training Programme Phase-II में दिनांक 14 फरवरी से 26 मार्च 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 28 मार्च से 8 अप्रैल 2011 तक आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 9 से 14 अप्रैल 2011 तक कुल छ: दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के तहत् स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री अनुराग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, भिण्ड का कार्य श्री एम. के. कटकवार, भापुसे, सेनानी, 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनुराग, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयंब्र पुलिस अधीक्षक, भिण्ड के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री अनुराग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2011

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए) 268-86-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 22 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2010 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17,18,19 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित “तिरुपति आन्ध्रप्रदेश” जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे के द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 2 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दि. 22 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ 1(ए) 155-90-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री मुकेश जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय) अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दि. 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश संबंधी कंडिका (1) को निरस्त करते हुए एवं उक्त आदेश में

आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक पुम्/1/भापुसे/1/1485/2010, दिनांक 9 दिसम्बर 2010 द्वारा की गई अनुसार श्री मुकेश जैन, भापुसे को दिनांक 9 से 23 दिसम्बर 2010 तक कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2011

क्र. एफ 1(बी) 154-10-बी-4-दो.—राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है। नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जबाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे :—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुरूपसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	04	कु. पिंकी जीवनानी, 318 द्वितीय तल जनता मार्केट, बाई का बगीचा, घमापुर, जबलपुर, म. प्र.
2	05	कु. कमला जोशी, ए ३ मधुबन इंक्लेव मंडला रोड, तिलहरी पोस्ट ऑफिस तिलहरी, थाना गौरा बाजार, जबलपुर, म. प्र. पिन-482020.
3	09	श्री ओमप्रकाश कैन द्वारा श्री हेम सिंह की पेरेड मुर्गी फार्म के पास लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. पिन-474001.
4	10	कु. लवती सोनी, पुत्री श्री जी. आर. सोनी, सीटी कोतवाली, क्वाटर नं. 3, जबलपुर, म. प्र.

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में “संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण” प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

(3) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एक बार में एक माह का वेतन तथा भर्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भर्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भाँति उससे वसूल की जावेगी।

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक “बॉण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भर्ते, यात्रा भर्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव।

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ-3-83-2010-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को

उच्चीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3) उच्चस्तर
-------------	---------------------------	--------------------------

इंदौर संभाग

1	श्री सूर्य प्रकाश सिंह बघेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री एच. सी. गहलोत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री राजेश कुमार पाण्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्रीमती किरण वर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्रीमती चित्रा भौंसले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री विजय सिंह चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	श्रीमती पूजा धार्म	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्री जयंत गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
9	श्री तरुण सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्री नानूराम गरेठिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री कितेश कुमार शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

जबलपुर संभाग

12	श्री आर. के. चौबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्रीमती आशा दबझाव	कराधान सहायक
14	श्री व्ही. एस. लोधी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

निम्नस्तर

इंदौर संभाग

1	श्रीमती निशा सिंगार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
2	श्री केशव प्रसाद मर्स्कोले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
3	श्री नवीन कोरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
4	श्री अजय सतवासकर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
5	श्री बृहस्पति सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
7	श्री अभिषेक कोशल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
8	श्री नाथूलाल राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	भोपाल संभाग
9	श्री मंगलम सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	35 श्री सम्मल सिंह मरकाम वाणिज्यिक कर निरीक्षक
10	श्री सुरेन्द्र सिंह चुण्डावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	36 श्रीमती नीलिमा तिवारी वाणिज्यिक कर निरीक्षक
11	श्री मुकेश पंचोलिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	37 श्रीमती बबीता इन्दु मेहरा वाणिज्यिक कर निरीक्षक
12	श्री योगेश राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	38 श्री आशीष कुमार दीवान वाणिज्यिक कर निरीक्षक
13	श्रीमती पूर्णिमा सक्सैना	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	जबलपुर संभाग
14	श्री बालचन्द्र कारपेन्टर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	39 श्री हेमराज बारस्कर वाणिज्यिक कर निरीक्षक
15	श्री नितिन कुमार बिडवई	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	40 सुश्री सरिता नायक वाणिज्यिक कर निरीक्षक
16	श्री खेमराज चौहान	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	41 श्री जानी जैकब वाणिज्यिक कर निरीक्षक
17	श्री कारूलाल पंवार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	42 कुमारी प्रतिमा सोनके सरिया वाणिज्यिक कर निरीक्षक
18	श्री प्रभाकर मौरे	कराधान सहायक	43 श्री राजेश नायक वाणिज्यिक कर निरीक्षक
19	श्री जानी तोतलानी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	44 श्री मनोज कुमार ठाकुर वाणिज्यिक कर निरीक्षक
20	श्री संजय विजयवर्गीय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	45 कुमारी पूनम श्रीवास्तव वाणिज्यिक कर निरीक्षक
21	श्री विश्वास रावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.
22	श्री पन्नालाल तोनगर	कराधान सहायक	
23	श्री हरसुखलाल पटेल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
24	श्री जगदीश चंद राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
25	श्री सुभाष परिहार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
26	श्री विजयकुमार जायसवाल	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
27	मो. जहीर कुरेशी	कराधान सहायक	
28	श्रीमती उषा शाह	कराधान सहायक	
29	श्रीमती माया आनंद	कराधान सहायक	
30	श्री दिलीप कुमार राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
31	श्री रामराज यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
32	श्री आर. एस. बिरारी	कराधान सहायक	
33	श्री राजेश श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	
34	श्री रवीश सिंह भद्रोरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. एफ 1(1)9-2011-सी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को, सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम (3) उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनु- क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	अधिनियम की धारायें (3)	क्षेत्र (4)
1	सुश्री शशि सिंह, असि. रजिस्ट्रार फर्म एण्ड	6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 25(2), 27, 28, 29, 31, 37, 38 एवं 39.	भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग, श्रीवास्तव, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 09) राज्य शासन, सुश्री नेहा बंसल पुत्री श्री सुनील कुमार बंसल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 21 नवम्बर 1986 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 29) राज्य शासन, श्री शिवचरण पटेल पुत्र श्री शारदा प्रसाद पटेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, यह आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि

10 फरवरी 1980 है।

क्र. फा. 3(बी)-1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 34) राज्य शासन, श्री राकेश कुमार कुशवाह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद कुशवाह को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा, नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 9 जनवरी 1973 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2011

फा. क्र. 17(ई)-19-1994-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 9 फरवरी 2001 द्वारा श्री जे. पी. समैया, अधिवक्ता, निवासी-तहसील सिलवानी, जिला रायसेन को तहसील सिलवानी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनके द्वारा नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं कराये जाने के कारण तहसील सिलवानी में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. एफ-4(बी)1-1996-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 5 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 9, 11, 12, 13 एवं 20 के प्रावधानों का, वर्ष 2011 के दौरान प्रवर्तन नीचे दिये गये प्रथम परिशिष्ट के स्तम्भ क्रमांक (3) में अंकित त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर, उनके समुख स्तंभ क्रमांक (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, परिशिष्ट के स्तम्भ क्रमांक (5) में दर्शित स्थानीय क्षेत्रों के लिये, द्वितीय परिशिष्ट में उल्लेखित शर्तों के साथ, निलंबित करता है :—

प्रथम परिशिष्ट

क. अधिनियम की प्रभावशीलता वाले समस्त स्थानीय क्षेत्रों के लिये

माह (1)	क्र. (2)	सार्वजनिक त्योहार विशेष अवसर (3)	अवधि/तिथियाँ (4)	स्थानीय क्षेत्र (5)
जनवरी 2011	1	मकर संक्रांति	एक दिन (14 जनवरी)	सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनवरी 2011	2	गणतंत्र दिवस	एक दिन (26 जनवरी)	सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू हैं।
फरवरी 2011	3	बसन्त पंचमी	एक दिन (8 फरवरी)	—तदैव—
	4.	ईद मिलाद-उन-नबी	एक दिन (16 फरवरी)	—तदैव—
मार्च 2011	5	महाशिवरात्रि	एक दिन (2 मार्च)	—तदैव—
	6	होली	तीन दिन (18-20 मार्च)	
	7	रंग पंचमी	एक दिन (24 मार्च)	—तदैव—
अप्रैल 2011	8	गुड़ी पड़वा	एक दिन (4 अप्रैल)	—तदैव—
	9	राम नवमी	एक दिन (12 अप्रैल)	—तदैव—
	10	महावीर जयंती	एक दिन (16 अप्रैल)	—तदैव—
जुलाई 2011	11	हरियाली अमावस्या	एक दिन (30 जुलाई)	—तदैव—
अगस्त 2011	12	रक्षा बन्धन	तीन दिन (12-14 अगस्त)	—तदैव—
	13	स्वतंत्रता दिवस	एक दिन (15 अगस्त)	—तदैव—
	14	जन्माष्टमी	एक दिन (22 अगस्त)	—तदैव—
	15	पोला	दो दिन (28-29 अगस्त)	—तदैव—
	16	ईदुल-फितर	चार दिन (28-31 अगस्त)	—तदैव—
	17	गणेश चतुर्थी	दो दिन (31 अगस्त एवं 1 सितम्बर)	—तदैव—
सितम्बर 2011	18	डोल ग्यारास	एक दिन (8 सितम्बर)	—तदैव—
	19	अनन्त चतुर्दशी	तीन दिन (10-12 सितम्बर)	—तदैव—
	20	सर्वापितृ अमावस्या	दो दिन (26-27 सितम्बर)	—तदैव—
अक्टूबर 2011	21	गांधी जयंती	एक दिन (2 अक्टूबर)	—तदैव—
	22	महाष्टमी/दशहरा	चार दिन (3-6 अक्टूबर)	—तदैव—
	23	दीपावली	सात दिन (22-28 अक्टूबर)	—तदैव—
नवम्बर 2011	24	ईदुलजुहा	दो दिन (6-7 नवम्बर)	—तदैव—
	25	गुरुनानक जयंती	एक दिन (10 नवम्बर)	—तदैव—
दिसम्बर 2011	26	मोहर्म	दो दिन (5-6 दिसम्बर)	—तदैव—
	27	क्रिसमस	दो दिन (24-25 दिसम्बर)	—तदैव—

ख. अधिनियम की प्रभावशीलता वाले क्रितिय विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के लिए

क्र. (1)	सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर (2)	अवधि/तिथियां (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1	अहिल्या उत्सव	एक दिन	इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र
2	घट स्थापना	एक दिन	इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र
3	ग्वालियर मेला	मेला की अवधि के लिये	ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)
4	तानसेन समारोह	एक दिन	ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र
5	चक्ररी मेला	एक दिन	ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र
6	महारानी लक्ष्मीबाई समारोह	एक दिन	ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र
7	मुरैना पशु मेला	मेला की अवधि के लिये	मुरैना का स्थानीय क्षेत्र
8	दशहरा मेला	मेला की अवधि के लिये	कट्टनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र
9	झला मेला	मेला की अवधि के लिये	सागर का स्थानीय क्षेत्र
10	देव उठनी ग्यारस	एक दिन	सागर का स्थानीय क्षेत्र
11	गोट मार मेला	एक दिन	पांडुर्ना का स्थानीय क्षेत्र
12	कर्तिक मेला	मेला की अवधि के लिये	उज्जैन एवं मुलताई का मेला क्षेत्र
13	शबे बारात	एक दिन	उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र
14	सोमवर्ती अमावस्या	एक दिन	उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र
15	त्रिवेणी मेला	मेले की अवधि के लिये	उज्जैन एवं रत्नाम का स्थानीय क्षेत्र
16	बासी दशहरा	एक दिन	उज्जैन एवं रीवा का स्थानीय क्षेत्र
17	कृषि प्रदर्शनी	प्रदर्शनी की अवधि के लिये	देवास का स्थानीय क्षेत्र
18	आषाढ़ पूर्णिमा	मेले की अवधि के लिये	देवास व मन्दसौर का स्थानीय क्षेत्र
19	पशुपतिनाथ मेला	मेले की अवधि के लिये	मन्दसौर का स्थानीय क्षेत्र
20	बालाजी मेला	मेले की अवधि के लिये	बुरहानपुर का स्थानीय क्षेत्र
21	कमला पूर्णिमा मेला	मेले की अवधि के लिये	धार का स्थानीय क्षेत्र
22	कमला मौलाना उर्स	मेले की अवधि के लिये	धार का स्थानीय क्षेत्र
23	भोज मेला उत्सव	मेले की अवधि के लिये	धार का स्थानीय क्षेत्र
24	कलिका माता मेला	मेले की अवधि के लिये	धार व बड़नगर का स्थानीय क्षेत्र
25	नवग्रह मेला	मेले की अवधि के लिये	खरगोन का स्थानीय क्षेत्र
26	राग सप्ताह मेला	मेले की अवधि के लिये	खण्डवा का स्थानीय क्षेत्र
27	शीतला सप्तमी मेला	मेले की अवधि के लिये	झाबुआ का स्थानीय क्षेत्र
28	पीरान पीर मेला	मेले की अवधि के लिये	सनावद का स्थानीय क्षेत्र
29	गंगाबाड़ी का मेला	मेले की अवधि के लिये	महिदपुर का स्थानीय क्षेत्र
30	क्वार नवरात्रि मेला	मेले की अवधि के लिये	रत्नाम नगर के लिए
31	कंस वध उत्सव	मेले की अवधि के लिये	शाजापुर नगर के लिए
32	नर्मदा जयंती	मेले की अवधि के लिये	होशंगाबाद शहर का मेला क्षेत्र
33	नवचंदी धाम मेला	मेले की अवधि के लिये	खण्डवा नगर का स्थानीय क्षेत्र
34	तीज का मेला	मेले की अवधि के लिये	कट्टनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र
35	देवी प्रतिमा विसर्जन	एक दिन	भोपाल का स्थानीय क्षेत्र

द्वितीय परिशिष्ट

- कोई भी स्थापना मध्य रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 6 बजे तक खुली नहीं रहेगी।
- यदि किसी कर्मचारी को उक्त अधिनियम की धारा 11, 16 या 21 में उल्लेखित सीमा से अधिक कार्य करना पड़ता है, तो उसे अतिरिक्त अवधि के लिये अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वेतन देय होगा।
- यदि परिशिष्ट-1 में उल्लिखित त्यौहार या विशेष अवसरों की अवधि में कार्य करने के कारण कोई सेवायुक्त, सासाहिक अवकाश के लाभ से वंचित होता है, तो त्यौहार/विशेष अवसर की अवधि की समाप्ति के 10 दिन की अवधि में उसे उतने दिन का अवकाश दिया जायेगा जितने सासाहिक अवकाश के दिनों से वह वंचित रहा हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुखराज मारु, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

ग्रालियर, दिनांक 2 फरवरी 2011

सांचिकी अधिकारियों का परीक्षा परिणाम

क्र. 147-10-परीक्षा-सर्वे.व्यव.-2010.—मध्यप्रदेश शासन, भू-अभिलेख, विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1752-2413-नो-76, दिनांक 22 अप्रैल 1976 के नियम-4 के अनुसार भू-परिमाप बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख विभाग (सांचिकीय शाखा) के अधिकारियों की परीक्षा दिनांक 30 एवं 31 दिसम्बर 2010 को सम्पन्न हुई। इस परीक्षा में सम्मिलित अधिकारियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है।

क्र.	रोल नंबर	अधिकारी का नाम/पद	जाति संवर्ग	पदस्थापना का स्थान	विषय जिसमें परीक्षा ली गई		परीक्षा परिणाम
					राजस्व विधि	एवं कार्य प्रणाली (आर. बी. सी.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01	श्री परशुराम चौधरी, सहा. आयुक्त	अ. जा.	मुख्यालय	-	49	उत्तीर्ण
2	02	श्री सलीम खान, सहा. सा. अधि.	पि. वर्ग	मुख्यालय	22	-	अनुत्तीर्ण
3	03	श्री नरेश कुमार गुप्ता, सहा. सा. अधि.	सामान्य	मुख्यालय	40	34	अनुत्तीर्ण
4	04	श्री नन्द किशोर शर्मा, सहा. सा. अधि.	सामान्य	मुख्यालय	21	23	अनुत्तीर्ण
5	05	श्री मुन्नालाल माहोर, सहा. सा. अधि.	अ. जा.	मुख्यालय	47	-	उत्तीर्ण
6	06	श्री आर. सी. माहोर, प. फ. प्र.	अ. जा.	DCLR ग्रालियर	-	-	अनुपस्थित
7	07	श्री हुक्म सिंह राजपूत सहा. सा. अधि.	सामान्य	DCLR ग्रालियर	55	-	उत्तीर्ण
8	08	सुश्री शशिवाला गुप्ता सहा. सा. अधि.	सामान्य	DCLR ग्रालियर	29	-	अनुत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	09	श्री ओमप्रकाश बाथम, सहा. सां. अधि.	अ. जा. जा.	मुख्यालय	51	43	उत्तीर्ण
10	10	श्री यशपाल जैन सहा. सां. अधि.	सामान्य	मुख्यालय	34	-	अनुत्तीर्ण
11	11	श्रीमती मंजुला अग्रवाल सहा. सां. अधि.	सामान्य	मुख्यालय	36	-	अनुत्तीर्ण
12	12	श्री सतीश देशपाण्डे, प. फ. प्र.	सामान्य	DCLR इन्दौर.	-	28	अनुत्तीर्ण
13	13	श्री उद्देप्रसाद अहिरवार सहा. सां. अधि.	अ. जा.	DCLR इन्दौर.	31	30	अनुत्तीर्ण
14	14	श्री रमेश प्रसाद परिहार सहा. सां. अधि.	अ. जा.	DCLR इन्दौर.	17	30	अनुत्तीर्ण
15	15	श्री जगन्नाथ सिंह सहा. सां. अधि.	अ. जा.	DCLR जबलपुर	35	06	अनुत्तीर्ण
16	16	श्री आर. के. चतुर्वेदी सहा. सां. अधि.	सामान्य	DCLR उज्जैन	55	-	उत्तीर्ण
17	17	श्री राजीव तिवारी स. सां. अधि.	सामान्य	DCLR उज्जैन	53	-	उत्तीर्ण
18	18	श्री वृन्दावन लाल मरावी सहा. सां. अधि.	अ. ज. जा.	DCLR सागर	-	23	अनुत्तीर्ण
19	19	श्री हरी सिंह कुशवाह, सहा. सां. अधि.	पि. वर्ग	DCLR भोपाल	55	-	उत्तीर्ण
20	20	श्री रमेश शर्मा, सहा. सां. अधि.	सामान्य	मुख्यालय	36	-	अनुत्तीर्ण

निर्देश।— 1. मध्यप्रदेश शासन, भू-अभिलेख, विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1752-2413-नो-76, दिनांक 22 अप्रैल 1976 के नियम-4 के अनुसार राजस्व विधि एवं कार्य प्रणाली (आर. बी. सी.) में 50 प्रतिशत अंक एवं लेखा विषय में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1-15-77-1-ह.आ.से., दिनांक 5 अगस्त 1978 द्वारा (हरिजन/आदिवासी) को 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाकर उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

एम. के. वार्षीय, आयुक्त।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. 1230-ब.लि.-1-2011.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शोभित जैन, कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2011 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमाक्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला	पर्व अथवा त्यौहार	दिनांक	दिन	सम्पूर्ण विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ सम्पूर्ण	1. शीतला सप्तमी	26-3-2011	शनिवार	सम्पूर्ण जिला
2	जिला	2. महाअष्टमी (दुर्गाअष्टमी)	4-10-2011	मंगलवार	— " —
3		3. पड़वा (दिपावली का दूसरा दिन)	27-10-2011	गुरुवार	— " —

टीप.—(1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा।

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षायें नियत हैं, इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा। परीक्षायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी।

शोभित जैन, कलेक्टर।

कार्यालय, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा

राजभवन भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. एफ.-1-3-10-रा.स.-यू.ए.1-373.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1.	डॉ. सुदर्शन शर्मा, कुलपति, वैदिक विश्वविद्यालय, तिरुपति (आंध्रप्रदेश).	समिति के चेयरमेन	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
2.	प्रो. (डॉ.) रियाज पंजाबी कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर-190006 (जे.एण्ड.के.).	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत
3.	श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष अमरहिया, रीवा (म. प्र.)	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित

(2) महामहिम कुलाधिपति के द्वारा डॉ. सुदर्शन शर्मा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

प्र. क्र. 11अ-82-10-11-भू.अ.अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) एवं अधिनियम क्र. 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	चरगंवा, प. ह. नं. 43, नं. ब. 222.	1 पक्का कुआं (0.13 हेक्टेर में निर्मित).	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	कुसमी वितरक नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

क्र. 7 अ-82-10-11-भू.अ.अ.-11-सात-1-सात 1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	लमकना, प. ह. नं. 58, नं. ब. 687	0.09	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा।	हथलेवा माइनर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 8 अ-82-10-11-भू.अ.अ.-11-सात-1-सात 1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4(2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकमा (हेक्टेर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	मझौली	बटरंगी	0.19 प. ह. नं. 58, नं. ब. 486,	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	बटरंगी नहर निर्माण हेतु,

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इकाई क्र. 1, बरगी हिल्स के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-10-751-प्र. क्र. 2/अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची दो के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	बाजना	इमलीपाडा कला	2.000	सचिव कृषि उपज मण्डी, सैलाना।	कृषि उपज उप मण्डी बाजना के स्थापना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सैलाना जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1809-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवयश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
					प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
उज्जैन	उज्जैन	गांवडी	47.48	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	डी.एम.आई.सी. योजनान्तर्गत नालेज सिटी की स्थापना हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1811-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवयश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
					प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
उज्जैन	उज्जैन	मुंजाखेड़ी	18.57	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	डी.एम.आई.सी. योजनान्तर्गत नालेज सिटी की स्थापना.	

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1813-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अथवा आवयश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कडचा	33.74	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	डी.एम.आई.सी. योजनान्तर्गत नालेज सिटी की स्थापना.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1816-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	नरवर	81.40	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	डी.एम.आई.सी. योजनान्तर्गत नालेज सिटी की स्थापना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गोता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. 527-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बैंगनबर्डी	0.11	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 530-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मोहनपुरा	2.04	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 535-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	हवारूण्डा	0.12	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 537-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	उम्मेदपुरा	1.19	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 539-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	हिण्डोलाबाबावडी	2.20	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 541-भू-अर्जन-2010-11-रा.प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल भूमि (हेक्ट. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	छावनी	3.81	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ (म. प्र.)	माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. 53-भू-अर्जन-(अ-82)-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/तालुक	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कोहका. प.ह. न.31/62	206 नम्बर (हे.में)	0.8 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	मड़ियारास जल प्रदाय योजना.
	राजस्व मण्डल	डिण्डौरी योग :-	206 शासकीय भूमि	0.8 766 कुल योग . .	यांत्रिकी खंड, डिण्डौरी.

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 8 मार्च 2011

क्र. 390-भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के उपबंध इसके संबंध में लागू हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
बड़वानी	राजपुर	राजपुर	1.650	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	जलगोन तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु.

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 391-भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के उपबंध इसके संबंध में लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	सालखेड़ा	0.405	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।	जलगोन तालाब के शीर्ष कार्य हेतु।

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 392-भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के उपबंध इसके संबंध में लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	अतरसंभा	7.238	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी।	जलगोन तालाब के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु।

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 393-भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मोयदा	1.465 एवं मकान नग-7	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	जलगोन तालाब के शीर्ष कार्य हेतु,

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 394-भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	जलगोन	8.624	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	जलगोन तालाब के शीर्ष कार्य, वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण कार्य हेतु,

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजपुर, जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 9 मार्च 2011

क्र. 2059-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में बांधित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	गंधवानी	गोलपुरा	1.800	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.	मकोड़ा नाला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय मनावर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 2064-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में बांधित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	सरदारपुर	इडरिया	0.300	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर.	मकोड़ा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश	269	0.064
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	281	0.057
राजस्व विभाग	284	0.064
रीवा, दिनांक 14 फरवरी 2011	285	0.057
	286	0.064
क्र. 167-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	289	
	290	0.160
	306	0.121
	304	0.050
	303	0.009
	302	0.026
	365	0.058

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—गहनौआ
- (घ) क्षेत्रफल लगभग —1.368 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
220	0.019
221	0.044
226	0.028
225	0.038
246	0.048
247	0.002
248	0.044
249	0.072
250	0.115
258	0.005
259	0.025
260	0.009
266	0.064
267	0.061

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत गहनौआ माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 165-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची	(1) भूमि का वर्णन—
	(क) जिला—रीवा
	(ख) तहसील—सिरमौर

(ग)	ग्राम—भेडरहा	(1)	(2)
(घ)	क्षेत्रफल लगभग —4.829 हेक्टेयर.	287	0.038
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	288	0.061
(1)	(2)	292	0.014
74	0.880	307	0.108
76	1.079	308	0.104
77	0.470	309	0.022
85	0.028	310	0.002
86	0.029	313	0.134
87	0.139	314	0.064
91	0.110	निजी भूमि 44 किता शासकीय 5 भूमि	
92	0.124	योग . .	<u>4.829</u>
94	0.134	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर एवं गहनौआ माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
95	0.043	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
96	0.004		
97	0.038		
98	0.110		
99	0.064		
101	0.012		
102	0.121		
103	0.157		
112	0.022		
113	0.102		
114	0.025		
116	0.008		
117	0.096		
118	0.001		
137	0.012		
138	0.006		
211	0.061		
213	0.002		
214	0.093		
218	0.102		
223	0.006		
224	0.016		
225	0.016		
226	0.022		
227	0.059		
228	0.001		
235	0.022		
236	0.004		
284	0.004		
285	0.057	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
286	0.003	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
		(हे. में)	(हे. में.)
		(1)	(2)

(1)	(2)
1317	0.235
1315	0.047
1314	0.019
1313	0.085
1312	0.003
योग . .	<u>0.542</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 256-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—बम्होरी चौथ 404
- (घ) क्षेत्रफल—0.979 हेक्टर।

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा		
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि	
	(हे. में)	(हे. में.)	
(1)	(2)		
530	0.107	—	
531	0.085	—	
528	0.016	—	
537	0.254	—	
536	0.026	—	
544	0.103	—	
545	0.056	—	
479	0.056	—	
480	0.094	—	
476	0.179	—	
383	0.104	—	
536	0.003	—	
योग . .	<u>0.979</u>	निरंक	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 258-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—बहुरीबांध 425
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.282 हेक्टर।

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
	(हे. में)	(हे. में.)
(1)	(2)	
859	0.282	—
योग . .	<u>0.282</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/ सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. 263-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता

है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु
आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		(1)	(2)
(क) जिला—रीवा	284/1		
(ख) तहसील—मनगांव	284/2	0.084	
(ग) ग्राम—खरहना	284/3		
(घ) क्षेत्रफल—0.081 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	रकबा	286	0.032
	(हे. में)	287	0.009
(1)	(2)	291	0.096
223/3	0.081	292	0.010
योग . .	<u>0.081</u>	293	0.060
		308	0.014
		312	0.038
		313/1	
		313/2	0.042
		313/3	
		314	0.060
		316	0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		317	0.068
		323	0.016
		410/1	
		410/2	
		410/3	0.178
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		410/4	
		410/5	
रीवा, दिनांक 4 मार्च 2011		412/1	0.073
		412/2	
क्र. 272-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		413/1	
		413/2	0.048
		413/3	
		414	0.060
		425	0.002
		426	0.099
		452	0.107
		454	0.073
(1) भूमि का वर्णन—		455/1	
(क) जिला—रीवा	455/2	0.015	
(ख) तहसील—सिरमौर	455/3		
(ग) नगर/ग्राम—डिहिया	458/1		
(घ) क्षेत्रफल लगभग —2.208 हेक्टर.	458/2		
खसरा नं.	रकबा	458/3	
	(हे. में)	458/4	0.004
(1)	(2)	458/5	
279	0.002	458/6	
282	0.024	458/7	

(1)	(2)	(ग) नगर/ ग्राम—खैरहन (घ) क्षेत्रफल लगभग—8.093 हेक्टर.	खसरा नं. रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
624	0.036		
627	0.016		
630/1		खसरा नं.	रकबा
630/2	0.016	(1)	(हे. में)
630/3			
631/2	0.190	139	0.033
632	0.120	140	0.004
633	0.016	141	0.267
634	0.004	144	0.094
636/1, 636/2	0.184	145	0.057
695	0.048	146	0.132
696	0.004	147	0.071
698	0.054	148	0.004
699/1		149	0.100
699/2	0.072	155	0.137
699/3		200	0.084
699/4		203	0.021
700	0.024	204	0.324
836	0.126	209	0.080
योग . .	<u>2.678</u>	210	0.066
मध्यप्रदेश शासन			
619	0.022	211	0.202
योग . .	<u>0.022</u>	213	0.226
महायोग . .	<u>2.700</u>	214	0.110
		258	0.216
		259	0.192
		260	0.127
		261	0.100
		262	0.101
		263	0.040
		269	0.042
		270	0.017
		271	0.049
		272	0.049
		273	0.020
		274	0.110
		275	0.077
		276	0.006
		277	0.140
		278	0.103
		279	0.053
		510	0.272
		517	0.173
		518	0.071
		519	0.294
		520	0.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की पुरवा माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 276-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
540	0.002	क्र. 278-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—
541	0.031	अनुसूची
542	0.252	
543	0.004	(1) भूमि का वर्णन—
545	0.114	(क) जिला—रीवा
546	0.097	(ख) तहसील—सिरमौर
547	0.129	(ग) नगर/ ग्राम—भेड़रहा कोठार, 423
558	0.414	(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.032 हेक्टर।
568	0.008	
574	0.002	
576	0.005	
577	0.010	
578	0.114	
579	0.081	
580		खसरा नं.
581		रकबा
582	0.200	(हे. में)
583		
584		
588	0.008	(1)
589	0.008	(2)
590	0.006	16 0.050
591	0.008	17 0.174
594	0.006	18 0.040
596	0.160	24 0.120
597	0.034	25 0.112
598	0.014	33 0.026
615	0.317	34 0.360
620	0.392	35 0.094
621	0.030	36 0.318
622	0.076	42 0.044
623	0.223	43 0.224
879	0.163	67 0.266
880	0.396	69 0.024
884	0.254	
योग . .	<u>8.006</u>	
शासकीय		70 0.008
205	0.016	71 0.404
208	0.071	157 0.210
महायोग . .	<u>8.093</u>	158 0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।	159 0.156	
	160 0.152	
	162 0.145	

(1)	(2)	(1)	(2)
165	0.187	181	म.प्र.शासन
172	0.220	178	0.047
173	0.328	188	0.012
177	0.058	189	0.211
186	0.280	248	0.108
योग . .	<u>4.032</u>	250	0.028
		251	0.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	252	0.062	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।	254	0.060	
क्र. 280-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	256	0.114	
	258	0.014	
	260	0.112	
	261	0.024	
	262	0.022	
	265	0.096	
	266	0.080	
	299	0.028	
	योग . .	<u>1.982</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पुरवा माइनर के
अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों
के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन
एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में
देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 8 मार्च 2011

खसरा नं.	रक्का
(1)	(हे. में)
(2)	
61	0.148
62	0.142
63	0.118
67	0.058
161/1, 161/2	0.069
167	0.109
168	0.028
169	0.158
170	0.028
179	0.031

क्र. 290-प्रका.—भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति
अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल

- (ग) ग्राम—सुडवार
 (घ) क्षेत्रफल—0.10 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
317	0.07
318	0.03
योग . .	0.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
 बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सुडवार माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 292—प्रका.—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—सिहावल
 (ग) ग्राम—अमरा
 (घ) क्षेत्रफल—0.036 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
300	0.036
योग . .	0.036

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
 बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 294—प्रका.—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—सिहावल
 (ग) ग्राम—लिलवार
 (घ) क्षेत्रफल—0.04 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
689/2क	0.04
योग . .	0.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
 बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की टेल माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 296—प्रका.—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—सिहावल
 (ग) ग्राम—जोंकी

(घ) क्षेत्रफल—0.05 हेक्टर.		(1)	(2)
खसरा नं.	रकबा	1761	0.05
	(हे. में)	1770	0.02
(1)	(2)		
413/1	0.05		
योग . .	<u>0.05</u>	योग . .	<u>0.54</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की जोंकी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 298—प्रका.—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—घोपारी
- (घ) क्षेत्रफल—0.54 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)	398/1	0.02
674	0.02	404/5	0.06
747	0.06	273	0.03
736	0.09		
1569	0.08		
1566	0.06		
1563	0.06		
1589	0.01		
1758 जुज	0.09	योग . .	<u>0.11</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की घोपारी माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 300—प्रका.—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—अतरैला
- (घ) क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)	(1)	(2)
(1)	(2)	398/1	0.02
674	0.02	404/5	0.06
747	0.06	273	0.03
736	0.09		
1569	0.08		
1566	0.06		
1563	0.06		
1589	0.01		
1758 जुज	0.09	योग . .	<u>0.11</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की टेल माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 302-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—बेलगांव
- (घ) क्षेत्रफल—0.08 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119 जुज	0.04
121 जुज	0.02
123 जुज	0.02
योग . .	0.08

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 304-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—डिहुली खास
- (घ) क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
645	0.02
योग . .	0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 306-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सीधी
 - (ख) तहसील—सिहावल
 - (ग) ग्राम—बिठौली
 - (घ) क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
196/1	0.02
योग . .	0.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 308-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—करकोटा
- (घ) क्षेत्रफल—0.22 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
15	0.22
योग . .	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की टेल माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 310-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—उफरौली
- (घ) क्षेत्रफल—0.05 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
626	0.02

	(1)	(2)
627		0.01
628		0.02
योग . .		0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की कोदौरा माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 312-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—सिहावल
- (ग) ग्राम—कोदौरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.17 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22	0.01
23	0.01
24	0.01
299 जुज	0.04
682	0.10
योग . .	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 एवं उसकी कोदौरा माइनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2011

प्र. क्र. 2-भू-अ.-ए-82-09-10-सा-1.—सात चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—ईटखेड़ी छाप एवं खजूरी सड़क में पुल एवं पहुंच मार्ग तक निर्माण के लिये भूमि का अर्जन।
(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर ग्राम—ईटखेड़ी छाप
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.030 हेक्टेयर।

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119/2	0.30
योग . .	0.30

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— खजूरी सड़क एवं ईटखेड़ी मार्ग पर कोलान्स नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग बाबत।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 413-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—उण्डी खाली तालाब स्पील चेनल निर्माण के लिए (ग्राम झावलिया)

निजि भूमि

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
192/12	0.03
177/1	0.05
192/1	0.05
192/14	0.05
योग . .	0.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—उण्डी खाली तालाब स्पील चेनल निर्माण के लिये निर्माण होने से ग्राम झावलिया का कुल रकबा निजी भूमि 0.18 हेक्टेर।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. 1751-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
	(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—	358	0.02
(क) जिला—हरदा	359	0.02
(ख) तहसील—टिमरनी	556	0.03
(ग) नगर/ग्राम—टिमरनी	360	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.21 एकड़	543	0.02
खसरा नं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	
(1)	(2)	
39/6	0.21	
योग . .	<u>0.21</u>	
	547/3	0.04
	547/4	0.40
	895/1	0.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— टिमरनी रेल्वे अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग हेतु.	548	0.42
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टिमरनी के कार्यालय में किया जा सकता है.	549	0.28
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	869	0.13
	931/1	0.16
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	550/1	0.25
	862	0.46
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश	867/1	0.07
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	875/1	0.02
राजस्व विभाग	930/2	0.12
दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2011	550/2	0.24
	867/2	0.08
प्र. क्र. 01-अ-82 वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	875/2	0.02
अनुसूची	885/2	0.02
(1) भूमि का वर्णन—	930/1	0.11
(क) जिला—दमोह	550/3	0.25
(ख) तहसील—बटियागढ़	867/3	0.08
(ग) नगर/ग्राम—गूगरा कला	875/3	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—29.68 हेक्टेयर	894/2	0.04
	551	0.18
	552	0.16
	553	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
554	0.07	820/4	0.60
804/1	0.20	836	0.52
804/2	0.11	823/1	0.14
804/3	0.21	824	0.18
807	0.61	825	0.20
806	1.55	826	0.06
809	0.09	827	0.17
813	0.94	828	0.02
810	1.41	830	0.03
811	1.18	833	0.08
838	0.20	831	0.07
842	0.19	832	0.14
812	0.71	834	0.17
820/3	0.40	835	0.43
814	1.05	843/1	0.10
815/1	0.23	879/1	0.13
815/2	0.23	835/2	0.43
893	0.06	879/2	0.13
894/1	0.04	837	0.36
815/3	0.69	863	0.44
816/1	0.36	820/5	0.16
816/2	0.35	921	0.03
817/1	0.33	922	0.10
818/1	0.18	923/2	0.06
817/2	0.32	839	0.39
818/2	0.18	865	1.08
820/1	0.38	987	0.04
820/2	0.76	898	0.02
821	0.24	908	0.07
822	0.24	840	0.23
823/2	0.08	881	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
912	0.04	895/3	0.05
914	0.04	896	0.29
841	0.29	897	0.10
857	0.02	899	0.07
873	0.22	900	0.07
877	0.10	901	0.05
929	0.14	902	0.10
861	0.44	911	0.01
872	0.15	903	0.15
874	0.22	904	0.38
891	0.02	905	0.13
928	0.11	906	0.02
864	0.24	907	0.26
868	0.33	909	0.14
871	0.08	910	0.02
913	0.32	916	0.02
866	0.24	919	0.01
870	0.06	931/2	0.02
880	0.02	योग . .	<u>29.68</u>
876	0.08		
878	0.09	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गूगराकला जलाशय योजना के निर्माण अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.	
885/1	0.01		
920	0.04	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
882	0.03		
883	0.03		
884	0.02	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है.	
886	0.10		
915	0.01		
917	0.01	(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	
918	0.01		
892/1, 892/2	0.12		
895/2	0.05		

दमोह, दिनांक 4 मार्च 2011	(1)	(2)	
प्र. क्र. 05 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को	212/3	0.42	
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	212/4	0.16	
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	215/1	0.30	
प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम,	215/2	0.16	
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा	216/1	0.20	
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	216/2	0.20	
आवश्यकता है:—	217/1	0.40	
अनुसूची	217/3	0.10	
(1) भूमि का वर्णन—	217/2	0.64	
(क) जिला—दमोह	217/4	0.40	
(ख) तहसील—बटियागढ़	218	0.40	
(ग) नगर/ग्राम—रामनगर, हरदुआ जामशा	219/1	0.26	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.09 हेक्टर.	219/2	0.26	
	220	0.11	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	221	0.12
	(हेक्टर में)	222	0.10
(1)	(2)	223	0.10
ग्राम—रामनगर		224/1	0.02
171/1	0.53	158	3.72
171/2	0.53	160/1	1.25
171/3	0.53	271	0.70
177/1	0.32		योग . . <u>19.54</u>
177/2	0.54		ग्राम—रामनगर नहर
181	1.34	271	1.50
182	0.09	276	0.20
183	0.50	298	0.20
185	0.54	301/1	0.14
186	0.40	302	0.09
187	0.46	303	0.08
189/1	0.19	304/2	0.12
189/2	0.19	364	0.27
189/3	0.18	369	0.22
190/1	0.60	371	0.30
190/2	0.07	374	0.18
191	0.67	378	0.06
192	0.30	379	0.15
193/1	0.15	380/1	0.30
193/2	0.15	384	0.26
212/1	0.28	394	0.20
212/2	0.56	396	0.20
		397	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
398	0.08	450/2	0.04
411/1	0.26	451/1	0.02
411/2	0.26	450/3	0.01
481	0.03	451/2	0.06
484	0.05	454	0.10
485	0.04	455	0.13
486	0.13	456/1	0.03
487	0.28	458/1	0.08
488	0.06	458/2	0.07
योग . .	<u>5.75</u>	460	0.02
		464	0.30
		योग . .	<u>5.61</u>
		महायोग . .	<u>30.90</u>

ग्राम—हरदुआ जामशा नहर

315/1	0.18
315/2	0.17
316/2	0.10
320/1	0.15
320/2	0.16
322/1	0.10
322/2	0.10
323	0.06
324	0.06
325	0.06
415/1	0.50
415/2	0.25
416/1	0.03
416/2	0.03
414	0.02
417/1	0.18
417/2	0.17
421	0.03
422/4	0.01
425/1	0.13
425/2	0.12
425/3	0.12
428/2	0.08
429	0.08
430	0.35
432	0.10
433	0.05
434/1	0.19
434/2	0.03
434/3	0.03
449	0.05
450/1	0.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रामनगर जलाशय योजना एवं नहर के निर्माण अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह जिला दमोह में देखा जा सकता है।

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

दमोह, दिनांक 5 मार्च 2011

प्र. क्र. 02 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—बटियागढ़

(ग) नगर/ग्राम—कनौराकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.25 हेक्टर.	(1)	(2)
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	18/1, 18/2
	(हेक्टर में)	38
(1)	(2)	39
65	0.51	41
10/9	0.18	योग . . 0.68
14/1	0.13	
14/2	0.43	
योग . .	1.25	25
		55
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—कनौराकलां जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.	53	0.01
		140
		54
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	57	0.07
		77
		56
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है.	136	0.06
		137
		60
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	66	0.17
		144
		143
		138
		159
		141
		योग . . 1.54
		ग्राम-सुनेरा 0.68
		ग्राम-दामोतीपुरा 1.54
		महायोग . . 2.22

प्र. क्र. 05 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—हटा
- (ग) नगर/ग्राम—सुनेरा, दामोतीपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.22 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
	(हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—सुनेरा

16 0.20

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बरना जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 05 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को	(1)	(2)	
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	255	0.08	
(1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	301	0.23	
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन	270	0.50	
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,	274	0.17	
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन	276	0.05	
के लिये आवश्यकता है:—	277	0.40	
अनुसूची	304	0.32	
(1) भूमि का वर्णन—	320(i)	0.27	
(क) जिला—दमोह	321	0.30	
(ख) तहसील—हटा	438	0.03	
(ग) नगर/ग्राम—रनेह, रमपुरा	439/1	0.16	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.97 हेक्टर।	439/2, 3	0.32	
खसरा नम्बर	444	0.32	
	457	0.08	
अर्जित रकमा	458	0.08	
(हेक्टर में)	459	0.34	
(1)	461/1	0.28	
ग्राम—रमपुरा	295	0.13	
113	0.07	320	0.08
114	1.08	463/1	0.32
115	0.02	464	0.16
189	0.84	465	0.10
190	0.28	योग . .	<u>14.86</u>
191	0.20		
208	0.68	ग्राम—रनेह	
211	0.67	512/1	0.13
210	0.56	512/2	0.13
212	0.57	512/4	0.07
306	0.35	512/3	0.12
297	0.60	378	0.30
298	0.50	517	0.30
303	1.40	397	0.30
185	0.53	399	0.04
187	0.30	400/3	0.80
190	0.15	401	0.14
240/2	0.06	392/1	0.85
216	0.15	331	0.04
233/1	0.10	392/2	0.48
217	0.19	393	0.50
228	0.05	518	0.11
229	0.13	332	0.38
231	0.26	370	0.45
234	0.13	371	0.18
254	0.35	372/1	0.25

(1)	(2)	प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-	
394/4	0.10		अनुसूची
372/3	0.18		
394/3	0.11		
372/2	0.17		
394/5	0.12		
373	0.13		
377	0.19	(1) भूमि का वर्णन—	
374	0.32	(क) जिला—दमोह	
375	0.43	(ख) तहसील—बटियागढ़	
1261/1	0.20	(ग) नगर/ग्राम—बरी कनोरा, बरी मड़ियादौ	
1261/2	0.48	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.95 हेक्टर.	
1264	0.32		
389	0.18	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
388	0.09		(हेक्टर में)
1266	0.09	(1)	(2)
385	0.61	ग्राम—बरी कनोरा	
1256	0.15	5	0.16
1263	0.14	6/1	0.12
1250	0.12	6/2	0.24
1253/2	0.08	9	0.17
1254	0.06	28	0.02
1268	0.11	17	0.24
617/2	0.14	18	0.1
योग . .	<u>10.11</u>	19/1	0.25
ग्राम-रमपुरा	<u>14.86</u>	196	0.18
ग्राम-रनेह	<u>10.11</u>	197	0.02
महायोग . .	<u>24.97</u>	195	0.02
		योग . .	<u>1.52</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—कचौरा जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, हटा, जिला दमोह में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

ग्राम—बरी मड़ियादौ	
16/3ग	0.16
21	0.16
22	0.08
47/1	0.20
30	0.02
31	0.32
36	0.08
44	0.16
46	0.12
47/2	0.13
योग . .	<u>1.43</u>
बरी कनोरा	<u>1.52</u>
बरी मड़ियादौ	<u>1.43</u>
महायोग . .	<u>2.95</u>

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह	34	0.10
(ख) तहसील—बटियागढ़	44	0.20
(ग) नगर/ग्राम—जांगूपुरा, खुटयानी, दलपतपुरा	46	1.60
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.64 हेक्टर.	75	0.49
	80	1.16

खसरा नम्बर	अर्जित रकमा	81/2	2.00
	(हेक्टर में)	81/3	0.40

(1)	(2)	82/1	0.53
-----	-----	------	------

ग्राम—जांगूपुरा

298	0.04	82/2	0.14
303	0.09	84/3	0.66
304	0.55	86	0.22
		योग . .	<u>18.26</u>

ग्राम—खुटयानी रैयत

125/5	0.06	77	0.25
125/6	0.71	78	0.16
129/2	2.00	79	0.12
		84/3	0.08
योग . .	<u>2.77</u>	85	0.20

नहर ग्राम—खुटयानी रैयत

129/7	0.26	86	0.12
129/6 ख	0.10	87	0.23
		106	0.14

योग . .	<u>0.36</u>
---------	-------------

ग्राम—दलपतपुरा

5/1	0.67	156	0.24
5/2	0.67	158	0.16
5/3	0.67		
8	0.30		
10	0.91		
11	0.97		
45	0.18		
47	0.10		
18	0.65		

योग . .	<u>2.57</u>
---------	-------------

जांगूपुरा	<u>0.68</u>
-----------	-------------

खुटयानी रैयत	<u>2.77</u>
--------------	-------------

नहर—खुटयानी रैयत	<u>0.36</u>
------------------	-------------

दलपतपुरा	<u>18.26</u>
----------	--------------

नहर—दलपतपुरा	<u>2.57</u>
--------------	-------------

महायोग . .	<u>24.64</u>
------------	--------------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—जांगूपुरा जलाशय योजना एवं नहर के अर्जन में आजे वाली भूमि का निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	21	1.01
	22	0.36
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	23	1.31
	24	0.25
	25	0.23
	26	1.69
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है.	27/1	1.53
	27/2	0.20
	31/1	0.22
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	31/2	0.30
	31/3	0.32
	32	0.43
	78	0.45
	81	0.15
	82	0.15
	83	0.15
	84	0.14
	85/1	0.41
	85/2	0.90
	86	1.38
	87/1	1.01
	87/2	0.16
	88	0.85
	89	0.90
(1) भूमि का वर्णन—	90	0.92
(क) जिला—दमोह	91	0.76
(ख) तहसील—बटियागढ़	92	0.39
(ग) नगर/ग्राम—पथरिया, कैथोरा	93/1	0.14
(घ) लगभग क्षेत्रफल—78.76 हेक्टर.	93/2	0.14
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	93/3
	(हेक्टर में)	94/1
(1)	(2)	94/2
		94/3
		94/4
		94/4
11	0.10	95
12	0.40	96/1
13	0.37	96/2
14	0.10	97
15	0.75	98/1
16	1.78	98/2
17	1.68	99
18	0.64	100
19	0.57	101
20	1.62	102/1

(1)	(2)	(1)	(2)
102/2	0.12		ग्राम—कैथोरा (बाँध क्षेत्र)
103	0.48	7	0.20
104/1	0.22	8	0.50
104/2	0.21	9	0.06
105	0.37	10	0.07
106	0.31	61/1	0.20
107	0.87	62	0.70
108	0.86	63	0.56
109	0.34	64	0.25
110	0.64	66	0.30
111	0.08	67/1	0.93
112	0.55	67/2	0.40
113/1	0.88	68/1	0.09
113/2	0.87	68/2	0.30
117/1	0.10	68/3	0.30
117/2	0.09	69	0.24
118	0.03	70/1	0.14
119	1.16	70/2	0.12
120/1	0.16	70/3	0.14
120/2	0.04	71/5	0.44
124	0.20	86	0.10
125	0.41	87	1.01
126	0.82	88	0.15
127	0.47	89/1	0.35
128	0.38	89/2	0.30
129	0.16	89/3	0.14
130	0.16	89/4	0.04
132	0.04	89/5	0.04
133	0.32	89/6	0.35
135/1	0.24	90/2	0.32
136	0.40	90/1	0.36
137	0.36	91/1	0.51
138/1	0.64	91/2	0.19
138/2	0.20	92	0.13
139/1	0.80	93/1	0.06
139/3	0.16	93/2	0.06
140	0.08	94	0.15
161	0.28	96	0.09
162	0.10	97	0.20
163	0.08	98	0.02
164	0.08	99	0.06
166/1	0.20	100	0.04
योग . .	43.87	101	0.06
		102	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
103	0.46	141	0.20
105	0.45	142	0.23
107	0.05	143	0.31
108	0.45	144	0.31
110/1	0.22	145	0.08
110/2	0.22	147/1	0.20
112/1	0.03	147/2	0.15
112/2	0.04	147/3	0.05
114/1	0.40	147/4	0.40
114/2	0.60	148	0.20
114/3	0.60	149	0.14
114/4	0.60	150	0.17
114/5	1.30	151	0.16
114/6	0.60	152	0.28
114/7	0.25	153	0.28
114/8	1.60	154	0.14
114/9	0.97	योग . .	<u>31.84</u>
114/10	0.49		
114/11	0.15	ग्राम—पथरिया (नहर क्षेत्र)	
114/12	0.15	97	0.04
114/13	0.15	150	0.08
114/14	0.15	151	0.06
114/15	0.15	237/1	0.06
115	0.17	248	0.02
117/1	1.06	249	0.02
117/2	0.52	250	0.02
118/1	0.73	390/1	0.06
118/2	0.72	390/2	0.05
119	0.32	393/1	0.02
121/1	0.25	393/2	0.01
121/2	0.25	394	0.02
123/1	0.21	453	0.02
123/2	0.36	454/1	0.02
124/1	0.58	454/2	0.02
124/2	0.58	455/1	0.12
125	0.08	455/2	0.06
126	0.23	456	0.02
127	0.07	484	0.10
128	0.07	485/1	0.10
129	0.17	485/2	0.06
130	0.25	488/1	0.08
131	0.07	488/2	0.04
132	0.80	488/3	0.04
140	0.08	योग . .	<u>1.14</u>

(1)	(2)	प्र. क्र. 20 अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
		अनुसूची
ग्राम-कैथोरा (नहर क्षेत्र)		
682	0.09	
683	0.10	
684/1	0.02	
684/2	0.07	
684/3	0.07	
703	0.09	
709/1	0.04	(1) भूमि का वर्णन—
709/2	0.04	(क) जिला—दमोह
710	0.05	(ख) तहसील—बटियागढ़,
713	0.09	(ग) नगर/ग्राम—बटियागढ़, शेखपुरा, कुम्हरवार
733	0.05	(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.82 हेक्टर.
734	0.02	
736	0.18	खसरा नम्बर अर्जित रकम
738/2	0.08	में से (हेक्टर में)
783/3	0.08	(1) (2)
739/1	0.06	ग्राम—शेखपुरा
739/2	0.06	
743	0.09	42 0.20
744	0.09	41 0.24
862	0.12	31 0.04
863	0.11	35 0.18
874	0.09	32 0.13
876	0.14	28 0.37
878	0.08	27 0.50
योग . .	1.91	112 0.25
महायोग . .	78.76	114 0.12
		115/1 0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पथरिया जलाशय योजना बांध डूब के अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.	115/2 0.04	
		108 0.24
		107 0.07
		106 0.16
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	100 0.12	
		98 0.14
		96 0.18
		94 0.12
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, हटा, जिला दमोह में देखा जा सकता है.	154 0.12	
		155 0.06
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	150 0.06	
		160 0.26
		169 0.30
		165 0.12

(1)	(2)	(2)
ग्राम—कुमरवार		
157/2	0.15	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—शेखपुरा जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु।
152/1	0.13	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
152/2	0.13	
148	0.18	
149	0.18	
147	0.12	(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है।
142	0.08	
144	0.24	
137	0.12	(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
136	0.12	
134	0.24	
133/1	0.12	
133/2	0.12	
130/1	0.12	
131/1	0.24	
129	0.14	
128/1	0.20	
127	0.20	
302/1	0.06	
162	0.20	
31	0.07	
20	0.10	
18	0.02	
26	0.32	
25	0.20	
65	0.34	
52	0.60	
102/1	0.41	
102/2	0.20	
82/2	0.10	खसरा नम्बर
82/1	0.93	अर्जित रकम (हेक्टर में)
466	0.36	(1) (2)
465	0.48	460 0.08
467	0.15	457 0.32
458/1	0.31	458 0.50
458/2	0.30	518 0.16
457/2	0.12	521/1 0.50
455	0.16	522 0.25
456	0.16	523 0.44
431/3	0.54	524 0.14
431/4	0.64	525 0.40
431/1	0.20	526/1 0.50
430/1	0.16	526/2 0.12
योग . .	<u>13.82</u>	

(1)	(2)	(1)	(2)
557/1	0.40	426	0.20
558	0.45	421	0.28
560	0.65	864	0.65
561	0.40	871	0.28
562	0.43	529	0.04
574	0.36	530	0.15
575	0.10	531	0.15
576/1	0.25	511	0.30
578	1.30	508	0.13
341	0.20	509	0.14
345	0.15	505/1	0.16
351	0.10	505/2	0.16
353	0.05	503	0.30
354	0.05	499/1	0.22
898	0.30	499/2	0.22
1017	0.20	752	0.11
1016	0.20	497/2	0.12
1013	0.15	749	0.15
1383	0.14	754/1	0.20
1384	0.11	801	0.35
1388	0.17	813	0.34
1399	0.17	815	0.14
1413	0.17	816	0.24
1414	0.10	819	0.14
1415	0.06	823	0.35
408/1	0.20	820	0.14
408/2	0.20	564	0.42
406	0.15	565	0.20
405	0.15	566	0.37
404	0.16	567	0.20
401	0.30	617	0.45
873	0.10	619	0.28
874	0.10	620/1	0.25
927	1.00	742	0.25
929	0.30	741	0.20
934/2	0.10	740	0.22
935	0.15	738	0.50
936	0.35	734	0.50
435/1	0.30	778	0.38
435/2	0.30	779/1	0.30
435/3	0.30	780	0.50
424/1	0.15	580	0.30
417/1	0.40	612	0.35
425	0.15	635	0.15

(1)	(2)	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
634	0.45	अनुसूची
630	0.36	
579	0.04	
689/1	0.20	(1) भूमि का वर्णन—
704	0.73	(क) जिला—दमोह
705	0.28	(ख) तहसील—बटियागढ़
709	0.25	(ग) नगर/ग्राम—आंजनी
710	0.20	(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.94 हेक्टर.
713	0.13	
714	0.13	खसरा नम्बर अर्जित रकम
672/1	0.35	(हेक्टर में)
2194/1	0.30	(1) (2)
2234/1	0.05	
2235/1	0.22	12 0.68
2231	0.10	13 0.42
2230	0.06	14/1 0.26
2228	0.10	16/1 0.85
2229	0.05	14/2 0.14
2216/1	0.05	16/3 0.70
2216/2	0.09	16/2 0.45
2217	0.05	15 0.99
2215	0.18	17 0.52
2214	0.40	16/2 0.32
योग . .	<u>31.18</u>	69/1 0.11
		58/2 0.40
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—पवैया जलाशय योजना की नहर के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.	59 0.32	
		62/1 0.44
		63/1 0.57
		67 0.28
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	63/2 0.28	
		64 0.08
		81 0.08
		66 1.25
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, हटा, जिला दमोह में देखा जा सकता है.	69/3 0.10	
		70 1.08
		73/1 0.33
(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.	73/2 0.08	
		74 0.20
		75 0.89
		76/1 0.63
		76/2 1.60
		76/3 0.60
प्र. क्र. 26 अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन	77 0.35	
		79 0.05
		80 0.07
		82 0.05

(1)	(2)	(ख) तहसील—उज्जैन (ग) ग्राम—मालनवासा, नागझिरी एवं शक्करवासा (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.226 हेक्टर
83	0.93	
92	0.34	
94	0.18	
60/1	0.02	खसरा नम्बर
72/2	0.22	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
98	0.08	
	कुल 16.94	
आंजनी ग्राम—योग . .	16.94	ग्राम—मालनवासा
शासकीय भूमि	18.63	
आंजनी ग्राम का कुल योग . .	35.57	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है।—बेलखेड़ी जलाशय योजना में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह, जिला दमोह में देखा जा सकता है।
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 1806-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—उज्जैन

खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1) (2)

ग्राम—मालनवासा

189/1/1	0.627
328/1	2.205
190 मी.	1.165
192	0.376
193	0.105
194	0.178
196	0.397
197	0.105
199	0.334
322/1 मी.	0.303
322/1 मी.	0.418
322/1 मी.	0.418
322/1 मी.	0.209
33 मी.	0.283
36/1	0.052

ग्राम—नागझिरी

38/3 मी.	0.031
39	0.230
210	0.073
197 मी.	0.309

ग्राम—शक्करवासा

91 मी.	1.408
कुल रकबा योग . .	9.226

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—प्राधिकरण की योजना पी-1/87 (क्षिप्रा विहार योजना) के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1807-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—उज्जैन
- (ग) ग्राम—मालनवासा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.179 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53 मी.	1.179
योग . .	<u>1.179</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—प्राधिकरण की योजना क्रमांक 23 के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1808-भूमि संपादन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—उज्जैन
- (ग) ग्राम—मालनवासा एवं गोयलाखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.858 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—मालनवासा

208 मी. 0.065

(1)	(2)
209 मी.	0.122
320 मी.	0.021
321/1	0.460
321/2	0.167
321/3	0.157
321/4	0.052
210 मी.	0.082
309 मी.	0.021

ग्राम—गोयलाखुर्द

186/3/2/2 मी.	0.303
186/6 मी.	0.042
186/3/2/2 मी.	0.303
186/6 मी.	0.042
62/1 मी.	0.021
कुल रकबा योग . .	<u>1.858</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—प्राधिकरण की योजना पी-8/90 (त्रिवेणी विहार योजना) के क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्र. 260-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है। उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन

- (ख) तहसील—बड़वाह
 (ग) ग्राम—अमलाथा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.305 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	(1)
(1)	(2)	637
51/1	0.008	637
52/1	0.191	637
53/1	0.106	638/1
योग . .	<u>0.305</u>	638/2

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दांयी तट नहर निर्माण एवं उससे संबंधित प्रस्तावित व्ही.आर.बी. के एप्रोच रोड निर्माण एवं ड्रेनेज सायफन के नाला डायवर्शन हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला-खरगोन (म.प्र.), भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश^{एवं} पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

रा. मा. क्र. 7अ-82-वर्ष 2010-2011-पत्र क्र. 132-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—नरसिंहपुर
 (ख) तहसील—तेंदूखेड़ा

- (ग) ग्राम—डोभी, प.ह.नं. 19
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.087 हेक्टर.

खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
637	0.002
637	0.005
637	0.030
638/1	0.001
638/2	0.002
679	0.002
681/3	0.002
681/1क	0.002
681/1क	0.003
681/1क	0.001
681/1क	0.002
681/1क	0.004
681/2	0.001
681/3	0.002
681/3	0.002
681/3	0.002
683/1 थ	0.003
683/1 ठ	0.002
697/1, 2, 3	0.003
699/2, 3	0.002
699/1	0.003
700/1	0.009
681/3	0.002
योग . .	<u>0.087</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभी, बरकुण्डा, गुटोरी मार्ग निर्माण हेतु.
 (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-55.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—बड़ौद
- (ग) ग्राम—कछालिया, कण्डारी, ऊँचवास

भूमि सर्वे नं. क्षेत्रफल जो
 अर्जन होना है
 (हेक्टर में)

(1) (2)

ग्राम—कछालिया (निजी भूमि)

16/1/1	2.09
16/2	0.50
16/3	0.50
19/1	1.04
19/2	1.05
20	0.74
योग . .	<u>5.92</u>

ग्राम—कण्डारी (निजी भूमि)

68/1	0.16
68/2	0.16
69	0.32
योग . .	<u>0.64</u>

ग्राम—ऊँचवास (निजी भूमि)

निरंक	निरंक
योग . .	<u>निरंक</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछालिया तालाब योजना के निर्माण हेतु बांध क्षेत्र ढूब क्षेत्र एवं स्पील चेनल में संपादित होने वाली भूमि बाबत्
 (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू-अर्जन अधिकारी आगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 9 मार्च 2011

प्र. क्र. 5-अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—उदयपुरा
- (ग) ग्राम—ऊँचाखेड़ा जलाशय की नहर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —23.454 हेक्टर।

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)

ग्राम—ऊँचाखेड़ा

10	0.324	0.150
12	1.966	0.315
16	0.786	0.060
15	0.271	0.090
14	0.076	0.188
17	4.068	0.150
19	0.352	0.030
20	2.258	0.300
30	2.841	0.135
36	0.162	0.030
44	0.105	0.038
45	0.085	0.030
47	1.485	0.413
55/1	0.859	0.105
58/2	2.428	0.480
58/1	1.813	0.540
105	0.777	0.150
103	0.640	0.150

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		ग्राम—बिलगवां		115/15	0.809
				115/20	0.729
38	2.719	0.525			0.090
42/1	2.152	0.375		ग्राम—ऊंचाखेड़ा	
44/1	0.437	0.098			
44/2	0.251	0.098	47	1.485	0.135
46/4	0.498	0.100	49/1	0.858	0.114
45/1	0.143	0.100	49/2	1.214	0.114
45/2	0.142	0.077	49/3	1.214	0.114
		ग्राम—ऊंचाखेड़ा		49/4	1.113
				53/1	0.914
197/1/1	4.855	0.300		53/2	0.915
200/1	1.319	0.150		112/2	1.210
200/2	1.214	0.300		112/4	0.156
200/3/1	2.128	0.283		112/3	0.304
200/7/1	1.619	0.375		111	0.825
208/1	4.198	0.675		189/2	1.619
209/2	3.876	0.375		188/2/1	0.809
209/1/2	3.475	0.375		188/2/2	0.809
233/2/2	1.011	0.188		187/1	5.407
231	2.113	0.338		187/2	0.809
227/2/1	0.862	0.125		184/2	1.667
227/1/1/1	1.416	0.413		209/1/1	1.683
				209/1/2	3.475
		ग्राम—सहजपुरी		209/1/3	6.070
				209/1/4/1	2.719
43/1	1.643	0.375		209/1/1/4/2	0.720
50	4.407	0.638		209/1/4/3	2.720
51	2.343	0.488		209/2	3.876
64/1	1.254	0.300		ग्राम—सहजपुरी	
65	3.156	0.142			
70/1/1	1.222	0.300			
70/1/2	1.227	0.300		41/3/2	4.775
70/2/1	0.809	0.300		41/2	0.880
118/1	0.894	0.450		41/3/3	4.970
121/1	2.399	0.450		41/3/2	4.775
121/2	2.399	0.450		37/2	0.633
116/1	1.214	0.180		37/1	0.633
116/5	1.214	0.090		58/1	0.018
116/4	1.214	0.300		59	2.529
116/3	1.214	0.180		60	1.141
115/3	1.214	0.315		61/1	0.360
115/6	1.619	0.300		64/2	0.567
115/12	1.000	0.262		61/3	0.180
115/14	0.809	0.300		1.255	0.225
				1.258	0.180
				1.262	0.180

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
61/4	1.254	0.180	100/1क	0.351
82/1	0.809	0.270	119	0.174
82/2	2.739	0.270	1717	0.348
		योग .. 23.454	1702	0.291
			1699/3	0.081
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—बरखंदा जलाशय की नहर हेतु.			73	0.599
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.			117	0.121
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.			118	0.235
			120/2	0.121
			1715	0.514
			1683	0.279
			50/3	0.114
			67	0.239
			1716/1	0.176
			120/3	0.118
			1652	0.206
			1676	0.587
			1700/2	0.077
			106/2	0.062
			1655/2	0.113
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			121	0.709
			1597	0.126
			1746	0.486
			50/1	0.114
			50/4	0.114
			75	0.478
			101	0.898
			102	0.967
			1667	0.599
			1665	0.486
			1721	0.914
			108/2	0.111
			योग ..	13.469

शहडोल, दिनांक 9 मार्च 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 500-प्र. क्र. 2 अ-82-09-10-1392.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
- (ख) तहसील—सोहागपुर
- (ग) ग्राम—लालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—13.469 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
124	1.631
41/9	0.161
120/1	0.121
1655/1	0.114
1748/2966/2	0.405
50/2	0.114
50/5	0.115

- (2) जिसके लिये आवश्यकता है—मेसर्स एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड के 2x660 मेगावाट के प्रस्तावित पावर प्लांट हेतु ग्राम लालपुर की 13.469 हेक्टर भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल, म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुपपुर, दिनांक 9 मार्च 2011

क्र. 2210-10-भू-अर्जन-2011-संशोधित अधिसूचना.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—अनूपपुर
 (ख) तहसील—पुष्पराजगढ़
 (ग) ग्राम—लालपुर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.768 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकम (हेक्टर में)
(1)	(2)
697/1क/1	0.101
697/1क/2	0.162
697/1ख	0.162
697/2	0.141
699/3	0.202
योग . .	0.768

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला अनूपपुर (म. प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

प्रकरण क्र. 94-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—चंदला
 (ग) ग्राम—सूरजपुर
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.815 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/1/2	0.200
302/2	0.156
302	0.297
321/1/1/2	0.132
321/1/2	0.074
321/2	0.100
321/3/1/2	0.050
322/2	0.059
379/1	0.371
379/2	0.371
382	0.158
383	0.198
384	0.198
393	0.139
394	0.020
395	0.178
396	0.198
397	0.079
432	0.159
433	0.109
434/1	0.068
434/2	0.100
436/1/2	0.131
436/2	0.020
437/1/2	0.021
437/2	0.100
868/436/1/2	0.050
870/397	0.079
	योग . . . 3.815

- (2) बरियारपुर बांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत बछौन शाखा नहर के अन्तर्गत सूरजपुर माईनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्सों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौटी में किया जा सकता है।

प्रकरण क्र. 97-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—चंदला
- (ग) ग्राम—बिलहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.02 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(1)	(2)
393/4	0.090	393/4	0.090	1298/2	0.040
395	0.028	395	0.028	1298/3	0.050
398	0.016	398	0.016	1299	0.089
399	0.268	399	0.268	1300/2	0.013
400	0.024	400	0.024	1343/1	0.150
409/3	0.071	409/3	0.071	1343/2	0.161
410/1	0.038	410/1	0.038	1343/3	0.160
411/2	0.057	411/2	0.057	1344/1/1	0.210
412	0.055	412	0.055	1344/1/2/3	0.039
413	0.079	413	0.079	1344/1/3	0.140
414/1	0.047	414/1	0.047	1382/2	0.101
414/2	0.048	414/2	0.048	1383	0.180
415	0.008	415	0.008	1384	0.101
432/1/2	0.063	432/1/2	0.063	1386	0.030
434/2	0.033	434/2	0.033	1389/2	0.012
434/3	0.033	434/3	0.033	1389/3	0.040
434/4	0.033	434/4	0.033	1389/4	0.040
435/2	0.012	435/2	0.012	1389/5	0.020
512	0.016	512	0.016	1389/6	0.020
513	0.100	513	0.100	1390/3	0.101
972/1	0.040	972/1	0.040	1391/2	0.162
972/2	0.052	972/2	0.052	1392/1	0.016
1271	0.143	1271	0.143	1393	0.073
1272/2	0.071	1272/2	0.071	1394	0.081
1274	0.021	1274	0.021	1395/1	0.125
1275	0.071	1275	0.071	1395/4	0.049
1279	0.051	1279	0.051	1400/1	0.030
1282/2	0.048	1282/2	0.048	1400/2	0.030
1282/4	0.047	1282/4	0.047	1400/3	0.030
1283	0.075	1283	0.075	1401	0.110
1287	0.032	1287	0.032	1403/1	0.182
1292	0.010	1292	0.010	1404/1	0.033
1294	0.014	1294	0.014	1404/2	0.034
1297/1	0.013	1297/1	0.013	1404/3	0.034
1297/2	0.063	1297/2	0.063	1405/1	0.038
1298/1	0.050	1298/1	0.050	1405/2	0.038
				1405/3	0.038
				1405/4	0.024
				1405/5	0.010
				1437/1	0.133
				1437/2	0.133
				योग . .	5.02

- (2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर की बिलहरी माईनर नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौडी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक / 286 / भू—अर्जन / 11

खरगोन, दिनांक—04 मार्च 2011

भू—अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक—1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 7—अ / 82 / 09—10

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभ्यांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 04.03.11 को सम्पादित किया जा रहा है।

- 1 कंपनी ने म.प्र. शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण ढूब से प्रभावित होने से ग्राम सुलगांव प.ह. नं. 17, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 217/1, 225, 306 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नंबर 206/1, 228—229, 231/1, 231/3, 245/1, 249—219/4, 250, 251/1, 252/2, 253/2, 254/1, 254/2, 256, 257, 273, 276, 279—280 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नंबर 224, 284 पर स्थित संरचनाओं के भू—अर्जन हेतु भू—अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1,2,3 पर अंकित किया गया है।

परिशिष्ट – 1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/ पूरा पता	सर्वे नम्बर	मोहल्ला शीट क्रमांक	प्लाट नम्बर/ भूखण्ड क्रमांक	क्षैत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6
1	किशन सिंह पिता दयालसिंह सुनिताबाई पति किशनसिंह जाति राजपूत सा.देह	225	3	2	48
2	जितेन्द्र पिता बाघ सिंह आशाबाई पति जितेन्द्र जाति राजपूत सा देह	225	3	3	62
3	अमरसिंह पिता किशन गुलाबबाई पति अमरसिंह जाति मानकर सा देह	225	3	4	36
4	दिनेश पिता धीसालाल लक्ष्मीबाई पति दिनेश जाति कहार सा देह	225	3	5	10
5	कमलाबाई बेवा गणपत जाति मानकर सा देह	225	3	6	13
6	लखन पिता गणपत कंचनबाई पति लखन जाति मानकर सा देह	225	3	7	20
7	सुमनबाई बेवा संतोष जाति मानकर सा देह	225	3	8	56
8	महेन्द्र पिता धीसालाल मायाबाई पति महेन्द्र जाति कहार सा देह	225	3	9	29
9	लोकेश पिता अमरसिंह संगीताबाई पति लोकेश जाति मानकर सा देह	225	3	10	24
10	ग्यारसीबाई पति हीरालाल जाति मानकर सा देह	225	3	11	22
11	जितेन्द्र सुकदेव पिता मनोहर उमाबाई पति जितेन्द्र पिंकीबाई पति सुकदेव जाति मानकर सा देह	225	3	12	108
12	सरोजबाई पति गुलाबसिंह जाति मानकर सा देह	225	3	13	37
13	करण पिता भगवान शिवकुवरबाई पति करण जाति मानकर सा देह	225	3	14	16
14	मैदाबाई बेवा शंकर जाति मानकर सा देह	225	3	15	29
15	दिनेश पिता भगवान रेशमबाई पति दिनेश जाति मानकर सा देह	225	3	16	28
16	भगवान पिता शंकर गुलाबबाई पति भगवान जाति मानकर सा देह	225	3	17	35
17	दिनेश पिता एडु रेशमबाई पति दिनेश जाति मानकर सा देह	225	3	20	30
18	मुकेश पिता एडु धनकुवरबाई पति मुकेश जाति मानकर सा देह	225	3	21	33
19	मदूबाई बेवा चम्नालाल नयनसिंह पिता चम्पालाल कमुबाई पति नयनसिंह जाति मानकर सा देह	225	3	22	102
20	श्याणीबाई बेवा एडुसिंह जाति मानकर सा देह	225	3	23	88
21	रामसिंह पिता भवरसिंह सरसतबाई पति रामसिंह जाति मानकर सा देह	225	3	24	63
22	राकेश पिता भवरसिंह कमलाबाई पति राकेश जाति मानकर सा देह	225	3	25	90
23	सुधाबाई पति शिवराम जाति मानकर सा देह	225	3	26	13
24	गटू पिता रामचंद उमाबाई पति गटू जाति मानकर सा देह	225	3	27	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	दिनेश पिता लिम्बाजी पार्वतीबाई पति दिनेश जाति कहार सा देह	225	3	29	28
26	राकेश पिता टंटू अनिताबाई पति राकेश जाति कहार सा देह	225	3	30	15
27	तेजूबाई बेवा गुलाबसिंह जाति मानकर सा देह	225	3	31	45
28	गुलाबसिंह पिता दामा गंगाबाई पति गुलाबसिंह जाति कहार सा देह	225	3	32	49
29	भूरेसिंग पिता गुलाबसिंग पिंकीबाई पति भूरेसिंग जाति कहार सा देह	225	3	33	50
30	जगदीश पिता दामा कंचनबाई पति जगदीश जाति कहार सा देह	225	3	34	97
31	सुकलाल पिता जोगीलाल गेंदाबाई पति सुकलाल जाति कहार सा देह	225	3	36	10
32	राजाराम पिता नथू नानूबाई पति राजाराम जाति मानकर सा देह	225	3	37	55
33	लच्छु पिता भगन मनुबाई पति लच्छु जाति मानकर सा देह	225	3	38	41
34	शंकर पिता भगन पारुबाई पति शंकर जाति मानकर सा देह	225	3	39	50
35	अनोखीबाई बेवा मोतीलाल जाति मानकर सा देह	225	3	40	40
36	रमेश पिता हेमराज बुदीबाई पति हेमराज जाति कहार सा देह	225	3	41	60
37	बाबूलाल पिता हेमराज लीलूबाई पति बाबूलाल जाति कहार सा देह	225	3	42	56
38	किशन पिता हेमराज शांताबाई पति किशन जाति कहार सा देह	225	3	43	50
39	राजू पिता रमेश छायाबाई पति राजू जाति कहार सा देह	225	3	45	68
40	बाबूलाल पिता हेमराज लीलूबाई पति बाबूलाल जाति कहार सा देह ब नं 42	225	3	46	27
41	किशन पिता हेमराज शांताबाई पति किशन जाति कहार सा देह	225	3	47	25
42	गणेश पिता इश्वरलाल सुभद्राबाई पति गणेश जाति कहार सा देह	225	3	48	41
43	मोहन पिता दामा सुमनबाई पति मोहन जाति कहार सा देह	225	3	49	88
44	बेबीबाई पिता नथू जाति मानकर सा देह	225	3	50	66
45	राधाबाई पति मनोहर जाति मानकर सा देह	225	3	51	53
46	कुसुमभाई पिता भीलू जाति मानकर सा देह	225	3	52	84
47	सरदार पिता नथू सेवन्तीबाई पति सरदार जाति मानकर सा देह	225	3	54	8
48	सुल्तान पिता नथू शिवकन्या पति सुल्तान जाति मानकर सा देह	225	3	55	28
49	नथू पिता भगन कमलाबाई पति नथू जाति मानकर सा देह	225	3	56	36
50	महादेव पिता सायबा शांताबाई पति महादेव जाति मानकर सा देह	225	3	57	5
51	कैलाश पिता सायबा सुभद्राबाई पति कैलाश जाति मानकर सा देह	225	3	58	29
52	सकरीबाई बेवा पूरन जाति मानकर सा देह	225	3	59	24
53	रामेश्वर पिता मांगीलाल दुर्गाबाई पति रामेश्वर जाति मानकर सा देह	225	3	60	32
54	महेश पिता गला मायाबाई पति महेश जाति मानकर सा देह	225	3	61	13
55	काशीराम पिता दयाराम बसुबाई पति काशीराम जाति कहार सा देह	225	3	62	73
56	मंशाराम पिता सुकलाल सकुबाई पति मंशाराम जाति कहार सा देह	225	3	63	44
57	राकेश पिता दयाराम रेखाबाई पति राकेश जाति कहार सा देह	225	3	64	34
58	लक्ष्मीबाई बेवा शोभाराम जाति कहार सा देह ब नं 99	225	3	65	33
59	अरुणाबाई पति भुरु जाति कहार सा देह	225	3	66	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	मुनिया पिता शोभाराम सुभद्राबाई पति मुनिया जाति कहार सा देह ब नं 98	225	3	67	50
61	विकम पिता लक्ष्मण जसोदाबाई पति विकम जाति कहार सा देह	225	3	68	46
62	शेरू पिता शोभाराम मायाबाई पति शेरू जाति कहार सा देह	225	3	69	37
63	शांतीलाल पिता दयाराम कावेरीबाई पति शांतीलाल जाति कहार सा देह	225	3	70	32
64	संजय पिता शांतीलाल अनिताबाई पति संजय जाति कहार सा देह	225	3	71	32
65	कैलाश पिता शोभाराम प्यारीबाई पति कैलाश जाति कहार सा देह	225	3	72	60
66	दयाराम पिता पुन्या गीताबाई पति दयाराम जाति कहार सा देह	225	3	73	60
67	गोकुल पिता शोभाराम शांताबाई पति गोकुल जाति कहार सा देह	225	3	74	62
68	लालसिंह पिता पांचीलाल शांताबाई पति लालसिंह जाति कहार सा देह	225	3	75	37
69	करण पिता पांचीलाल अनुबाई पति करण जाति कहार सा देह	225	3	76	73
70	शेरू पिता छितू शिवकूवरबाई पति शेरू जाति कहार सा देह	225	3	77	53
71	प्रेमचंद पिता पांचीलाल लताबाई पति प्रेमचंद जाति कहार सा देह	225	3	78	48
72	भैया पिता जगदीश सीमाबाई पति भैया जाति कहार सा देह	225	3	79	34
73	नवीन पिता अम्बाराम ममताबाई पति नवीन जाति कहार सा देह	225	3	80	24
74	बसन्तीबाई बेवा सखाराम जाति कहार सा देह	225	3	81	16
75	दरियाव पिता जोग्या कंचनबाई पति दरियाव जाति कहार सा देह	225	3	82	18
76	रामा पिता मकुन्द श्याणीबाई पति रामा जाति कहार सा देह	225	3	83	18
77	सुभाष पिता राजाराम दुर्गाबाई पति सुभाष जाति कहार सा देह	225	3	84	45
78	तासाबाई पति कैलाश जाति कहार सा देह	225	3	85	41
79	दिनेश पिता तोताराम लताबाई पति दिनेश जाति कहार सा देह	225	3	86	34
80	संतोष पिता बाबूलाल उषाबाई पति संतोष जाति कहार सा देह	225	3	87	12
81	सुल्या पिता बाबू कंचनबाई पति सुल्या जाति कहार सा देह	225	3	88	12
82	मांगीबाई बेवा भोलू जाति कहार सा देह	225	3	89	27
83	सुकराम पिता कडवा मधुबाई पति सुकराम जाति कहार सा देह	225	3	90	40
84	सुमेर पिता कडवा दुर्गाबाई पति सुमेर जाति कहार सा देह	225	3	92	30
85	कैलाश पिता भगवान पुनीबाई पति कैलाश जाति कहार सा देह	225	3	94	22
86	गणेश पिता गोकुल उषाबाई पति गणेश जाति कहार सा देह	225	3	95	33
87	घासीराम पिता गोकुल सपनाबाई पति घासीराम जाति कहार सा देह	225	3	96	12
88	ननू पिता खुशियाल ग्यारसीबाई पति ननू जाति कहार सा देह	225	3	97	29
89	मुनिया पिता शोभाराम सुभद्राबाई पति मुनिया जाति कहार सा देह	225	3	98	26
90	लक्ष्मीबाई बेवा शोभाराम जाति कहार सा देह ब नं 65	225	3	99	1107
91	महादेव पिता दगडू गंगाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	225	3	101	2
92	हकीम पिता नजरअली सलमाबी पति हकीम जाति पिंजारा सा देह	225	3	102	43
93	सरदार पिता गोपाल	225	3	103	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	कैलाश पिता मांगीलाल	225	3	104	2
95	सुकदेव पिता श्रीराम	225	3	105	2
96	कैलाश पिता रमेश	225	3	106	3
97	वासुदेव पिता हरिराम	225	3	107	3
98	महादेव पिता नथू	225	3	108	2
99	गजानंद पिता गेंदालाल	225	3	109	2
100	इन्द्रसिंह	225	3	110	2
101	बलराम	225	3	111	2
102	मोहन	225	3	112	2
103	ग्राम पंचायत धरगांव	225	3	113	3
104	कमलेश पिता राधेश्याम इन्दूबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	225	3	114	3
105	किशन पिता हेमराज शांताबाई पति किशन जाति कहार सा देह	225	3	41/ 187	21
106	दिलिपसिंह पिता कालूसिंह कोमलबाई पति दिलिपसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	146	30
107	महादेव पिता मांगीलाल रेखाबाई पति महादेव जाति राजपूत सा देह	306	1	149	45
108	रमेश पिता बोंदर अनोखीबाई पति रमेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	150	195
109	गीताबाई पति रमेशचंद कैलाशचंद पिता रमेशचंद सुनिताबाई पति कैलाशचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	152	220
110	शंकर पिता घीसालाल मांगीबाई पति शंकर जाति पाटीदार सा देह	306	1	153	61
111	मोहनलाल पिता घीसालाल रामकुवरबाई पति मोहनलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	154	60
112	जगदीश पिता रणछोड जसोदाबाई पति जगदीश जाति पाटीदार सा देह	306	1	155	55
113	देवनारायण पिता जगदीश रुकमणीबाई पति देवनारायण जाति पाटीदार सा देह	306	1	156	52
114	शंकर पिता गोपीचंद नानूबाई पति शंकर जाति पाटीदार सा देह	306	1	157	60
115	महेशचंद पिता मंशाराम उषाबाई पति महेशचंद जाति नाई सा देह	306	1	158	78
116	दिनेश पिता मंशाराम राजश्रीबाई पति दिनेश जाति नाई	306	1	159	78
117	रमेश पिता मंशाराम रमिलाबाई पति रमेश जाति नाई सा देह	306	1	160	78
118	जगदीश पिता मंशाराम रेवाबाई पति जगदीश जाति नाई सा देह	306	1	161	78
119	काजलबाई बेवा रणछोड जाति पाटीदार सा देह	306	1	162	56
120	ओमप्रकाश पिता रणछोड सुनिताबाई पति ओमप्रकाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	163	58
121	भगवान पिता मांगीलाल सरसतबाई पति भगवान जाति पाटीदार सा देह	306	1	164	76
122	दुलिचंद पिता रणछोड बसुबाई पति दुलिचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	165	180
123	महादेव पिता नथ्यूजी जिराती राधाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	166	88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124	गुलाबबाई बेवा कन्हैयालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	169	52
125	पुनमचंद पिता धीसालाल सावित्रीबाई पति पुनमचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	175	86
126	दिनेश पिता भगवान लताबाई पति दिनेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	176	72
127	रमेश पिता भगवान निर्मलाबाई पति रमेश मनोज पिता रमेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	177	92
128	विष्णु पिता शंकर मायाबाई पति विष्णु जाति पाटीदार सा देह	306	1	178	145
129	ओमप्रकाश पिता रामेश्वर पिंकीबाई पति ओमप्रकाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	179	100
130	बलराम पिता बहादरसिंह भारतीबाई पति बलराम जाति राजपूत सा.देह	306	1	190	66
131	पाटीदार समाज व्यवस्थापक अम्बाराम पिता बाबूलाल गायत्रीबाई पति अम्बाराम राधेश्याम पिता मांगीलाल उर्मिलाबाई पति राधेश्याम कन्हैया पिता औंकार कुसुमबाई पति कन्हैया जाति पाटीदार सा देह	306	1	232	65
132	विष्णु पिता रामचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	233	70
133	रामेश्वर पिता रणछोड प्रभाबाई पति रामेश्वर जाति पाटीदार सा देह	306	1	234	120
134	यामलाल पिता नारायण मनोरमाबाई पति श्यमलाल जाति ब्राह्मण सा देह	306	1	236	109
135	आशिष पिता अनोकचंद किरणबाई पति आशिष जाति पाटीदार सा देह	306	1	237	39
136	कालू पिता नत्थु राधाबाई पति कालू जाति पाटीदार सा देह	306	1	238	110
137	अनोकचंद पिता उंकार दुर्गाबाई पति अनोकचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	239	56
138	गंगाबाई बेवा उंकार जाति पाटीदार सा देह	306	1	240	33
139	हुकुमचंद पिता उंकार लक्ष्मीबाई पति हुकुमचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	241	33
140	रामलाल पिता बालूजी लक्ष्मीबाई पति रामलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	242	49
141	भगवान पिता बालूजी कोमलबाई पति भगवान जाति पाटीदार सा देह	306	1	243	49
142	गणपत पिता बालूजी रुकमणीबाई पति गणपत जाति पाटीदार सा देह ब नं 363	306	1	244	49
143	सुषमा पिता श्यामलाल जाति ब्राह्मण सा देह	306	1	245	26
144	दशरथ पिता बालूजी भागवतीबाई पति दशरथ जाति पाटीदार सा देह	306	1	246	49
145	महेश पिता सुकलाल ज्योतीबाई पति महेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	247	63
146	कैलाश पिता सुकलाल विघाबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	248	61
147	विजय पिता जगदीश जाति पाटीदार सा देह	306	1	249	25
148	शंकर पिता हीरालाल अन्नपूर्णबाई पति शंकर जाति पाटीदार सा देह	306	1	250	15
149	अजय पिता शंकर वर्षबाई पति अजय जाति पाटीदार सा देह	306	1	251	68
150	सुखलाल पिता सीताराम गीताबाई पति सुखलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	253	65
151	मदरूपसिंह पिता सिगदारसिंह गेंदाबाई पति मदरूपसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	254	234

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
152	जानकीबाई बेवा नारायण लोकराम चेतराम पिता नारायण अनिताबाई पति लोकराम ममताबाई पति चेतराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	255	175
153	मदरूपसिंह पिता सिगदारसिंह गेंदबाई पति मदरूपसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	256	120
154	नथू पिता बोखार साउबाई पति नथू जाति पाटीदार सा देह	306	1	257	50
155	राधाकृष्ण पिता गजानंद अनिताबाई पति राधाकृष्ण जाति पाटीदार सा देह	306	1	258	50
156	अखिलेश पिता जयराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	259	185
157	डालूराम पिता रणछोड भागवतीबाई पति डालूराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	261	150
158	लीलाबाई बेवा हरीशचंद्र जाति पाटीदार सा देह	306	1	262	115
159	कैलाश पिता मांगीलाल जगनाबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	263	115
160	नरेन्द्र पिता कैलाश सारिकाबाई पति नरेन्द्र जाति पाटीदार सा देह	306	1	265	40
161	गीताबाई बेवा रेवाजी जाति पाटीदार सा देह	306	1	266	62
162	सीताराम पिता मकुन्द जाति पाटीदार सा देह	306	1	267	36
163	पूनमचंद पिता मकुंद लक्ष्मीबाई पति पुनमचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	268	62
164	बादल पिता पूनमचंद बरखाबाई पति बादल जाति पाटीदार सा देह	306	1	269	17
165	कन्हैयालाल पिता औंकारजी कुसुमबाई पति कन्हैयालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	270	155
166	रेवाबाई बेवा मोतीलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	271	40
167	अजुध्याबाई बेवा गजानंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	272	108
168	बाबूलाल पिता भगवान शांताबाई पति बाबूलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	273	226
169	जैराम पिता मोतीलाल विमलाबाई पति जैराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	274	68
170	भगवान पिता मोतीलाल नर्मदाबाई पति भगवान जाति पाटीदार सा देह	306	1	275	68
171	राधेश्याम पिता जगन्नाथ उषाबाई पति राधेश्याम जाति सोनी सा देह	306	1	276	50
172	रामलाल पिता जगन्नाथ इंदूबाई पति रामलाल जाति सोनी सा देह	306	1	277	50
173	राजनाथ पिता जगन्नाथ कडवीबाई पति राजनाथ जाति सोनी सा देह	306	1	278	50
174	शांतीलाल पिता जगन्नाथ बिंदूबाई पति शांतीलाल जाति सोनी सा देह	306	1	279	50
175	कृष्णचंद पिता मोतीराम कंचनबाई पति कृष्णचंद जाति पाटीदार सा देह ब नं 372	306	1	281	90
176	विष्णु पिता मोतीराम सावित्रीबाई पति विष्णु जाति पाटीदार सा देह	306	1	282	63
177	संतोष पिता श्रीराम प्रमिलाबाई पति संतोष जाति पाटीदार सा देह	306	1	283	26
178	श्रीराम पिता मोतीलाल सीताबाई पति श्रीराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	284	127
179	सुभाष पिता मांगीलाल उर्मिलाबाई पति सुभाष जाति राजपूत सा देह	306	1	285	40
180	भुरेसिंह पिता मांगीलाल रेखाबाई पति भुरेसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	288	20
181	कृष्णपूरी पिता मोतीपुरी राधाबाई पति कृष्णपूरी जाति गोस्वामी सा देह	306	1	290	85
182	मोहनपुरी पिता मोतीपुरी राधाबाई पति मोतीपुरी जाति गोस्वामी सा देह	306	1	291	85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
183	कालूपुरी पिता मोतीपुरी जानकीबाई पति कालूपुरी जाति गोस्वामी सा देह	306	1	292	64
184	विष्णुपुरी पिता कालूपुरी रुकमणीबाई पति कालूपुरी जाति गोस्वामी सा देह	306	1	293	23
185	महेशपुरी पिता कालूपुरी किरणबाई पति महेशपुरी जाति गोस्वामी सा देह	306	1	294	30
186	सुरजबाई बेवा भगवान जाति गोस्वामी सा देह	306	1	295	85
187	पुष्पबाई बेवा महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	296	92
188	कुसुमबाई पिता महादेव गीर जाति गोस्वामी सा देह	306	1	297	85
189	कमलेश पिता राधेश्याम इन्दूबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	298	58
190	अनोखीबाई पति रमेश देरेन्द्र पिता रमेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	299	200
191	शिवगीर पिता महादेवगीर प्रभाबाई पति शिवगीर जाति गोस्वामी सा देह	306	1	300	85
192	हरिराम पिता शंकर रमाबाई पति हरिराम जाति पाटीदार सा देह ब नं 306	306	1	302	65
193	गुलाबबाई बेवा शोभाराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	303	25
194	जयराम पिता राजाराम रमाबाई पति जयराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	304	129
195	श्रीराम पिता शोभाराम कलाबाई पति श्रीराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	305	165
196	हरिराम पिता शंकर रमाबाई पति हरिराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	306	194
197	मोहनबाई बेवा गोपालसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	307	135
198	प्रेमबाई पिता गोपालसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	308	65
199	सुमनबाई बेवा अमरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	309	65
200	सुकदेव पिता अमरसिंह रेखाबाई पति सुकदेव जाति राजपूत सा देह	306	2	310	32
201	भुरेसिंह पिता रतनसिंह गोदाबाई पति रतनसिंह जाति राजपूत सा देह ब नं 317	306	2	312	45
202	बहादरसिंह पिता रतनसिंह दुर्गाबाई पति बहादरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	314	35
203	जसुबाई बेवा विक्रमसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	315	21
204	किशोरसिंह पिता रतनसिंह अंगूरबाला पति किशोरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	316	75
205	भुरेसिंह पिता रतनसिंह गोदाबाई पति रतनसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	317	75
206	रामनारायण पिता गणपत अन्नपूर्णबाई पति रामनारायण जाति सुतार सा देह	306	2	318	165
207	जसवंतसिंह पिता रामसिंह जतनबाई पति जसवंतसिंह ,दिपक पिता जसवंतसिंह कविताबाई पति दिपक , नहारसिंह पिता जसवंतसिंह मायाबाई पति नहारसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	319	167
208	शेरसिंह पिता जसवंतसिंह जमनाबाई पति शेरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	320	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
209	प्रतापसिंह पिता जसवंतसिंह चन्द्रकांताबाई पति प्रतापसिंह जाति राजपूत सा.देह	306	2	321	88
210	रणछोड पिता गोपाल आनन्दबाई पति रणछोड जाति सुतार सा देह	306	2	322	125
211	अमरसिंह पिता कनकसिंह कमलाबाई पति अमरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	323	55
212	राधेश्याम पिता रणछोड भागवतीबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	2	324	162
213	जगदीश पिता मंशाराम रेवाबाई पति जगदीश जाति राजपूत सा.देह	306	2	325	22
214	महेश पिता मंशाराम उषाबाई पति महेश जाति सेन सा देह ब नं 158	306	2	326	22
215	दिनेश पिता मंशाराम राजश्रीबाई पति दिनेश जाति नाई ब नं 159	306	2	327	22
216	रमेश पिता मंशाराम रमिलाबाई पति रमेश जाति नाई सा देह	306	2	328	22
217	मथुरालाल पिता मांगीलाल भागवतीबाई पति मथुरालाल जाति सुतार सा देह	306	2	330	102
218	मोहनलाल पिता रतन रुकमणीबाई पति मोहनलाल जाति सुतार सा देह	306	2	331	145
219	विमलसिंह पिता मदरूपसिंह राधाबाई पति विमलसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	332	50
220	राजेशसिंह पिता मदरूपसिंह अजुध्याबाई पति राजेशसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	333	28
221	दिनेशसिंह पिता मदरूपसिंह बसुबाई पति दिनेशसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	334	32
222	गेंदाबाई पति मदरूपसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	335	50
223	श्रीराम मंदिर सार्वजनिक ब नं 341	306	2	336	145
224	भारतसिंह पिता कालूसिंह, लक्ष्मीबाई पति भारतसिंह, दिलिप, कमल, कैलाश पिता कालूसिंह, कोमलबाई पति दिलिप, अनिताबाई पति कमल, भागवतीबाई पति कैलाश, कंचनबाई बेवा कालूसिंह, जाति राजपूत सा देह	306	2	337	85
225	देवधर पिता रामेश्वर शांताबाई पति देवधर जाति ब्राह्मण सा देह	306	2	338	46
226	संतोष पिता सीताराम प्रमिलाबाई पति संतोष जाति पाटीदार सा देह	306	2	340	10
227	सार्वजनिक श्रीराम मंदिर ब नं 336	306	2	341	18
228	जानकीबाई बेवा दशरथ जाति पाटीदार सा देह	306	2	343	155
229	गणेश पिता बाल्या जाति भारूड सा देह	306	2	344	130
230	नजरजली पिता नूरा समसिरबी पति नजरअली जाति पिंजारा सा देह	306	2	346	1032
231	सुभाष पिता एडू मायाबाई पति सुभाष जाति मानकर सा देह	306	2	347	38
232	महेश पिता एडू लंक्ष्मीबाई पति महेश जाति मानकर सा देह	306	2	348	38
233	एडू पिता तेजा धनुबाई पति एडू जाति मानकर सा देह ब नं 352	306	2	349	45
234	महादेव पिता शंकर प्रमिलाबाई पति महादेव भोलू पिता नथू लीलाबाई पति भोलू बुलचंद पिता नथू रमूबाई पति बुलचंद जाति पाटीदार सा देह	306	2	350	157
235	मंगत पिता एडू लीलाबाई पति मंगत जाति मानकर सा देह	306	2	351	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
236	एङ्गु पिता तेजा धनुबाई पति एङ्गु जाति मानकर सा देह ब नं 349	306	2	352	8
237	मुकेश पिता जगदीश जाति पाटीदार सा देह	306	2	354	106
238	श्री अम्बिका बाल मंदिर ग्राम सुलगांव	306	2	355	273
239	नवाबखां पिता जुम्माखां रझाबाई पति नवाबखां जाति पिंजारा सा देह	306	2	356	160
240	मोहन पिता ताराचंद सोनूबाई पति मोहन जाति पाटीदार सा देह	306	2	357	39
241	अनोकचंद पिता उंकार दुर्गाबाई पति अनोकचंद जाति पाटीदार सा देह	306	2	358	48
242	शासकीय सर्व शिक्षा अभियान स्कूल	306	2	360	210
243	रामलाल पिता बालूजी लक्ष्मीबाई पति रामलाल जाति पाटीदार सा देह	306	2	362	40
244	गणपत पिता बालूजी रुकमणीबाई पति गणपत जाति पाटीदार सा देह	306	2	363	57
245	सार्वजनिक शिवजी की डेरी	306	2	367	6
246	कृष्णचंद पिता सीताराम रुकमणीबाई पति कृष्णचंद जाति पाटीदार सा देह	306	2	368	219
247	कैलाश पिता रमेश सुनिताबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	2	369	606
248	चम्पाबाई बेवा बोंदर जाति पाटीदार सा देह	306	2	370	151
249	जानकीबाई बेवा राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	2	371	75
250	कृष्णचंद पिता मोतीराम कंचनबाई पति कृष्णचंद जाति पाटीदार सा देह	306	2	372	100
251	विष्णु पिता मोतीराम सावित्रीबाई पति विष्णु जाति पाटीदार सा देह ब नं 282	306	2	373	100
252	प्यारीबाई बेवा भगवान जाति सुतार सा देह	306	2	374	100
253	राधेश्याम पिता गणपत सेवन्तीबाई पति राधेश्याम जाति सुतार सा देह	306	2	376	125
254	मांगीलाल पिता गणपत जाति सुतार सा देह	306	2	377	111
255	दतक पुत्र प्रेमचंद पिता मांगीलाल जाति सुतार सा देह	306	2	378	122
256	लक्ष्मण पिता भगवान विघाबाई पति लक्ष्मण जाति सुतार सा देह	306	2	379	134
257	राधेश्याम पिता गणपत सेवन्तीबाई पति राधेश्याम जाति सुतार सा देह	306	2	380	48
258	मांगीलाल पिता गणपत दतक पुत्र प्रेमचंद पिता मांगीलाल जाति सुतार सा देह	306	2	381	50
259	रामनारायण पिता गणपत अन्नपूर्णाबाई पति रामनारायण जाति सुतार सा देह	306	2	382	50
260	गंगाबाई बेवा देवनारायण जाति पाटीदार सा देह ब न 139	306	2	383	50
261	लक्ष्मण पिता भगवान विघाबाई पति लक्ष्मण जाति सुतार सा देह	306	2	385	92
262	किशोरसिंह पिता रतनसिंह अंगूरबाला पति किशोरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	386	102
263	ओमप्रकाश पिता शिवगीर जाति गोस्वामी सा देह	306	2	387	30
264	राधेश्याम पिता गणपत सेवन्तीबाई पति राधेश्याम जाति सुतार सा देह	306	2	388	24
265	रामनारायण पिता गणपत अन्नपूर्णाबाई पति रामनारायण जाति सुतार सा देह	306	2	389	70
266	विजयसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	392	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
267	हबीबखौं पिता नजीरखौं हसीनाबी पति हबीबखौं जाति पिंजारा सा देह	306	2	394	53
268	अकरमखौं पिता हबीबखौं नजमाबी पति अकरमखौं जाति पिंजारा सा देह	306	2	395	76
269	अकलीमखौं पिता हबीबखौं रज्जूबी पति अकलीमखौं जाति पिंजारा सा देह	306	2	396	89
270	हकीम पिता नजरअली सलमाबी पति हकीम जाति पिंजारा सा देह	306	2	397	88
271	करीम पिता नजरअली रुबीबी पति करीम जाति पिंजारा सा देह	306	2	398	65
272	मेहबूबखौं पिता मुशीखौं मदीनाबी पति मेहबूबखौं जाति पिंजारा सा देह	306	2	399	118
273	रसीदाबी पति हबीबखौं जाति पिंजारा सा देह	306	1	254/ 404	16
274	जुम्मा पिता नूरा जाति पिंजारा सा देह	306	1	254/ 405	172
275	हुसैनखौं पिता सुलेमानखौं जैतूनबी पति हुसैनखौं जाति पिंजारा सा देह	306	1	254/ 406	91
276	प्रमसिंह पिता अमरसिंह उर्मिलाबाई पति प्रेमसिंह जाति राजपूत सा देह	306	2	364/ 408	111
277	अजुध्याबाई बेवा गजानंद भगवान जैराम पिता मोतीलाल नर्मदाबाई पति भगवान विमलाबाई पति जैराम जाति पाटीदार सा देह	306	2	364/ 409	325
278	महेश पिता कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	233/ 411	70
279	भगवान पिता सुकलाल गोंराबाई पति भगवान जाति चमार सा देह	217/1	4	118	18
280	धन्नालाल पिता सुकलाल बसुबाई पति धन्नालाल जाति चमार सा देह	217/1	4	119	51
281	रमेश पिता सुकलाल कडवीबाई पति रमेश जाति चमार सा देह	217/1	4	120	16
282	भूरेसिंह पिता पुनिया कोमलबाई पति भूरेसिंह जाति भील सा देह	217/1	4	122	55
283	मेवालाल पिता सुकराम मांगीबाई पति मेवालाल जाति भील सा देह	217/1	4	123	173
284	नत्थू पिता मंडया नानीबाई पति नत्थू जाति भीलाला सा देह	217/1	4	124	75
285	गोविंद पिता नत्थू राधाबाई पति गोविंद जाति भील सा देह	217/1	4	125	31
286	राकेश पिता छितू सायराबाई पति राकेश जाति भील सा देह	217/1	4	127	62
287	अमरिया पिता पूजा मानूबाई पति अमरिया जाति भील सा देह	217/1	4	128	68
288	सुखिया पिता ताकडिया फुलकीबाई पति सुखिया जाति भील सा देह	217/1	4	129	20
289	मंडया पिता गपू नंदाबाई पति मंडया जाति भील सा देह	217/1	4	130	39
290	कन्हैया पिता मांगीलाल सुमनबाई पति कन्हैया जाति भील सा देह	217/1	4	132	175
291	रमेश पिता सीताराम मुन्नीबाई पति रमेश जाति भील सा देह	217/1	4	133	48
292	मांगीलाल पिता गोपाल छगनबाई पति मांगीलाल जाति भील सा देह	217/1	4	134	35
293	किशोर पिता कालू भूरीबाई पति किशोर जाति भील सा देह	217/1	4	135	48
294	कैलाश पिता सखाराम कडवीबाई पति कैलाश जाति बलाई सा देह	217/1	4	136	20
295	भोलू पिता जयराम जाति मानकर सा देह	217/1	4	138	75
296	मांगीलाल पिता छगन मंजूबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	217/1	4	139	30
297	जीवा पिता नरसिंग ज्ञानीबाई पति जीवा जाति बलाई सा देह	217/1	4	140	370
298	फुंदाबाई बेवा मोहन जाति भील सा देह	217/1	4	141	66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
299	नकल्या पिता भोलू गंगाबाई पति नकल्या जाति भील सा देह	217/1	4	142	10
300	महेश पिता नकल्या निर्मलाबाई पति महेश जाति भील सा देह	217/1	4	143	22
301	राजू पिता अम्बाराम धनुबाई पति राजू जाति भील सा देह	217/1	4	144	44
302	राकेश पिता अम्बाराम मायाबाई पति राकेश जाति भील सा देह	217/1	4	145	34
303	तेजू पिता अम्बाराम सकूबाई पति तेजू जाति भील सा देह	217/1	4	147	48
304	मोहन पिता छगन भागवतीबाई पति मोहन जाति भील सा देह	217/1	4	148	70
305	सुनिल पिता मोहन सजनबाई पति सुनिल जाति भील सा देह	217/1	4	149	53
306	संतोष पिता रामलाल जाति राजपूत सा देह	217/1	4	151	72
307	मनोहरसिंह पिता बाबूसिंह सुनिताबाई पति मनोहरसिंह जाति राजपूत सा देह	217/1	4	152	36
308	राधेश्याम पिता रामलाल राधाबाई पति राधेश्याम जाति राजपूत सा देह	217/1	4	153	100
309	अजबबाई बेवा दगडू जाति राजपूत सा देह	217/1	4	154	23
310	प्राथमिक शाला भवन	217/1	4	155	210
311	सुकलाल पिता रणछोड कालीबाई पति सुकलाल जाति मानकर सा देह	217/1	4	156	63
312	नयन पिता रणछोड कालीबाई पति नयन जाति मानकर सा देह	217/1	4	157	57
313	जमनाबाई बेवा प्रताप अनिल पिता प्रताप सलूबाई पति अनिल जाति	217/1	4	158	65
314	श्रवण पिता रणछोड समोतीबाई पति श्रवण जाति मानकर सा देह	217/1	4	159	87
315	तुलसीबाई बेवा रणछोड जाति मानकर सा देह	217/1	4	160	33
316	झबरसिंह पिता रणछोड मनुबाई पति झबरसिंह जाति मानकर सा देह	217/1	4	161	85
317	धर्मेन्द्र पिता आनन्दराम छायाबाई पति धर्मेन्द्र जाति बरगुंडा सा देह	217/1	4	163	25
318	मांगीलाल पिता छितर सुभद्राबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	217/1	4	164	33
319	छितर पिता पुनया मरुबाई पति छितर जाति बलाई सा देह	217/1	4	165	8
320	राधेश्याम पिता शीवा रेखाबाई पति राधेश्याम जाति बलाई सा देह	217/1	4	166	24
321	राधाबाई पति मोहन जाति बलाई सा देह	217/1	4	167	28
322	भगवान पिता महादेव वंदना पति भगवान जाति बलाई सा देह	217/1	4	168	50
323	महादेव पिता बनसिंग जानकीबाई पति महादेव जाति बलाई सा देह	217/1	4	169	57
324	अनुबाई बेवा रामा जाति भारूड सा देह	217/1	4	170	72
325	कन्हैया पिता रामा आशाबाई पति कन्हैया जाति भारूड सा देह	217/1	4	171	76
326	मेहताबसिंह पिता मनोहरसिंह लताबाई पति मेहताबसिंह जाति राजपूत सा देह	217/1	4	172	104
327	गजराजसिंह पिता मनोहरसिंह अलकाबाई पति गजराजसिंह जाति राजपूत सा देह	217/1	4	173	100
328	मनू पिता बाउ प्रमिलाबाई पति मनू जाति मानकर सा देह	217/1	4	174	93
329	बनस्यो पिता बाउ सुमनबाई पति बनस्यो जाति मानकर सा देह	217/1	4	175	93
330	रमेश पिता बाउ मंगतीबाई पति रमेश जाति मानकर सा देह	217/1	4	176	90
331	भगवान पिता बाउ सुमनबाई पति भगवान जाति मानकर सा देह	217/1	4	177	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
332	सेवन्तीबाई पति अनारसिंह जाति मानकर सा देह	217/1	4	178	18
333	भुवानीराम पिता भीमा लक्ष्मीबाई पति भुवानीराम जाति मानकर सा देह	217/1	4	179	108
334	भीमा पिता दला नबोबाई पति भीमा जाति मानकर सा देह	217/1	4	180	90
335	राधेश्याम पिता भीमा रुकमणीबाई पति राधेश्याम जाति मानकर सा देह	217/1	4	181	82
336	गेंदालाल पिता फुलचंद मुन्नीबाई पति गेंदालाल जाति बरगुंडा सा देह	217/1	4	182	42
337	बालू पिता फुलचंद लक्ष्मीबाई पति बालू जाति बरगुंडा सा देह	217/1	4	183	38
338	बंदू पिता फुलचंद कमुबाई पति बंदू जाति बरगुंडा सा देह	217/1	4	184	23
339	आनन्दराम पिता फुलचंद उषाबाई पति आनन्दराम जाति बरगुंडा सा देह	217/1	4	185	10
340	कालू पिता नारायण गीताबाई पति कालू जाति मानकर सा देह	217/1	4	186	5
341	कैलाश पिता कालूजी, कमलाबाई पति कैलाश	306	1	22 पैकी	16
342	राधेश्याम पिता बाबूलाल, आशाबाई पति राधेश्याम ब्राह्मण सा.देह	306	1	23 पैकी	2
343	शिवशंकर पिता हीरालाल कुसुमबाई पति शिवशंकर जाति पाटीदार सा देह	306	1	26 पैकी	46
344	रामलाल पिता लक्ष्मण भागवतीबाई पति रामलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	28 पैकी	65
345	सीताबाई बेवा रेवाजी जाति पाटीदार सा देह	306	1	29	95
346	महादेव पिता धीसाजी सुरेलाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	31	36
347	धीसालाल पिता दगडूजी जानकीबाई पति धीसालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	32	50
348	विष्णु पिता धीसालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	33	28
349	बाबूलाल पिता लक्ष्मण कमलाबाई पति बाबूलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	34 पैकी	55
350	महादेव पिता रेवाजी गौराबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	35 पैकी	25
351	गेंदालाल पिता शोभाराम मंगतीबाई पति गेंदालाल जाति सेन सा देह	306	1	36 पैकी	7
352	कनकासिंह पिता दरियावसिंह कुसुमबाई पति कनकासिंह जाति राजपूत सा.देह	306	1	42 पैकी	280
353	शोभाराम पिता त्रिलोकसिंह बसन्तीबाई पति शोभाराम जाति राजपूत सा देह	306	1	43 पैकी	59
354	भगवानसिंह पिता भुक्कण ग्यारसीबाई पति भगवानसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	44 पैकी	30
355	ताराबाई बेवा खुमानसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	45 पैकी	5
356	दयालसिंह पिता कालूसिंह तुलसीबाई पति दयालसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	49 पैकी	70
357	बाघसिंह पिता कालूसिंह फलकुवरबाई पति बाघसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	50	88
358	जगदीश पिता कालूसिंह गायत्रीबाई पति जगदीश जाति राजपूत सा देह	306	1	51	50
359	अंतरसिंह पिता कालूसिंह भागवतीबाई पति अंतरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	52	70
360	सलिताबाई बेवा पूनमचंद जाति राजपूत सा देह	306	1	53	81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
361	लखनसिंह पिता पूनमचंद गंगाबाई पति लखनसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	54	80
362	सुरेश पिता पूनमचंद रामकुवरबाई पति सुरेश जाति राजपूत सा देह	306	1	55	81
363	हिम्मतसिंह पिता पूनमचंद गायत्रीबाई पति हिम्मतसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	56	81
364	गीताबाई बेवा कालूसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	57	92
365	दिपक पिता अंतरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	58	95
366	दिनेश पिता कन्हैयालाल कुसुंमबाई पति दिनेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	59	206
367	जितेन्द्र पिता सदाशिव ज्योतीबाई पति जितेन्द्र जाति पाटीदार सा देह	306	1	60	18
368	राधेश्याम पिता चैनसिंह उमाबाई पति राधेश्याम जाति राजपूत सा देह	306	1	62	36
369	श्रीराम पिता राधेश्याम उमाबाई पति श्रीराम जाति राजपूत सा देह	306	1	63	27
370	लखन पिता राधेश्याम देवकन्याबाई पति लखन जाति राजपूत सा देह ब नं 186	306	1	64	35
371	बलराम पिता बहादरसिंह भारतीबाई पति बलराम जाति राजपूत सा देह	306	1	66	15
372	हनुमान मंदिर	306	1	69	40
373	दिनेश पिता कालूराम मायाबाई पति दिनेश जाति भारूड सा देह	306	1	70	58
374	कालू पिता नाथू कुशलबाई पति कालू जाति भारूड सा देह	306	1	71	50
375	महेश पिता कालू मायाबाई पति महेश जाति भारूड सा देह	306	1	72	35
376	मांगीबाई बेवा बाबू जाति मेवाड़िया सा देह	306	1	73	34
377	गणेश पिता बाबू भागवतीबाई पति गणेश जाति मेवाड़िया सा देह	306	1	74	57
378	रेवाराम पिता बाबूलाल लूकरबाई पति रेवाराम जाति मेवाड़िया सा देह	306	1	75	26
379	रमेश पिता बाबू जसूबाई पति रमेश जाति मेवाड़िया सा देह	306	1	76	30
380	दयाराम पिता पेमाजी गौराबाई पति दयाराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	78	91
381	सत्यनारायण पिता दयाराम उषाबाई पति सत्यनारायण जाति पाटीदार सा देह	306	1	79	92
382	रामचंद पिता द्वारका आनन्दबाई पति रामचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	80	65
383	कैलाश पिता द्वारका नर्मदाबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	81	51
384	द्वारकाजी पिता पेमाजी पार्वतीबाई पति द्वारकाजी जाति पाटीदार सा देह	306	1	82	38
385	महादेव पिता द्वारकाजी भागवतीबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	83	83
386	मुकेश पिता कालू संगीताबाई पति मुकेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	84	135
387	रामेश्वर पिता गणपतजी अन्नपूर्णाबाई पति रामेश्वर जाति पाटीदार सा देह	306	1	85	130
388	कालू पिता गणपतजी रुकमणीबाई पति कालू जाति पाटीदार सा देह	306	1	86	125
389	जगन्नाथ पिता पेमाजी शांताबाई पति जगन्नाथ जाति पाटीदार सा देह	306	1	87	121
390	ओमप्रकाश पिता ठाकुरलाल प्रितीबाई पति ओमप्रकाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	89	102

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
391	जितेन्द्र पिता सुकदेव प्रमिलाबाई पति जितेन्द्र जाति पाटीदार सा देह	306	1	90	105
392	महादेव पिता राजाराम	306	1	91	49
393	राजाराम पिता औंकार मीराबाई पति राजाराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	92	120
394	जगदीश पिता राजाराम शांताबाई पति जगदीश जाति पाटीदार सा देह ब नं 20	306	1	93	74
395	दिलीप पिता मांगीलाल उषाबाई पति दिलीप जाति पाटीदार सा देह	306	1	94	103
396	नितिन पिता परमानंद राधाबाई पति नितिन जाति पाटीदार सा देह	306	1	95	23
397	परमानंद पिता मांगीलाल सीताबाई पति परमानंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	96	106
398	किशोरीलाल पिता मांगीलाल बेबीबाई पति किशोरीलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	97	83
399	मेवालाल पिता मांगीलाल सुलभाबाई पति मेवालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	98	79
400	फत्तु पिता दगडू कलाबाई पति फत्तु जाति पाटीदार सा देह	306	1	99	137
401	नथू पिता दगडू लक्ष्मीबाई पति नथू जाति पाटीदार सा देह	306	1	100	52
402	महादेव पिता कालू दुर्गाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	101	52
403	नारायण पिता सीताराम लक्ष्मीबाई पति नारायण जाति पाटीदार सा देह	306	1	102	43
404	नेमीचंद पिता जगन्नाथ पुष्पाबाई पति नेमीचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	103	43
405	सुकम पिता लक्ष्मण बबीता पति सुकम जाति पाटीदार सा देह	306	1	104	60
406	कपूरचंद पिता लक्ष्मण सुनिताबाई पति कपूरचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	105	60
407	कमलेश पिता नथू सलिताबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	106	52
408	लक्ष्मण पिता सीताराम कुसुमबाई पति लक्ष्मण जाति पाटीदार सा देह	306	1	107	57
409	भागाबाई बेवा दगडू जाति पाटीदार सा देह	306	1	108	90
410	सुकदेव पिता नथू गायत्रीबाई पति सुकदेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	109	50
411	महादेव पिता दगडू गंगाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	110	90
412	महादेव पिता नथू(बड़ा) निर्मलाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	111	104
413	सदाशिव पिता कहैयालाल लीलाबाई पति सदाशिव जाति पाटीदार सा देह	306	1	112	280
414	राकेश पिता महादेव दुर्गाबाई पति राकेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	113	104
415	देवेन्द्र पिता नारायण जाति पाटीदार सा देह	306	1	114	111
416	मोतीलाल पिता रामाजी तुलसाबाई पति मोतीलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	115	46
417	राधेश्याम पिता मोतीलाल सुमनबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	1	116	46
418	कैलाश पिता नथू पुष्पाबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	117	167
419	प्रेमचंद पिता जगन्नाथ लीलाबाई पति प्रेमचंद जाति पाटीदार सा देह ब नं 15	306	1	119	7
420	लक्ष्मीबाई पति नारायण जाति पाटीदार सा देह	306	1	120	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
421	सरस्वती बेवा रामेश्वर जाति पाटीदार सा देह	306	1	121	20
422	सुनिल पिता रामेश्वर ममताबाई पति सुनिल जाति पाटीदार सा देह	306	1	122	44
423	दिपक पिता महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	123	150
424	राधेश्याम पिता लक्ष्मण कलाबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	1	125	25
425	लक्ष्मण पिता आँकार सरस्वतीबाई पति लक्ष्मण जाति पाटीदार सा देह	306	1	126	95
426	भागवती बेवा हीरालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	127	66
427	भगवान पिता सीताराम भागवतीबाई पति भगवान जाति पाटीदार सा देह	306	1	128	47
428	नारायण पिता हीरालाल शीलाबाई पति नारायण जाति पाटीदार सा देह	306	1	129	160
429	बिहारी पिता रणछोड सेवन्तीबाई पति बिहारी जाति पाटीदार सा देह	306	1	131	90
430	महेश पिता लक्ष्मण मायाबाई पति महेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	132	43
431	रमेश पिता लक्ष्मण भागवतीबाई पति रमेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	133	5
432	रमेश पिता रणछोड दुर्गाबाई पति रमेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	134	71
433	राधेश्याम पिता रणछोड भागवतीबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	1	135	70
434	रमेश पिता रामाजी पार्वतीबाई पति रमेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	137	26
435	गंगाबाई बेवा देवनारायण जाति पाटीदार सा देह ब न 383	306	1	139	90
436	इन्द्रसिंह पिता भोलूसिंह सावित्रीबाई पति इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	140	28
437	कलाबाई बेवा भोलूसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	141	28
438	ग्यारसीबाई बेवा अमरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	142	26
439	छतरसिंह पिता अनारसिंह अन्नपूर्णबाई पति छतरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	143	26
440	कंचनबाई बेवा कालूसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	144	30
441	कमलसिंह पिता कालूसिंह अनिताबाई पति कमलसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	145	30
442	भारतसिंह पिता कालूसिंह लक्ष्मीबाई पति भारतसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	147	34
443	कैलाश पिता कालूसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	148	34
444	भागवतीबाई पिता नथूजी जाति पाटीदार सा देह	306	1	167	88
445	विनोद पिता महादेव संगीताबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	168	88
446	सीताराम पिता नारायण लक्ष्मीबाई पति सीताराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	171	106
447	कमलेश पिता कृष्णचंद सुनिताबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	172	123
448	महादेव पिता धीसालाल उर्मिलाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	173	86
449	सुनिल पिता पुनमचंद दुर्गाबाई पति सुनिल सुरेश पिता पुनमचंद ललीताबाई पति सुरेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	174	55
450	राकेश पिता कृष्णचंद छायाबाई पति राकेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	181	45
451	राजेन्द्र पिता कृष्णचंद सूनिताबाई पति राजेन्द्र जाति पाटीदार सा देह	306	1	182	15
452	कृष्णचंद पिता हंसराज राधाबाई पति कृष्णचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	183	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
453	मोहन पिता हंसराज ममताबाई पति मोहन जाति पाटीदार सा देह	306	1	184	80
454	कैलाश पिता हंसराज जानकीबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	185	260
455	लखन पिता राधेश्याम देवकन्याबाई पति लखन जाति राजपूत सा देह ब नं 64	306	1	186	35
456	लक्ष्मीबाई बेवा हंसराज जाति पाटीदार सा देह	306	1	187	12
457	मायाबाई पति हंसराज जाति पाटीदार सा देह	306	1	188	12
458	हीरालाल पिता धनसिंह नथीबाई पति हीरालाल जाति राजपूत सा देह	306	1	189	85
459	बहादरसिंह पिता चैनसिंह रुकमणीबाई पति बहादरसिंह जाति राजपूत सा देह	306	1	191	108
460	श्रीराम पिता राधेश्याम उमाबाई पति श्रीराम जाति राजपूत सा देह	306	1	192	32
461	राधेश्याम पिता मांगीलाल उर्मिलाबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	1	194	781
462	कालू पिता गोपाल किरणबाई पति कालू जाति पाटीदार सा देह	306	1	196	40
463	रामेश्वर पिता पूनमचंद मंजूलाबाई पति रामेश्वर जाति पाटीदार सा देह	306	1	198	220
464	महेश पिता धन्नालाल माधुरीबाई पति महेश जाति पाटीदार सा देह	306	1	199	63
465	ओमप्रकाश पिता धन्नालाल लताबाई पति ओमप्रकाश जाति पाटीदार सा देह	306	1	200	65
466	फुंदाबाई बेवा धन्नालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	201	63
467	पार्वती बेवा पूनमचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	202	126
468	लक्ष्मीचंद पिता रामचंद भागवतीबाई पति लक्ष्मीचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	203	52
469	शांतीलाल पिता लक्ष्मीचंद बसन्तीबाई पति शांतीलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	204	52
470	श्रीराम पिता लक्ष्मीचंद कलाबाई पति श्रीराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	205	52
471	जैराम पिता लक्ष्मीचंद उर्मिलाबाई पति जैराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	206	52
472	कालू पिता गोपाल किरणबाई पति कालू जाति पाटीदार सा देह	306	1	207	60
473	शंकरलाल पिता रामचंद सरसतबाई पति शंकरलाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	208	80
474	कैलाश पिता गोपाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	209	60
475	तेजराम पिता शंकरलाल रेखाबाई पति तेजराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	210	70
476	गप्पू पिता गोपाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	211	60
477	सुकदेव पिता शंकरलाल शांताबाई पति सुकदेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	212	70
478	गंगाबाई बेवा विश्राम अजय पिता विश्राम मंजूबाई पति अजय जाति पाटीदार सा देह	306	1	213	70
479	तिलोकचंद पिता गंगाराम सेवन्तीबाई पति तिलोकचंद जाति पाटीदार सा देह	306	1	214	70
480	जमनाबाई बेवा गंगाराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	215	320
481	मोतीराम पिता गणपत सुन्दरबाई पति मोतीराम जाति दर्जी सा देह	306	1	217	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
482	बसन्तीलाल पिता मोतीराम किरणबाई पति बसन्तीलाल जाति दर्जी सा देह	306	1	218	30
483	कमलेश पिता मोतीराम आरतीबाई पति कमलेश जाति दर्जी सा देह	306	1	219	30
484	दिलीप पिता मोतीराम कंचनबाई पति दिलीप जाति दर्जी सा देह	306	1	220	30
485	महेश पिता मोतीराम जाति दर्जी सा देह	306	1	221	30
486	दिनेश पिता मोतीराम उमाबाई पति दिनेश जाति दर्जी सा देह	306	1	222	35
487	रमेश पिता मोतीराम मनोरमबाई पति रमेश जाति दर्जी सा देह	306	1	223	33
488	उमेश पिता मोतीराम मीराबाई पति उमेश जाति दर्जी सा देह	306	1	224	33
489	परसराम पिता दयाराम समोतीबाई पति परसराम जाति पाटीदार सा देह	306	1	225	22
490	सरदारसिंह पिता हीरालाल देवकीबाई पति सरदारसिंह जाति राजपूत सा देह ब नं 67	306	1	227	165
491	वासुदेव पिता धन्नालाल उमाबाई पति वासुदेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	228	75
492	चंद्रशेखर पिता धन्नालाल सुमनबाई पति चंद्रशेखर जाति पाटीदार सा देह	306	1	229	75
493	चंपाबाई बेवा धन्नालाल जाति पाटीदार सा देह	306	1	230	56
494	कृष्णचंद पिता राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	1	231	65
495	सलूबाई बेवा हीरालाल जगदीश पिता हीरालाल मालतीबाई पति जगदीश जाति पाटीदार सा देह	306	1	252	42
496	अशोक पिता मांगीलाल सावित्रीबाई पति अशोक जाति राजपूत सा देह	306	1	286	40
497	जगदीश पिता मांगीलाल भागुबाई पति जगदीश जाति राजपूत सा देह	306	1	289	25
498	सुकदेव पिता बाबूलाल सुमनबाई पति सुकदेव जाति पाटीदार सा देह	306	1	198/ 402	36
499	राधेश्याम पिता बाबूलाल कुसुमबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	306	1	198/ 403	42
	योग			499	36071

परिशिष्ट – 2
निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

अनु.क.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	संतोष पिता मांगीलाल कहार सा. देह	228,229	मकान
2	पांचीलाल पिता दशरथ कहार सा. देह	228,229	मकान
3	अम्बाराम पिता गेन्दालाल कहार सा. देह	228,229	मकान
4	कमल पिता पांचीलाल कहार सा. देह	228,229	मकान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	दिनेश पिता लिम्बाजी कहार सा. देह	228,229		पशुबाड़ा	
6	सावित्रीबाई बेवा घीसीलाल कहार सा. देह	231 / 1		मकान	
7	मदरूपसिंह पिता सिकदारसिंह राजपूत सा.देह	231 / 3		मकान	
8	सदाशिव पिता रामलाल पाटीदार सा. देह	245 / 1		मकान	
9	शिवनारायण पिता बाबूलाल पाटीदार सा. देह	245 / 1		मकान	
10	लोकराम पिता नारायण पाटीदार सा. देह	250		पशुबाड़ा	
11	श्रीराम पिता हुकुमचंद पाटीदार सा. देह	254 / 2		मकान	
12	अनोकचंद पिता ओंकार सा.देह	254 / 1		मकान	
13	भगवान पिता बालू पाटीदार सा. देह	256		पशुबाड़ा	
14	विजय पिता जगदीश पाटीदार सा. देह	257		मकान	
15	अमरसिंह पिता कनकसिंह राजपूत सा.देह	273		मकान	
16	हीरालाल पिता मंगत्या कहार सा. देह	276		मकान	
17	मांगीलाल पिता भोलू कहार सा. देह	276		मकान	
18	जगदीश पिता मांगीलाल कहार सा. देह	276		मकान	
19	संतोष पिता मांगीलाल कहार सा. देह	276		मकान	
20	नत्थू पिता ग्यारसीलाल कहार सा. देह	276		मकान	
21	अशोक पिता नत्थू कहार सा. देह	276		मकान	
22	कमलेश पिता राधेश्याम पाटीदार सा. देह	279,280		पशुबाड़ा	
23	रामेश्वर पिता गणपत पाटीदार सा. देह	206 / 1		मकान, गोबर गैंस	
24	राधेश्याम पिता रामेश्वर पाटीदार सा. देह	206 / 1		मकान	
25	किशोरीलाल पिता मांगीलाल पाटीदार सा. देह	219 / 4, 249		पशुबाड़ा	
26	दिलीप पिता मांगीलाल पाटीदार सा. देह	219 / 4, 249		पशुबाड़ा	
27	परमानंद पिता मांगीलाल पाटीदार सा. देह	219 / 4, 249		पशुबाड़ा, होज	
28	कृष्णचंद पिता रेवाराम भारूड सा.देह	251 / 1		पशुबाड़ा	
29	लीलाबाई बेवा ताराचंद पाटीदार सा. देह	252 / 2, 253 / 2		मकान	
30	आनोकचंद पिता ओंकार पाटीदार सा. देह	252 / 2, 253 / 2		मकान	
31	हुकुम पिता ओंकार पाटीदार सा. देह	252 / 2, 253 / 2		मकान	
32	महेश पिता सुकलाल पाटीदार सा. देह	252 / 2, 253 / 2		मकान	

परिशिष्ट – 3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु.क.	ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	284	चरागाह	त्रिवेणी ओटला सार्वजनिक, सीतला माता मंदिर सार्वजनिक, आश्रम ट्रस्ट व्यवरथापक महादेव पिता दगड़ू पाटीदार सह सदस्य चार, शिव मंदिर एवं धर्मशाला पक्का, धर्मशाला पक्की, नाग मंदिर सार्वजनिक
2	224	चरागाह	38 पम्प हाउस, 46 पाईप लाईन, शिवलिंग दो, पक्का थाला सार्वजनिक

- 2 राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टी कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
- 3 कंपनी के भू-अर्जन आवेदन पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.09.2007 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 12-15/07/सात-2-ए भोपाल दिनांक 04.10.07 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है।
- 4 कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समर्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।

- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2,3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेंगा, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—
1. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
 2. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
 3. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा।
 4. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुर्नवास नीति में दिए गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी।
 5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44ए)
 6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा, और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
 7. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी, तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
 8. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
 9. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा।
 10. प्रदूषण नहीं किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आशय के प्राप्त करना होगे कि, “पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा”।
 11. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा

ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।

12. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
 13. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा।
 14. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे मिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
 15. शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 16. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू—अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें।
 17. प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- (क) राज्य शासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लाट पर मकान बनाने के लिए करेगा। यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है, तो वह आंवटित स्थल पर मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा।
- (ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह उस पर अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है, तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा। जिसमें लगने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा।
- (ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
- (घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1,2,3 में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्तियों के अर्जन के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा, तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा। यदि किसी देय राशि का

भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन भूमि अधिगृहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिगृहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिगृहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी, उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा।

भू-अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क-1 राज्य शासन, पक्ष क-2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी। अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, रसाम्प ड्युटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा।

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र सक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

पक्ष क्रमांक-1

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला—खरगोन (म.प्र.)

साक्षी क्र.-1

नाम: मथुरालाल मण्डलेश्वर
पता: 219 पुष्प कुन्ज बजरंग नगर जैतापुर
खरगोन

पक्ष क्रमांक-2

(असद जाफर)

महाप्रबंधक

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि.
मण्डलेश्वर

साक्षी क्र.-2

नाम: गोपाल यादव
पता: बिस्टान रोड़ नाका
रुद्रेश्वर कॉलोनी खरगोन

क्रमांक / 287 / भू-अर्जन / 11

खरगोन, दिनांक 4 मार्च, 2011

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 8-अ / 82 / 09-10

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभ्यांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 04.03.11 को सम्पादित किया जा रहा है।

- 1 कंपनी ने म.प्र. शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण झूब से प्रभावित होने से ग्राम पथराड़ खुर्द प.ह.नं. 18, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 89, 92/1, 93/1, 122/8, 240/1-240/2, 242, 279/1-279/2, 287 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नंबर 92/3, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 270 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नंबर 269, 272/1, 281, 299/1 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1,2,3 पर अंकित किया गया है।

परिशिष्ट - 1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/ पूरा पता	सर्वे नम्बर	मोह ल्ला शीट कमांक	प्लाट नम्बर/ भूखण्ड कमांक	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6
1	ताराबाई बेवा बाबूसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	415	272
2	गजानन्द पिता भगवान धनुबाई पति गजानन्द जाति पाटीदार सा देह	89	3	416	552
3	भुवानीबाई बेवा मांगीलाल जाति पाटीदार सा देह	89	3	417	159
4	रामचंद पिता मांगीलाल उषाबाई पति रामचंद जाति पाटीदार सा देह	89	3	418	99
5	भवरसिंह पिता राजाराम संतोषबाई पति भवरसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	451	98
6	बनसिंह पिता मांगीलाल सुरजबाई पति बनसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	452	66
7	कमलसिंह पिता राजाराम सेवन्तीबाई पति कमलसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	453	74
8	रामचंद पिता देवराम सुधाबाई पति रामचंद जाति सुतार सा देह	89	3	454	24
9	देवराम पिता राजाराम रेशमबाई पति देवराम जाति सुतार सा देह	89	3	455	24
10	शंकर पिता देवराम ममताबाई पति शंकर जाति सुतार सा देह	89	3	456	24
11	मनोहरसिंह पिता लालूसिंह नादानबाई पति मनोहरसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	457	64
12	विष्णु पिता धनसिंह सुधाबाई पति विष्णु जाति राजपूत सा देह	89	3	458	62
13	धनसिंह पिता मांगीलाल कमलाबाई पति धनसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	459	62
14	मुकेश पिता बेचिया तेजूबाई पति मुकेश जाति मानकर सा देह	89	3	461	99
15	पिल्लू पिता लालचंद ललिताबाई पति पिल्लू जाति मानकर सा देह	89	3	462	92
16	भारत पिता केशु कमलाबाई पति भारत जाति मानकर सा देह	89	3	463	54
17	मांगीलाल पिता दल्लू शांताबाई पति मांगीलाल जाति मानकर सा देह	89	3	464	83
18	संतोष पिता ओंकार सरसतबाई पति संतोष जाति मानकर सा देह	89	3	466	58
19	राजु पिता ओंकार निर्मलाबाई पति राजु जाति मानकर सा देह	89	3	467	109
20	नानूराम पिता नवल सुमनबाई पति नानूराम जाति मानकर सा देह	89	3	469	106
21	राजू पिता लालचंद जाति मानकर सा देह	89	3	470	106
22	कालीबाई बेवा डालुराम वासुदेव विष्णु सुनिल अनिल पिता डालुराम जाति मानकर सा देह	89	3	471	141
23	मनीलाल पिता भीलाजी कलाबाई पति मनीलाल जाति मानकर सा देह	89	3	472	73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	चमरिया पिता तेरसिंह भुरीबाई पति चमरिया जाति मानकर सा देह	89	3	473	36
25	शिवराम पिता कोल्या सकरीबाई पति शिवराम जाति नहाल सा देह	89	3	475	20
26	बसन्त पिता राम्या लक्ष्मीबाई पति बसन्त जाति मानकर सा देह	89	3	476	55
27	सुकदेव पिता राम्या सकुबाई पति सुकदेव जाति मानकर सा देह	89	3	477	70
28	अययुबखौ पिता नजीरखौ मुमताज पति अययुबखौ जाति पिंजारा सा देह	89	3	478	105
29	हईयाखौ पिता अययुबखौ मदीनाबाई पति हईयाखौ जाति पिंजारा सा देह	89	3	479	73
30	धनसिंग पिता छगन राधाबाई पति धनसिंग जाति मानकर सा देह	89	3	480	105
31	बनसिंग पिता छगन मायाबाई पति बनसिंग जाति मानकर सा देह	89	3	481	103
32	रामलाल पिता गजू सुकाबाई पति रामलाल जाति मानकर सा देह	89	3	482	73
33	दिनेश पिता परसराम बबीताबाई पति दिनेश जाति मानकर सा देह	89	3	483	73
34	परसराम पिता गजू चम्पाबाई पति परसराम जाति मानकर सा देह	89	3	484	73
35	गब्बर पिता जगन्नाथ नानीबाई पति गब्बर जाति मानकर सा देह	89	3	485	34
36	राजेन्द्र पिता जगन्नाथ लक्ष्मीबाई पति राजेन्द्र जाति मानकर सा देह	89	3	486	20
37	नहारसिंह पिता मांगीलाल हीराबाई पति नहारसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	487	110
38	मानसिंह पिता शोभाराम कमलाबाई पति मानसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	489	45
39	रमेश पिता भलाजी सेवन्तीबाई पति रमेश जाति नाई सा देह	89	3	490	83
40	मिश्रीलाल पिता मांगीलाल दुर्गाबाई पति मिश्रीलाल जाति राजपूत सा देह	89	3	491	149
41	नरेन्द्र पिता बनसिंग कविताबाई पति नरेन्द्र जाति राजपूत सा देह	89	3	492	50
42	रूपसिंह पिता बनसिंह सोनबाई पति रूपसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	493	71
43	रामचंद पिता मांगीलाल सुभाबाई पति रामचंद जाति राजपूत सा देह	89	3	494	137
44	राधेश्याम पिता मांगीलाल राधाबाई पति राधेश्याम जाति राजपूत सा देह	89	3	495	137
45	राजाराम पिता सीताराम कमलाबाई पति राजाराम जाति राजपूत सा देह	89	3	496	88
46	रामेश्वर पिता राजाराम सुधाबाई पति रामेश्वर जाति राजपूत सा देह	89	3	497	88
47	पूनमचंद पिता राजाराम गिरजाबाई पति पूनमचंद जाति राजपूत सा देह	89	3	498	88
48	गंगाबाई बेवा दयाराम जाति राजपूत सा देह	89	3	499	130
49	काशीराम पिता रामा गीताबाई पति काशीराम जाति तेली सा देह	89	3	500	61
50	रामचंद पिता काशीराम उषाबाई पति रामचंद जाति तेली सा देह	89	3	501	55
51	राधेश्याम पिता काशीराम रुकमणीबाई पति राधेश्याम जाति तेली सा देह	89	3	502	55
52	ताराचंद पिता राजाराम सेवन्तीबाई पति ताराचंद जाति सुतार सा देह	89	3	504	72
53	जैराम पिता राजाराम मुलाबाई पति जैराम जाति सुतार सा देह	89	3	505	95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	नानुराम पिता राजाराम दुर्गाबाई पति नानुराम जाति सुतार सा देह	89	3	506	68
55	धन्नालाल पिता राजाराम पुष्पाबाई पति धन्नालाल जाति सुतार सा देह	89	3	507	68
56	राधेश्याम पिता बाबूलाल देवकीबाई पति राधेश्याम जाति सुतार सा देह	89	3	508	93
57	रामेश्वर पिता बाबूलाल रेशमबाई पति रामेश्वर जाति सुतार सा देह	89	3	509	86
58	तिलोकचंद पिता गजानन्द आशाबाई पति तिलोकचंद जाति पाटीदार सा देह	89	3	510	140
59	श्रीराम पिता सीताराम सीताबाई पति श्रीराम जाति पाटीदार सा देह	89	3	511	184
60	कमलेश पिता श्रीराम गायत्रीबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	89	3	512	142
61	मानसिंह पिता शोभाराम कमलाबाई पति मानसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	513	142
62	किशोरसिंह पिता शोभाराम लक्ष्मीबाई पति किशोरसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	514	186
63	रामप्यारी पिता बाबूलाल जाति पाटीदार सा देह	89	3	516	130
64	मुनीरखों पिता भुरेखों सलमाबाई पति मुनीरखों जाति पिंजारा सा देह	89	3	517	30
65	भुरेखों पिता भोलूखों बिसमिल्लाबाई पति भुरेखों जाति पिंजारा सा देह	89	3	518	30
66	शाबिरखों पिता भुरेखों खातिजाबाई पति साबिरखों जाति पिंजारा सा देह	89	3	519	33
67	हबीबखों पिता भुरेखों कुबराबाई पति हबीबखों जाति पिंजारा सा देह	89	3	520	33
68	इस्माइल पिता शेरखों अनिसाबाई पति इस्माइल जाति पिंजारा सा देह	89	3	521	72
69	शेरखों पिता भोलूखों जुम्मीबाई पति शेरखों जाति पिंजारा सा देह	89	3	522	72
70	अम्बाराम पिता लालचंद नथीबाई पति अम्बाराम जाति मानकर सा देह	89	3	524	55
71	प्रतापसिंह पिता बहादरसिंह लाडूबाई पति प्रतापसिंह जाति मानकर सा देह	89	3	525	48
72	देवीसिंह पिता बहादरसिंह कुसुमबाई पति देवीसिंह जाति मानकर सा देह	89	3	526	61
73	पप्पू पिता पारसिंह दुर्गाबाई पति पप्पू जाति मानकर सा देह	89	3	527	81
74	राकेश पिता अम्बाराम रंजूबाई पति राकेश जाति मानकर सा देह	89	3	528	41
75	कालू पिता पारसिंह कलाबाई पति कालू जाति मानकर सा देह	89	3	529	80
76	नथीबाई बेवा बाबू चिंताराम पिता बाबू रेखाबाई पति चिंताराम जाति चमार सा देह	89	3	530	216
77	गोपाल पिता बाबू सावित्रीबाई पति गोपाल जाति चमार सा देह	89	3	531	160
78	कृष्ण कुमार पिता बाबूलाल सुशीलाबाई पति कृष्ण कुमार जाति पाटीदार सा देह	89	3	533	84
79	विष्णु पिता बाबूलाल मायाबाई पति विष्णु जाति पाटीदार सा देह	89	3	534	75
80	उमाशंकर पिता डालूराम ममताबाई पति उमाशंकर जाति पाटीदार सा देह	89	3	535	217
81	जयप्रकाश पिता विष्णु जाति पाटीदार सा देह	89	3	536	174

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
82	राकेश पिता कृष्ण कुमार जाति पाटीदार सा देह	89	3	537	174
83	भगवानसिंह पिता मांगीलाल लक्ष्मीबाई पति भगवानसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	538	69
84	दर्यावसिंह पिता मांगीलाल बसुबाई पति दर्यावसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	539	195
85	रामसिंह पिता मांगीलाल कलाबाई पति रामसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	540	174
86	सुकलाल पिता टुकड़िया शांताबाई पति सुकलाल जाति बरगुंडा सा देह	89	3	542	54
87	जितेन्द्र पिता सुकलाल राधाबाई पति जितेन्द्र जाति बरगुंडा सा देह	89	3	543	31
88	भगवान पिता मांगीलाल जाति राजपूत सा देह	89	3	544	113
89	उमाशंकर पिता डालूराम ममताबाई पति उमाशंकर जाति पाटीदार सा देह	89 ,122/8	3	545	59
90	खुमानसिंह पिता बाबूसिंह उषाबाई पति खुमानसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	415/ 586	272
91	लीलाबाई बेवा बाबूसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	415/ 587	272
92	अमरसिंह पिता मांगीलाल कलुबाई पति अमरसिंह जाति राजपूत सा देह	89	3	544 / 593	161
93	जगदीश पिता डलूराम चेतनाबाई पति जगदीश पाटीदार सा देह	89	3	544/ 594	192
94	डालूराम पिता भगवान शावित्रीबाई पति डालूराम जाति पाटीदार सा देह	89	3	544/ 595	86
95	गौरीशंकर पिता दशरथ राधाबाई पति गौरीशंकर जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	406	116
96	भुवानीराम पिता दशरथ कुसुमबाई पति भुवानीराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	407	216
97	लक्ष्मीबाई बेवा दशरथ जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	408	130
98	नारायण पिता गंगाराम भुवानीबाई पति नारायण जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	409	58
99	छीतूराम पिता गंगाराम कुसुमबाई पति छीतूराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	410	58
100	रणछोड़ पिता सीताराम सीताबाई पति रणछोड़ जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	411	119
101	श्रीराम मंदिर, गीता मंदिर न्यास पथराड	122/8	3	413	857
102	जगदीश पिता डलूराम चेतनाबाई पति जगदीश पाटीदार सा देह	122/8	3	546	81
103	जयपाल पिता जयराम छायाबाई पति जयपाल जाति मानकर सा देह	122/8	3	547	21
104	जयराम पिता रणछोड़ रुकमाबाई पति जयराम जाति मानकर सा देह	122/8	3	548	133
105	कडवा पिता बद्री कजला पति कडवा जाति मानकर सा देह	122/8	3	549	84
106	सरसतबाई बेवा बद्री जाति मानकर सा देह	122/8	3	550	44
107	दिनेश पिता बद्री संगीताबाई पति दिनेश जाति मानकर सा देह	122/8	3	551	53
108	आयशानाबी बेवा शेरखों जाति पिंजारा सा देह	122/8	3	552	52
109	सार्वजनिक धर्मशाला	122/8	3	553	130

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110	सार्वजनिक हनुमान मंदिर	122/8	3	554	89
111	मनोहरसिंह पिता गणपत भागुबाई पति मनोहरसिंह जाति मानकर सा देह	122/8	3	555	132
112	शिवलाल पिता तुलसीराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	557	1330
113	भागवतीबाई बेवा बाघसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	3	558	638
114	गंगाराम पिता दशरथ जाति राजपूत सा देह	122/8	3	559	692
115	देवराम पिता जगन्नाथ जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	560	1320
116	कालूराम पिता विश्राम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	561	1312
117	रामचंद पिता मांगीलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	562	1320
118	खुमानसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	3	563	1364
119	दिनेश पिता मोहनलाल अमिचंद प्रमचंद पिता घनश्याम गौरीशंकर पिता राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	566	575
120	महेन्द्र पिता बाबूलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	567	726
121	बाबूलाल पिता राजाराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	568	465
122	हीरालाल पिता जगन्नाथ यशोदाबाई पति हीरालाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	569	288
123	राधेश्याम पिता भगवान लीलाबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	570	420
124	महेश पिता मोहनलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	3	571	420
125	रामेश्वर बाबूलाल पांचीलाल भलाजी भुवानीराम पिता गणपत जाति कहार सा देह	122/8	3	572	445
126	बनसिंह रामचंद राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति राजपूत सा देह	122/8	3	573	678
127	जैराम देवराम ताराचंद धन्नालाल नानूराम पिता राजाराम जाति सुतार सा देह	122/8	3	574	459
128	जङ्गदाबाई पिता वजीरखों जाति पिंजारा सा देह	122/8	3	575	206
129	नजीरखा पिता भोलूखा सलीमाबाई पति नजीरखा जाति पिंजारा सा देह	122/8	3	576	403
130	बिसन पिता पेमा रामकुवरबाई पति बिसन जाति कहार सा देह	122/8	3	577	500
131	दरगाह	122/8	3	578	32
132	माधव धर्मशाला व्यवस्थापक राधेश्याम पिता फत्तूजी सा देह	122/8	3	413/ 585	65
133	शिव मंदिर, नाग मंदिर व्यवस्थापक खुमानसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	3	413/ 600	18
134	शासकीय शाला भवन	279/1, 279/2	4	1	1204
135	रेवाजी पिता नयनसिंग, जमनाबाई पति रेवाजी भारूड	279/1, 279/2	4	2	669
136	किशोर पिता हेमराज, मायाबाई पति किशोर भारूड	279/1, 279/2	4	3	1160
137	शासकीय शाला भवन व मैदान	279/1, 279/2	4	4	1692
138	फगालाल उर्फ परमानंद पिता नारायण, मीराबाई पति फगालाल भारूड	279/1, 279/2	4	5	581

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
139	बालाराम पिता नारायण, कंचनबाई पति बालाराम भारूड	287	4	6	836
140	गजानंद पिता बालाराम, कड़वीबाई पति गजानंद भील	279/1, 279/2	4	11	122
141	नागमंदिर सार्वजनिक	279/1, 279/2	4	13	55
142	धर्मशाला सार्वजनिक	279/1, 279/2	4	14	83
143	श्रीराम मंदिर सार्वजनिक	279/1, 279/2	4	15	78
144	गरीबदास पिता बद्री महाराज सिंगाजी गवली	279/1, 279/2	4	16	18
145	रामईबाई बेवा नस्थु भील	279/1, 279/2	4	17	57
146	भगवान पिता बाबु, कड़वीबाई पति भगवान राजपूत	279/1, 279/2	4	19	59
147	आनंदराम पिता बुलचंद, मकमुलबाई पति आनंदराम राजपूत	279/1, 279/2	4	22	63
148	बाबु पिता गुमान, द्वारकीबाई पति बाबु राजपूत	279/1, 279/2	4	25	65
149	नारायण पिता दशरथ, दुर्गाबाई पति नारायण सुतार	279/1, 279/2	4	26	47
150	लखन पिता दुलीचंद, सुनीबाई पति लखन कहार	279/1, 279/2	4	28	42
151	सीताराम पिता लक्ष्मण, गेंदबाई पति सीताराम राजपूत	279/1, 279/2	4	30	252
152	हेमराज पिता नारायण, भगवतीबाई पति हेमराज भारूड	279/1, 279/2	4	32	490
153	सीताराम पिता लक्ष्मण, गेंदबाई पति सीताराम राजपूत	279/1, 279/2	4	34	450
154	कुननबाई बेवा छितू बल्लू पिता छितू दुर्गाबाई पति बल्लू कहार	279/1, 279/2	4	36	75
155	विक्रम पिता छितू रामकन्या पति विक्रम कहार	279/1, 279/2	4	37	75
156	मंशाराम पिता दयाराम, सबरीबाई पति मंशाराम कहार	279/1, 279/2	4	38	106
157	मयाराम पिता गणपत, भागाबाई पति मयाराम भील	279/1, 279/2	4	39	119
158	तुलसीराम पिता दयाराम, सुनिताबाई पति तुलसीराम कहार	279/1, 279/2	4	40	58
159	कालीबाई बेवा सुखलाल मानकर	279/1, 279/2	4	41	68
160	पर्वत पिता गबरु, कुसुमबाई पति पर्वत कहार	279/1, 279/2	4	42	88
161	सजन पिता कन्हैया, नानीबाई पति सजन कहार	279/1, 279/2	4	43	110
162	दिनेश पिता नारायण, भागवतीबाई पति दिनेश भारूड	279/1, 279/2	4	44	164
163	रेवाजी पिता नयनसिंह, जमनाबाई पति रेवाजी भारूड	279/1, 279/2	4	45	529
164	हेमराज पिता नारायण, भगवतीबाई पति हेमराज भारूड	279/1, 279/2	4	46	231
165	दिनेश पिता नारायण, भागवतीबाई पति दिनेश भारूड	287	4	48	34
166	बालाराम पिता नारायण, कंचनबाई पति बालाराम भारूड	287	4	49	59
167	शंकर पिता नारायण, मधुबाई पति शंकर, अनिताबाई पति शंकर भारूड	287	4	50	430
168	फगालाल उर्फ परमानंद पिता नारायण, मीराबाई पति फगालाल भारूड	287	4	51	150
169	दिनेश पिता नारायण, भागवतीबाई पति दिनेश भारूड	279/1, 279/2	4	52	29
170	शेरु पिता बालु, कंचनबाई पति शेरु कहार	279/1, 279/2, 287	4	54	140

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
171	राधेश्याम पिता तेजसिंह, सुभद्राबाई पति राधेश्याम कहार	279/1, 279/2, 287	4	55	83
172	सुखराम पिता रुखड़ीया, भागुबाई पति सुखराम कहार	279/1, 279/2	4	57	112
173	रुखझीबाई पिता रुखड़ीया कहार	279/1, 279/2	4	58	18
174	बाबू पिता ओंकार बलाई	279/1, 279/2	4	60	18
175	भुक्कण पिता मकुंद, सजनबाई पति भुक्कण बलाई	279/1, 279/2	4	61	15
176	भागुबाई पिता छगन कहार	279/1, 279/2	4	62	100
177	डालूराम पिता सीताराम, गुड्डनबाई पति डालूराम केवट	279/1, 279/2	4	63	115
178	महेन्द्र पिता साधुराम, सावित्रीबाई पति महेन्द्र कहार	279/1, 279/2	4	64	74
179	छगन पिता पदम, सुकईबाई पति छगन कहार	279/1, 279/2	4	66	28
180	गोविन्द पिता छगन, शीलाबाई पति गोविन्द कहार	279/1, 279/2	4	67	51
181	महेन्द्र पिता शक्तिसिंह, उषाबाई पति महेन्द्र राजपूत	279/1, 279/2	4	68	37
182	मदन पिता बाल्या, बसुबाई पति मदन बलाई	279/1, 279/2	4	69	193
183	मोहन पिता मकुन्द, मैदाबाई पति मोहन बलाई	279/1, 279/2	4	70	52
184	भुक्कण पिता मकुंद, सजनबाई पति भुक्कण बलाई	279/1, 279/2	4	71	53
185	बाबू पिता ओंकार बलाई	279/1, 279/2	4	72	134
186	कैलाश पिता दुलीचंद, जयंतीबाई पति कैलाश	279/1, 279/2	4	75	97
187	कैलाश पिता रेवाजी कहार	279/1, 279/2	4	74	75
188	गोविन्द पिता बाबूलाल, लक्ष्मीबाई पति गोविन्द अग्रवाल	279/1, 279/2	4	76	48
189	बाबूलाल पिता गट्टूलाल, रेवाबाई पति बाबूलाल अग्रवाल	279/1, 279/2	4	77	254
190	चतुरभूज पिता गट्टूलाल, अशोक कुमार पिता चतुरभूज अग्रवाल	279/1, 279/2	4	78	199
191	मंशाराम पिता गोपाल, सूरजबाई पति मंशाराम, मनोहर पिता गोपाल, सकुबाई पति मनोहर, नानूराम पिता गोपाल, मायाबाई पति नानूराम, रुक्मणीबाई बेवा गबरु कहार	279/1, 279/2	4	79	163
192	दुलीचंद पिता चुन्नीलाल, बसुबाई पति दुलीचंद कहार	279/1, 279/2	4	81	84
193	निर्मलाबाई पिता दुलीचंद कहार	279/1, 279/2	4	82	41
194	दिनेश पिता बालु, शीलाबाई पति दिनेश कहार	279/1, 279/2	4	83	72
195	महेश पिता बालु, सजन पति महेश कहार	279/1, 279/2	4	84	56
196	सुरेश पिता बालु, मालती पति सुरेश कहार	279/1, 279/2	4	85	39
197	पुनाबाई बेवा बालु कहार	279/1, 279/2	4	86	70
198	सीताराम पिता लक्ष्मण, गेंदाबाई पति सीताराम राजपूत	279/1, 279/2	4	87	163
199	कंचनबाई बेवा बसंत कहार	279/1, 279/2	4	89	34
200	मोताबाई बेवा भीकार कहार	279/1, 279/2	4	90	34
201	गीताबाई बेवा मुन्ना कहार	279/1, 279/2	4	91	35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
202	बिहारी पिता जोगीलाल, सावित्रीबाई पति बिहारी कहार	279/1, 279/2	4	92	47
203	संतोष पिता बिहारी, सकुबाई पति संतोष कहार	279/1, 279/2	4	93	40
204	मोहन पिता बिहारी, बसंतीबाई पति मोहन कहार	279/1, 279/2	4	94	37
205	काशीराम पिता चुन्नीलाल, राधाबाई पति काशीराम कहार	279/1, 279/2	4	95	53
206	डालूराम पिता चुन्नीलाल, कस्तुरीबाई पति डालूराम कहार	279/1, 279/2	4	96	77
207	गीताबाई पति रामसिंग राजपूत	279/1, 279/2	4	97	50
208	शेखर पिता बदामसिंह, मंजुलाबाई पति शेखर राजपूत	279/1, 279/2	4	98	50
209	रामसिंग पिता रामचंद, मनुबाई पति रामसिंग राजपूत	279/1, 279/2	4	99	221
210	आनंदराम पिता बुलचंद, मकमुकलबाई पति आनंदराम राजपूत	279/1, 279/2	4	100	88
211	ज्ञानसिंग पिता बुलचंद, शशीकलबाई पति ज्ञानसिंग राजपूत	279/1, 279/2	4	103	131
212	भगवान पिता हरिभाऊ, ताराबाई पति भगवान ब्राह्मण	279/1, 279/2	4	104	341
213	भगवान पिता बाबू, कड़वीबाई पति भगवान राजपूत	279/1, 279/2	4	105	254
214	भुवानीशंकर पिता देवराम, बसंतीबाई पति भुवानीशंकर ब्राह्मण	279/1, 279/2	4	106	81
215	पार्वतीबाई बेवा हिरालाल ब्राह्मण	279/1, 279/2	4	107	125
216	गेंदालाल पिता मांगीलाल, मोताबाई पति गेंदालाल कहार	279/1, 279/2	4	108	60
217	भगवान पिता गेंदालाल, रुकमणीबाई पति भगवान कहार	279/1, 279/2	4	109	56
218	भगवान पिता हरिभाऊ, ताराबाई पति भगवान ब्राह्मण	279/1, 279/2, 242	4	111	460
219	गेंदालाल पिता सीताराम, शारदाबाई पति गेंदालाल कहार	279/1, 279/2, 240/1, 240/2	4	112	476
220	हिम्मतसिंह पिता मांगीलाल, दमयंतीबाई पति हिम्मतसिंह राजपूत	240/1, 240/2	4	113	117
221	देवीसिंह पिता मांगीलाल, अंगुरबाला पति देवीसिंह राजपूत	240/1, 240/2	4	114	86
222	सरस्यतीबाई बेवा शक्तिसिंह राजपूत	279/1, 279/2, 240/1, 240/2	4	116	261
223	हिम्मतसिंह पिता मांगीलाल, दमयंतीबाई पति हिम्मतसिंह राजपूत	279/1, 279/2	4	117	133
224	गंगाबाई बेवा मांगीलाल राजपूत	279/1, 279/2	4	118	30
225	देवीसिंह पिता मांगीलाल, अंगुरबाला पति देवीसिंह राजपूत	279/1, 279/2	4	119	68
226	इंदरसिंह पिता मांगीलाल, कमलाबाई पति इंदरसिंह राजपूत	279/1, 279/2	4	120	273
227	मुन्ना पिता कड़वा, मीराबाई पति मुन्ना कहार	279/1, 279/2	4	122	90
228	गजानंद पिता खुश्याल, कमलाबाई पति गजानंद कहार	279/1, 279/2	4	123	56
229	पुनमचंद पिता खुश्याल, गिरजाबाई पति पुनमचंद कहार	279/1, 279/2	4	124	54
230	नानूराम पिता सीताराम, तिलोकीबाई पति नानूराम केवट	279/1, 279/2	4	125	73
231	नानूराम पिता टंदू, सकरीबाई पति नानूराम कहार	279/1, 279/2	4	127	113

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
232	किशोर पिता हिरालाल, रेखाबाई पति किशोर कहार	279/1, 279/2	4	128	73
233	यशवंत पिता दयाराम सुशीलाबाई पति यशवंत कहार	279/1, 279/2	4	129	69
234	नथीबाई बेवा साधुराम कहार	279/1, 279/2	4	130	65
235	सीताराम पिता फत्तु दुरप्ताबाई पति सीताराम कहार	279/1, 279/2	4	131	121
236	तुलसीराम पिता सीताराम, दमुबाई पति तुलसीराम केवट	279/1, 279/2	4	132	108
237	राधेश्याम पिता पंढरीनाथ, चंद्रकान्ताबाई पति राधेश्याम ब्राह्मण	279/1, 279/2	4	133	120
238	गेंदालाल पिता सीताराम, शारदाबाई पति गेंदालाल कहार	279/1, 279/2	4	134	110
239	शान्तिलाला पिता शंकरलाल, गीताबाई पति शान्तिलाल, चन्द्रशेखर पिता हरिशंकर, दुर्गाबाई पति चंद्रशेखर सा. भुवरी पाठीदार	279/1, 279/2	4	135	165
240	हनुमान मदिर सार्वजनिक	279/1, 279/2	4	136	40
241	अशोक पिता भीकार, दगड़ीबाई पति अशोक कहार	279/1, 279/2	4	138	91
242	कलाबाई बेवा एडू कहार	279/1, 279/2	4	139	45
243	गेंदालाल पिता मांगीलाल, मोताबाई पति गेंदालाल कहार	279/1, 279/2	4	140	36
244	अमरसिंह पिता मांगीलाल, सकुबाई पति अमरसिंह कहार	279/1, 279/2	4	141	36
245	लक्ष्मीबाई बेवा घिसालाल कहार	279/1, 279/2	4	142	36
246	बिसन पिता पेमा, रामकुंवरबाई पति बिसन कहार	279/1, 279/2	4	144	60
247	ज्ञानचंद पिता छितू, बनुबाई पति ज्ञानचंद कहार	279/1, 279/2	4	145	18
248	गुलाबचंद पिता छितू, शारदाबाई पति गुलाबचंद कहार	279/1, 279/2	4	146	18
249	नन्दू पिता छितू, छायाबाई पति नन्दू कहार	279/1, 279/2	4	147	18
250	अमरसिंह पिता मांगीलाल, सकुबाई पति अमरसिंह कहार	279/1, 279/2	4	148	126
251	राजाराम पिता मांगीलाल, लीलाबाई पति राजाराम कहार	279/1, 279/2	4	149	80
252	शिवलाल पिता सडू, लक्ष्मीबाई पति शिवलाल कहार	279/1, 279/2	4	150	65
253	कोतमाबाई बेवा भीलू कहार	279/1, 279/2	4	151	24
254	प्रमिलाबाई पिता सीताराम कहार	279/1, 279/2	4	152	38
255	कालू पिता केशरिया, ममताबाई पति कालू कहार	279/1, 279/2	4	153	19
256	बिरजू पिता केशरिया, सुनिताबाई पति बिरजू कहार	279/1, 279/2	4	154	10
257	छब्बी पिता बालू, नानीबाई पति छब्बी कहार	240/1, 240/2	4	156	32
258	सरजू बेवा मोहन, शोभाराम पिता बाबू, हिरूबाई पति शोभाराम कहार	240/1, 240/2	4	157	27
259	नव्यीबाई बेवा तेजा, कन्हैया पिता बाबू, सेवंतीबाई पति कन्हैया कहार	240/1, 240/2	4	158	31
260	उंकार भीलू पिता मोतीराम, शांताबाई पति उंकार, कंचनबाई पति भीलू कहार	240/1, 240/2	4	159	14
261	बसुबाई बेवा बाबूलाल कहार	240/1, 240/2	4	160	27
262	दिलीप पिता दुलीचंद, सुनिताबाई पति दिलीप कहार	240/1, 240/2	4	161	27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
263	देवराम पिता छगन, मायाबाई पति देवराम कहार	240/1, 240/2	4	162	25
264	गोवर्धन पिता किशन, शांताबाई पति गोवर्धन कहार	279/1, 279/2	4	164	35
265	गुड़ीबाई पिता राजाराम कहार	279/1, 279/2	4	165	62
266	रामकिशन पिता रेवाराम, संतोषबाई पति रामकिशन कहार	279/1, 279/2	4	167	25
267	सुकलाल पिता महकाल, सुकईबाई पति सुकलाल कहार	279/1, 279/2	4	168	32
268	पर्वत पिता गबरू, कुसुमबाई पति पर्वत कहार	279/1, 279/2	4	169	38
269	नानूराम पिता गोपाल, मायाबाई पति नानूराम कहार	279/1, 279/2	4	170	28
270	ओमप्रकाश पिता हिरालाल, गीताबाई पति ओमप्रकाश कहार	279/1, 279/2	4	173	34
271	कमल पिता नानूराम, कुसुमबाई पति कमल कहार	279/1, 279/2	4	174	55
272	पुनमचंद पिता खुश्याल, गिरजाबाई पति पुनमचंद कहार	279/1, 279/2	4	175	20
273	महेन्द्र पिता पण्यु किरण पति महेन्द्र कहार	279/1, 279/2	4	176	38
274	गजानंद पिता खुश्याल, कमलाबाई पति गजानंद कहार	279/1, 279/2	4	177	38
275	पण्यु पिता शोभाराम, भीराबाई पति पण्यु कहार	279/1, 279/2	4	178	42
276	राजेश पिता साधुराम, ममताबाई पति राजेश कहार	279/1, 279/2	4	179	48
277	मोहब्बत पति हिरालाल, लीलाबाई, समोतीबाई पति मोहब्बत कहार	279/1, 279/2	4	180	92
278	किशोर पिता हिरालाल, रेखाबाई पति किशोर कहार	279/1, 279/2	4	181	42
279	दयाराम पिता हिरालाल, सरसतबाई पति दयाराम कहार	279/1, 279/2	4	182	48
280	मुन्नीबाई पति मांगीलाल कहार	279/1, 279/2	4	184	53
281	मुकेश पिता भागीरथ, सुशीलाबाई पति मुकेश कहार	279/1, 279/2	4	185	21
282	राधेश्याम पिता भागीरथ, छायाबाई पति राधेश्याम कहार	279/1, 279/2	4	186	26
283	कालू पिता कड़वाजी, भागवतबाई पति कालू कहार	279/1, 279/2	4	187	34
284	राजेश पिता साधुराम, ममताबाई पति राजेश कहार	279/1, 279/2	4	188	40
285	दशरथ पिता हिरालाल, कमलाबाई पति दशरथ कहार	279/1, 279/2	4	189	31
286	चतुरभूज, बाबूलाल पिता गट्टूलाल महाजन	279/1, 279/2	4	190	57
287	ओटला व मंदिर केवट समाज	279/1, 279/2	4	191	2
288	कलाबाई बेवा रेवाजी कहार	279/1, 279/2	4	194	17
289	मनोहर पिता गोपाल, सकुबाई पति मनोहर कहार	279/1, 279/2	4	195	57
290	गणेश पिता गबरू, प्रमिला पति गणेश कहार	279/1, 279/2	4	196	56
291	हिममत पिता गबरू, गुड़ीबाई पति हिममत कहार	279/1, 279/2	4	197	53
292	नवलसिंह पिता रेवाजी, कान्तिबाई पति नवलसिंह, रामकिशन पिता रेवाजी, संतोषबाई पति रामकिशन कहार	279/1, 279/2	4	198	59
293	शिवलाल पिता सङ्कृतीबाई पति शिवलाल कहार	279/1, 279/2	4	199	68
294	ज्ञानचंद पिता छगन, सावित्रीबाई पति ज्ञानचंद कहार	279/1, 279/2	4	200	49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
295	रुखडिया पिता दयाराम, सुशीलाबाई पति रुखडिया कहार	279/1, 279/2	4	201	82
296	बद्री पिता शिवलाल, कल्पनाबाई पति बद्री कहार	279/1, 279/2	4	202	32
297	भारत पिता शिवलाल, सरस्वतीबाई पति भारत कहार	279/1, 279/2	4	203	87
298	दिलीप पिता नानूराम, रेखाबाई पति दिलीप कहार	279/1, 279/2	4	204	105
299	भागीरथ पिता दुलीचंद, बनुबाई पति भागीरथ कहार	279/1, 279/2	4	205	41
300	सजन पिता कन्हैया, नन्नीबाई पति सजन कहार	279/1, 279/2	4	206	31
301	अमर पिता कन्हैयालाल, जीवनबाई पति अमर कहार	279/1, 279/2	4	207	34
302	नानू पिता भीलू सुशीलाबाई पति नानू कहार	279/1, 279/2	4	208	137
303	भुवानीराम पिता कन्हैया, सावित्रीबाई पति भुवानीराम कहार	279/1, 279/2	4	209	45
304	अमरचंद पिता भीलू राधाबाई पति अमरचंद कहार	279/1, 279/2	4	210	150
305	बलीराम पिता भीलू आशाबाई, रुकमणीबाई पति बलीराम कहार	279/1, 279/2	4	211	122
306	शंकरलाल पिता फत्तु, शांताबाई पति शंकरलाल कहार	279/1, 279/2	4	212	40
307	कमलाबाई बेवा छोगालाल कहार	279/1, 279/2	4	213	29
308	शालाबाई पिता शंकरलाल कहार	279/1, 279/2	4	214	40
309	सीताराम पिता फत्तु दुरपताबाई पति सीताराम कहार	279/1, 279/2	4	215	40
310	रमेश पिता नानूराम, सेवंतीबाई पति रमेश कहार	279/1, 279/2	4	216	271
311	राधेश्याम पिता सीताराम, मधुबाई पति राधेश्याम केवट	279/1, 279/2	4	219	73
312	दिनेश पिता कन्हैयालाल, अहिल्याबाई पति दिनेश भील	279/1, 279/2	4	220	54
313	ललीताबाई बेवा नन्दू कहार	279/1, 279/2	4	221	20
314	ललीताबाई बेवा नन्दू कहार	279/1, 279/2	4	222	22
315	धनीबाई बेवा सीताराम केवट	279/1, 279/2	4	223	70
316	नानीबाई बेवा बाल्या भील	279/1, 279/2	4	224	40
317	नानीबाई बेवा बाल्या भील	279/1, 279/2	4	225	12
318	गजानंद पिता बाल्या, कड़वीबाई पति गजानंद भील	279/1, 279/2	4	226	36
319	गणेश पिता दुलीचंद, कांतीबाई पति गणेश कहार	279/1, 279/2	4	227	47
320	कैलाश पिता मयाराम, अनीताबाई पति कैलाश भील	279/1, 279/2	4	228	41
321	पप्पु पिता शोभाराम, जानकीबाई पति पप्पु भील	279/1, 279/2	4	229	37
322	डालूराम पिता मांगीलाल, सकुबाई पति डालूराम कहार	279/1, 279/2	4	230	108
323	नानूबाई बेवा मांगीलाल कहार	279/1, 279/2	4	231	21
324	पुनमचंद पिता रामप्रसाद, मनुबाई पति पुनमचंद कहार	279/1, 279/2	4	232	29
325	रामसिंह पिता मांगीलाल, संगीताबाई पति रामसिंह कहार	279/1, 279/2	4	233	41
326	संतोष पिता रामलाल, लताबाई पति संतोष कहार	279/1, 279/2	4	235	29
327	जगदीश पिता दशरथ, रमबाई पति जगदीश कहार	279/1,	4	236	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
328	बनवट पिता शिवलाल, कविताबाई पति बनवट कहार	279/2 279/1, 279/2	4	237	48
329	ग्राम पंचायत पथराड़	279/1, 279/2	4	240	9
330	कैलाश पिता रामलाल, सुशीलाबाई पति कैलाश सा. झापड़ी पाटीदार	279/1, 279/2	4	241	5
331	दयराव पिता मांगीलाल राजपूत	279/1, 279/2	4	242	3
332	गजानंद पिता भृगवान, धनुबाई पति गजानंद पाटीदार	279/1, 279/2	4	243	4
333	ओमप्रकाश पिता भगवान पाटीदार सा. नान्दा	279/1, 279/2	4	244	3
334	भगवान पिता मोतालाल, बसंतीबाई पति भगवान पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	245	3
335	फुलचंद पिता डोंगरजी, सुमनबाई पति फुलचंद पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	246	3
336	महादेव पिता नारायण, सुधाबाई पति महादेव पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	247	3
337	घनश्याम पिता राजनाथ, भावनाबाई पति घनश्याम पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	248	4
338	प्रेमचंद पिता घनश्याम, राधाबाई पति प्रेमचंद पाटीदार	240/1, 240/2	4	249	3
339	ओमप्रकाश पिता हेमराज, सालुबाई पति ओमप्रकाश पाटीदार	240/1, 240/2	4	250	2
340	लालचंद पिता कालूराम पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	251	2
341	ज्ञानचंद पिता डालूराम, लक्ष्मीबाई पति ज्ञानचंद पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	252	3
342	चंदरसिंह पिता सिकदार पाटीदार	279/1, 279/2	4	253	3
343	कमलसिंह पिता बाबुसिंह, कृष्णबाई पति कमलसिंह पाटीदार सा. झापड़ी	279/1, 279/2	4	254	2
344	ग्राम पंचायत नान्दा	279/1, 279/2	4	255	5
345	ज्ञानचंद पिता जगन्नाथ, सुमनबाई पति ज्ञानचंद पाटीदार सा. कुन्डया	279/1, 279/2	4	256	5
346	सुरेश पिता राजाराम, रुकमणीबाई पति सुरेश पाटीदार कुन्डया	240/1, 240/2	4	257	5
347	ताराचंद पिता मांगीलाल, रुकमणीबाई पति ताराचंद पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	258	4
348	सुरेन्द्रसिंह पिता भोलूराम, कंचनबाई पति सुरेन्द्रसिंह राजपूत सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	259	3
349	उमेशसिंह पिता लक्ष्मण, कंचनबाई पति उमेशसिंह	240/1, 240/2	4	260	4
350	श्रीराम पिता बाबूलाल, उमाबाई पति श्रीराम पाटीदार सा. देवपिपल्या	240/1, 240/2	4	261	4
351	मोहन पिता भगवान, नर्मदाबाई पति मोहन पाटीदार सा. नान्दा	240/1, 240/2	4	262	4
352	रमेश पिता धन्नालाल, कमलाबाई पति रमेश पाटीदार	279/1, 279/2	4	263	4
353	बालाराम पिता मुन्नालाल कलाल सा. नान्दा	279/1, 279/2	4	264	4
354	रामसिंह पिता रामचंद्र, मनुबाई पति रामसिंह राजपूत	279/1, 279/2	4	35/266	33
355	संतोष पिता नानूराम, रजनीबाई पति संतोष केवट	279/1, 279/2	4	133/267	143
356	नानकराम पिता आनंदराम, लाछाबाई पति नानकराम कहार	279/1, 279/2	4	169/268	28
357	लाड्कीबाई बेवा सखाराम कहार	279/1, 279/2	4	144/269	62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
358	ओमप्रकाश पिता गट्टूलाल, राजश्री पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	279/1, 279/2	4	74/270	155
359	सुनिल पिता कैलाश, मायाबाई पति सुनिल कहार	279/1, 279/2	4	68/271	37
360	राधेश्याम पिता सीताराम, मधुबाई पति राधेश्याम केवट	279/1, 279/2	4	65/272	30
361	कलाबाई पति केशरिया कहार	279/1, 279/2	4	172/273	31
362	दगड़ीबाई बेवा हरिराम कालूराम पिता हरिराम शांताबाई पति कालूराम जाति बलाई सा देह	89	2	201	65
363	अरविन्द पिता जगन्नाथ शारदाबाई पति अरविन्द जाति बलाई सा देह	89	2	202	7
364	राधेश्याम पिता गुलाबसिंह सुधाबाई पति राधेश्याम जाति बलाई सा देह	89	2	203	55
365	गुलाबसिंह पिता मोत्या मीराबाई पति गुलाबसिंह जाति बलाई सा देह	89	2	204	80
366	मांगीलाल पिता घनश्याम अनुबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	89	2	205	55
367	शिवराम पिता मांगीलाल रेखाबाई पति शिवराम जाति बलाई सा देह	89	2	206	96
368	बंकट पिता किशन ताराबाई पति बंकट जाति बलाई सा देह	89	2	207	74
369	सतीश पिता बंकट संगीता पति सतीश जाति बलाई सा देह	89	2	208	81
370	शेरू पिता रामलाल शान्ताबाई पति शेरू जाति बलाई सा देह	89	2	209	58
371	शांताबाई बेवा लक्ष्मण जाति बलाई सा देह	89	2	210	57
372	रणछोड़ पिता टंटू नानीबाई पति रणछोड़ जाति बलाई सा देह	89	2	211	79
373	बलीराम पिता जगन सीमाबाई पति बलिराम जाति बलाई सा देह	89	2	212	35
374	जगन पिता झपडीया नानीबाई पति जगन जाति बलाई सा देह	89	2	213	35
375	रामसिंह पिता तोताराम कुसुमबाई पति रामसिंह जाति बलाई सा देह	89	2	218	13
376	नबीबाई बेवा नथू जाति बलाई सा देह	89	2	219	25
377	देवराम पिता मांगीलाल रमुबाई पति देवराम जाति बलाई सा देह	89	2	220	61
378	गुलाबबाई बेवा घनश्याम जाति बलाई सा देह	89	2	221	33
379	रेवाबाई बेवा रामलाल जगन्नाथ पिता रामलाल सुन्दरबाई पति जगन्नाथ जाति बलाई सा देह	89	2	222	78
380	मुकेश पिता रामलाल जानकीबाई पति मुकेश जाति बलाई सा देह	89	2	223	107
381	रुसीबाई बेवा सुकलाल जाति बलाई सा देह	89	2	224	116
382	गौराबाई बेवा छगन जाति बलाई सा देह	89	2	225	131
383	दयानंद पिता भगवान अंजूबाई पति दयानंद जाति पाटीदार सा देह	89	2	228	65
384	लाडकीबाई बेवा भगवान जाति पाटीदार सा देह	89	2	229	76
385	देवराम पिता भगवान कलाबाई पति देवराम जाति पाटीदार सा देह	89	2	230	90
386	कमलेश पिता देवराम अरुणबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	89	2	231	54
387	परमानंद पिता भगवान मंजूबाई पति परमानंद जाति पाटीदार सा देह	89	2	232	144
388	नरेन्द्र पिता राधेश्याम संगीताबाई पति नरेन्द्र जाति पाटीदार सा देह	89	2	233	67
389	राधेश्याम पिता भगवान लीलाबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	89	2	234	77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
390	विकमसिंह पिता फत्तूसिंह ममताबाई पति विकमसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	235	100
391	फत्तूसिंह पिता मकुन्द भूरीबाई पति फत्तूसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	236	100
392	विजयसिंह पिता फत्तूसिंह राधाबाई पति विजयसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	237	107
393	शंकरलाल पिता शिवलाल किरणबाई पति शंकरलाल जाति पाटीदार सा देह	89, 93/1, 92/1	2	239	254
394	गजानंद पिता शिवलाल कलाबाई पति गजानंद जाति पाटीदार सा देह	89	2	240	223
395	इन्द्रसिंह पिता बाघसिंह गायत्रीबाई पति इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	89, 122/8	2	241	36
396	रूपसिंह पिता गंगाराम जाति राजपूत सा देह	89	2	242	160
397	महेन्द्रसिंह पिता बाघसिंह अनिताबाई पति महेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	243	126
398	कमलेश पिता रूपसिंह कृष्णबाई पति कमलेश जाति राजपूत सा देह	89, 122/8	2	244	62
399	राधेश्याम पिता फततूलाल सुलभाबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	89, 122/8	2	373	212
400	विकास पिता राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	89, 122/8	2	374	334
401	वासुदेव पिता कालूराम गायत्रीबाई पति वासुदेव जाति पाटीदार सा देह	89, 122/8	2	375	119
402	विष्णुप्रसाद पिता कालूराम बीनाबाई पति विष्णुप्रसाद जाति पाटीदार सा देह	89, 122/8	2	376	119
403	शंकरलाल पिता कालूराम गीताबाई पति शंकरलाल जाति पाटीदार सा देह	89, 122/8	2	377	119
404	मोहनलाल पिता कालूराम मांगीबाई पति मोहनलाल जाति पाटीदार सा देह	89, 122/8	2	378	116
405	गजराजसिंह पिता रणछोड रुकमणीबाई पति गजराजसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	420	246
406	शंकरसिंह पिता रणछोड राजकुवरबाई पति शंकरसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	421	70
407	यशवन्तसिंह पिता शंकरसिंह फुलूबाई पति यशवन्तसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	422	70
408	राजेश पिता शंकरसिंह ममताबाई पति राजेश जाति राजपूत सा देह	89	2	423	70
409	दिनेश पिता शंकरलाल मायाबाई पति दिनेश जाति राजपूत सा देह	89	2	424	70
410	नथूसिंह पिता मकुन्द दगडीबाई पति नथूसिंह अन्तरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति राजपूत सा देह	89	2	425	340
411	मांगीबाई बेवा अमरसिंह नारायण पिता अमरसिंह भूरीबाई पति नारायण जाति राजपूत सा देह	89	2	426	123
412	रमेश पिता अमरसिंह सेवन्तीबाई पति रमेश जाति राजपूत सा देह	89	2	427	70

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413	प्रेमबाई बेवा गोपाल जगन्नाथ पिता गोपाल अहिल्याबाई पति जगन्नाथ जाति बलाई सा देह		89	2	429	113
414	अरुण पिता गोपाल भागुबाई पति अरुण जाति बलाई सा देह		89	2	430	47
415	दिलीप पिता रघुनाथ आशाबाई पति दिपक जाति बलाई सा देह		89	2	431	27
416	रघुनाथ पिता गोपाल होलरबाई पति रघुनाथ जाति बलाई सा देह		89	2	432	27
417	बाबू पिता गोकुल भुरीबाई पति बाबू जाति बलाई सा देह		89	2	433	127
418	ज्ञानचंद पिता मदन शीलबाई पति ज्ञानचंद जाति बलाई सा देह		89	2	434	33
419	सुकचंद पिता मदन फुंदाबाई पति सुकचंद जाति बलाई सा देह		89	2	435	51
420	देवचंद पिता मदन कमलबाई पति देवचंद जाति बलाई सा देह		89	2	436	52
421	धवलीबाई बेवा जोतीराम जाति बलाई सा देह		89	2	437	136
422	विश्राम पिता जगन्नाथ गायत्रीबाई पति विश्राम जाति बलाई सा देह		89	2	438	49
423	राजाराम पिता प्याराजी बसन्तीबाई पति राजाराम जाति बलाई सा देह		89	2	439	95
424	कमलबाई बेवा सुकराम जाति बलाई सा देह		89	2	440	49
425	बलई समाज गणगौर मंदिर व्यवस्थापक — मांगीलाल पिता घनश्याम सतीष पिता बंकट, मुकेश पिता रामलाल जाति बलाई सा देह		89	2	442	82
426	मिसरबाई बेवा भीलू जाति बलाई सा देह		89	2	443	153
427	बाबूलाल पिता सडू मांगीबाई पति बाबूलाल जाति बलाई सा देह		89	2	445	33
428	सीताराम पिता सडू सजनबाई पति सीताराम जाति बलाई सा देह		89	2	446	33
429	चुन्नीलाल पिता सडू सुशीलबाई पति चुन्नीलाल जाति बलाई सा देह		89	2	447	33
430	बसुबाई बेवा जगन जाति बलाई सा देह		89	2	448	33
431	भीलई बाई बेवा टूटा जाति बलाई सा देह		89	2	449	128
432	कमलबाई बेवा रमेश जाति बलाई सा देह		89	2	450	50
433	राकेश पिता रमेश अनिता बाई पति राकेश जाति बलाई सा देह		89	2	450/ 588	50
434	संजय पिता स्वरूपचंद मायाबाई पति संजय जाति बलाई सा देह		89	2	450/ 589	41
435	दिलीप पिता स्वरूपचंद कंचनबाई पति दिलीप जाति बलाई सा देह		89	2	450/ 590	41
436	स्वरूपचंद पिता नरसिंग कडवीबाई पति स्वरूपचंद जाति बलाई सा देह		89	2	450/ 591	41
437	दुलिचंद पिता मांगीलाल सकुबाई पति दुलिचंद जाति बलाई सा देह		89	2	450/ 592	123
438	शासकीय शाला भवन		92/1 93/1	1	1	200
439	शा. शाला भवन		92/1	1	2	593
440	रामलाल पिता शोभाराम रामकुवरबाई पति रामलाल जाति बलाई सा देह		92/1	1	4	49
441	गुलाबचंद पिता दूलिचंद भागुबाई पति गुलाबचंद जाति बलाई सा देह		92/1	1	5	17
442	दूलिचंद पिता शोभाराम देवकीबाई पति दूलिचंद जाति बलाई सा देह		92/1	1	6	18
443	राकेश पिता गणेश ज्योती बाई पति राकेश जाति बलाई सा देह		92/1	1	7	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
444	मंशाराम पिता गोकूल शांताबाई पति मंशाराम जाति बलाई सा देह	92/1	1	8	24
445	विकम पिता तोताराम शारदाबाई पति विकम जाति बलाई सा देह	92/1	1	9	37
446	धन्नालाल पिता तोताराम रुकमणीबाई पति धन्नालाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	10	39
447	सूरजबाई पिता गोपीचंद जाति बलाई सा देह	92/1	1	11	13
448	गोपीचंद पिता धन्नालाल कमलाबाई पति गोपीचंद जाति बलाई सा देह	92/1	1	12	34
449	शांतीलाल पिता अनोकचंद फुलबाई पति शांतीलाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	13	37
450	अनोकचंद पिता धन्नालाल अनोखीबाई पति अनोकचंद जाति बलाई सा देह	92/1	1	14	43
451	महेश पिता श्रीपाल मनीषाबाई पति महेश जाति बलाई सा देह	92/1	1	15	36
452	मिश्रीलाल पिता हीरालाल भागवतीबाई पति मिश्रीलाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	17	97
453	मंगतलाल पिता हीरालाल छन्दूबाई पति मंगतलाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	18	71
454	केशव पिता हीरालाल सुमनबाई पति केशव जाति बलाई सा देह	92/1	1	19	58
455	भगवान पिता हीरालाल रुकमणी बाई पति भगवान जाति बलाई सा देह	92/1	1	20	58
456	शोभाराम पिता मांगीलाल लालीबाई पति शोभाराम जाति बलाई सा देह	92/1	1	21	57
457	सुरेन्द्र पिता शोभाराम अनिता बाई पति सुरेन्द्र जाति बलाई सा देह	92/1	1	22	57
458	कालू पिता शंकर रिकूबाई पति कालू जाति बलाई सा देह	92/1	1	23	102
459	ओंकार पिता द्वारकाजी लक्ष्मीबाई पति ओंकार जाति बलाई सा देह	92/1	1	24	102
460	रमेश पिता रणछोड कडवीबाई पति रमेश जाति बलाई सा देह ब.न. 33	92/1	1	25	48
461	दिलीप पिता रमेश रेखाबाई पति दिलीप जाति बलाई सा देह	92/1	1	26	22
462	सावित्रीबाई बेवा फूलचंद जाति बलाई सा देह	92/1	1	27	68
463	धवलीबाई बेवा धीसालाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	28	52
464	रामचंद पिता धीसालाल सौरभबाई पति रामचंद जाति बलाई सा देह	92/1	1	29	52
465	ब्रिजलाल पिता गोपीचंद मंजूबाई पति ब्रिजलाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	31	32
466	समोतीबाई बेवा शोभाराम जाति भील सा देह	92/1	1	32	74
467	रमेश पिता रणछोड कडवीबाई पति रमेश जाति बलाई सा देह ब.न. 25	92/1	1	33	61
468	देवकीबाई पिता धीसालाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	34	31
469	पूनमचंद पिता सखाराम अनिताबाई पति पूनमचंद जाति बलाई सा देह	92/1	1	36	53
470	रुकमणीबाई बेवा सखाराम जाति बलाई सा देह	92/1	1	37	47
471	सीताराम पिता सखाराम धीसीबाई पति सीताराम जाति बलाई सा देह	92/1	1	38	47
472	कन्हैयालाल पिता शोभाराम जमनाबाई पति कन्हैयालाल जाति भील सा देह	92/1	1	40	158

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
473	नारायण पिता पदम कमलाबाई पति नारायण जाति राजपूत सा देह	92/1, 122/8	1	41	245
474	भगवान पिता लक्ष्मण लाराबाई पति भगवान जाति राजपूत सा देह	92/1,122/8	1	97	99
475	स्याणीबाई पति मुरार जाति पाटीदार सा देह	92/1,122/8	1	98	139
476	रमेश पिता नंदलाल राधाबाई पति रमेश जाति भूजवा सा देह	92/1,122/8	1	99	95
477	शासकीय आंगनवाडी	92/1	1	102	90
478	शा. डा.अम्बेडकर भवन	92/1	1	103	210
479	ग्राम पंचायत भवन	92/1	1	104	356
480	सोसायटी	92/1	1	105	30
481	हरिशंकर पिता गटटूलाल पदमाबाई पति हरिशंकर जाति अग्रवाल सा देह	92/1	1	107	143
482	ओमप्रकाश पिता गटटूलाल राजश्रीबाई पति ओमप्रकाश जाति अग्रवाल सा देह	92/1	1	108	142
483	कालूराम पिता विश्राम जाति पाटीदार सा. देह	92/1	1	109	230
484	महिपालसिंह पिता इन्द्रसिंह ज्योतीबाई पति महिपालसिंह जाति राजपूत सा देह	92/1	1	111	508
485	मोतीराम पिता रामलाल उषाबाई पति मोतीराम जाति मराठा सा देह	92/1	1	112	111
486	सुनिल पिता दगडू बालीबाई पति सुनिल जाति मराठा सा देह	92/1,122/8	1	113	36
487	संजय पिता दगडू मंगलाबाई पति संजय जाति मराठा सा देह	92/1,122/8	1	114	37
488	दयाराम पिता रामलाल जाति मराठा सा देह	92/1	1	115	68
489	दगडू पिता रामलाल लीलाबाई पति दगडू जाति मराठा सा देह	92/1	1	116	64
490	दिनेश पिता नथू बालीबाई पति दिनेश जाति गडरिया लोहार सा देह	92/1	1	118	35
491	शासकीय शाला भवन	92/1,93/1	1	119	2168
492	अन्तरसिंह पिता भुवानीराम सलिलाबाई पति अन्तरसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	120	82
493	डोंगरसिंह पिता भुवानीराम सुधाबाई पति डोंगरसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	121	51
494	भुरेसिंह पिता भुवानीराम अनिताबाई पति भुरेसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	122	51
495	कमलसिंह पिता भुवानीराम सुरजबाई पति कमलसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	123	57
496	सकल राजपूत समाज धर्मशाला	93/1	1	124	57
497	रमेश पिता रामसिंह सकुबाई पति रमेश जाति राजपूत सा देह	93/1	1	125	57
498	जगदीश पिता नवलसिंह सुमनबाई पति जगदीश जाति राजपूत सा देह	93/1	1	126	79
499	रविन्द्र पिता सोहन जाति मराठा सा देह	93/1	1	127	90
500	भैयालाल पिता मोहनलाल राधाबाई पति भैयालाल जाति सुतार सा देह	93/1	1	128	54
501	मोहनलाल पिता चुन्नीलाल रघाणीबाई पति मोहनलाल जाति सुतार सा देह	93/1	1	129	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
502	मांगीबाई बेवा अमरसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	130	140
503	रुपसिंह पिता चन्द्ररसिंह सेवन्तिबाई पति रुपसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	131	172
504	शा. औषधालय	92/1, 93/1	1	133	169
505	सोसायटी	92/1, 93/1	1	134	367
506	अमरसिंह पिता बाबू जाति मानकर सा देह	93/1	1	136	55
507	गज्जू पिता शंकर संतोषबाई पति गज्जू जाति मानकर सा देह	93/1	1	137	85
508	सजनसिंह पिता आनंदराव नानूबाई पति सजनसिंह जाति भारूड सा देह	93/1	1	138	66
509	हिम्मत पिता रामचंद इमलबाई पति हिम्मत जाति मराठा सा देह	93/1	1	139	47
510	उम्मेदसिंह पिता कैलाश रुकमणीबाई पति उम्मेदसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	140	59
511	सुभाष पिता जगन बबलीबाई पति सुभाष जाति मराठा सा देह	93/1	1	141	22
512	पप्पू पिता छगन लक्ष्मीबाई पति पप्पू जाति मानकर सा देह	93/1	1	144	75
513	नन्नू पिता नाग्या गिरजाबाई पति नन्नू जाति कहार सा देह	93/1	1	146	48
514	मुनिरखौ पिता भुरेखौ सलमाबाई पति मुनिरखौ जाति पिंजारा सा देह	93/1	1	147	98
515	सवृबाई पिता बिसन जाति कहार सा देह	93/1	1	148	44
516	गुलाबसिंह पिता शेरू गीताबाई पति गुलाबसिंह जाति नहाल सा देह	93/1	1	149	65
517	सीताराम पिता ओंकार कमूबाई पति सीताराम जाति भारूड सा देह	93/1	1	150	45
518	जीवन्ती बाई पति मंशाराम जाति कहार सा देह	93/1	1	151	55
519	आनन्दराम पिता छितू जाति कहार सा देह	93/1	1	152	75
520	शांताबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति. सा देह	93/1	1	153	31
521	भगवान पिता बेचर भागवतीबाई पति भगवान जाति पाटीदार सा देह	93/1	1	156	164
522	रामलाल पिता चुन्नीलाल कलाबाई पति रामलाल जाति सुतार सा देह	93/1	1	157	83
523	देवकरण पिता सुकचंद जाति बलाई सा देह	93/1	1	160	19
524	धन्नालाल पिता छगन भागुबाई पति धन्नालाल जाति सा देह	93/1	1	162	54
525	रमेश पिता छगन तारबाईक पति रमेश जाति बलाई सा देह	93/1	1	163	38
526	शेरू पिता नथूलाल मंजूबाई पति शेरू जाति बलाई सा देह	93/1	1	164	31
527	सीताराम पिता जगन्नाथ सगुनाबाई पति सीताराम जाति बलाई सा देह	93/1	1	165	40
528	नंदराम पिता जगन्नाथ सरसतीबाई पति नंदराम जाति बलाई सा देह	93/1	1	166	44
529	हीरुबाई पति राधेश्याम जाति बलाई सा देह	93/1	1	167	48
530	निर्मलबाई बेवा रामचरण जाति बलाई सा देह	93/1	1	168	54
531	प्यारा पिता शोभाराम देवकीबाई पति प्यारा जाति बलाई सा देह	93/1	1	173	22
532	गबरु पिता बुध्या लक्ष्मीबाई पति गबरु जाति मानकर सा देह	93/1	1	174	53
533	भगवान पिता छगन दुर्गाबाई पति भगवान जाति नाई सा देह	93/1	1	175	61
534	भवरसिंह पिता सोदनसिंह देवकीबाई पति भवरसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	176	61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
535	बलीराम पिता गंगाराम सुमनबाई पति बलीराम जाति सा देह	93/1	1	177	61
536	नहार सिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत पंडरीनाथ पिता मोहनलाल जाति सुतार सा देह	93/1	1	179	161
537	रामसिंह पिता लक्ष्मण सुमनबाई पति रामसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	181	174
538	राजेश पिता सीताराम सीमाबाई पति राजेश जाति कुलमी सा देह	93/1	1	183	174
539	नहारसिंह पिता भुवानीराम लक्ष्मीबाई पति नहारसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	184	122
540	नरेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राधाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1	1	185	272
541	भाईराम पिता मांगीलाल राजकुवरबाई पति भाईराम जाति बलाई सा देह	93/1	1	186	95
542	सङ्कु पिता सुखलाल बसुबाई पति सङ्कु जाति बलाई सा देह	93/1	1	187	87
543	भैरवान मंदिर सार्वजनिक	93/1	1	189	2
544	रमुबाई बेवा भुवानीराम जाति राजपूत सा देह	93/1, 89	1	190	77
545	नाहरसिंह पिता भुवानीराम लक्ष्मीबाई पति नाहरसिंह जाति राजपूत सा देह	93/1, 89	1	191	122
546	सीताराम पिता चंपालाल लीलाबाई पति सीताराम जाति कुलमी सा देह	92/1, 93/1	1	193	94
547	गीताबाई बेवा चंपालाल जाति कुनबी सा देह	93/1	1	194	130
548	दुर्गा मंदिर खुमानसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत सा देह	92/1	1	196	7
549	मनुबाई बेवा रामसिंग नरेन्द्र पिता रामसिंग राधाबाई पति नरेन्द्र जाति राजपूत सा देह	93/1	1	197	350
550	नरेन्द्रसिंह पिता रामसिंह राधाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	92/1, 93/1	1	198	292
551	तुलसीराम पिता बाबूलाल शांतीबाई पति तुलसीराम जाति मराठा सा देह	92/1 122/8	1	116/ 596	129
552	कडवा पिता बाबू सिंधुबाई पति कडवा जाति मराठा सा देह	92/1 122/8	1	116/ 597	136
553	मंगतलाल पिता हीरालाल छन्दूबाई पति मंगतलाल जाति बलाई सा देह	92/1	1	17/ 599	45
554	राजू पिता अमृतराव रुकमाबाई पति राजू जाति मराठा सा देह	122/8	1	43	129
555	जीवन्ताबाई बेवा अमृत जाति मराठा सा देह	122/8	1	44	37
556	राजेन्द्र पिता ध्यानसिंह राजपूत सा देह	122/8	1	45	37
557	ध्यानसिंह पिता शंकर राजूबाई पति ध्यानसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	1	46	80
558	कालू सिंह पिता सबलसिंह भागवतीबाई पति कालूसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	1	47	42
559	सुमनबाई बेवा राघोराम जाति राजपूत सा देह	122/8	1	48	36
560	पवन पिता राघोराम पिंकीबाई पति पवन जाति राजपूत सा देह	122/8	1	49	61
561	दिनेश पिता शिवराम सुनिताबाई पति दिनेश जाति बैरागी सा देह	122/8	1	50	118
562	राजेन्द्र पिता भीमराव बेबीबाई पति राजेन्द्र जाति मराठा सा देह	122/8	1	51	91
563	भीमराव पिता माधवराव गुणीबाई पति भीमराव जाति मराठा सा देह	122/8	1	52	57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
564	अमरसिंह पिता विश्राम कलाबाई पति अमरसिंह जाति मानकर सा देह	122/8	1	53	33
565	दिनेश पिता लक्ष्मण मंजूलाबाई पति दिनेश जाति पाटीदार सा देह	122/8	1	55	487
566	सुरेन्द्रराव पिता किशनराव किरणबाई पति सुरेन्द्रराव जाति मराठा सा देह	122/8	1	56	480
567	मुरार पिता नथूजी स्याणीबाई पति मुरार जाति पाटीदार सा देह	122/8	1	57	480
568	सुरेन्द्र पिता किशन किरणबाई पति सुरेन्द्र जाति मराठा सा देह	122/8	1	60	415
569	परसराम पिता लक्ष्मण पारवतीबाई पति परसराम जाति मराठा सा देह	122/8	1	61	135
570	महेश पिता भगवान ज्योतीबाई पति महेश जाति मराठा सा देह	122/8	2	63	132
571	भगवान पिता एडूजी भागवतीबाई पति भगवान जाति मराठा सा देह	122/8	2	64	133
572	रमेश पिता नानकया सुमनबाई पति रमेश जाति भारुड सा देह	122/8	2	65	180
573	बुदीबाई बेवा शेरू जाति कहार सा देह	122/8	2	66	98
574	भाईराम पिता छगन द्वारकीबाई पति भाइराम जाति कहार सा देह	122/8	2	68	49
575	देवराम पिता छगन मायाबाई पति देवराम जाति कहार सा देह	122/8	2	69	23
576	भुवानीराम पिता छगन मंगतीबाई पति भुवानीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	70	21
577	छगन पिता चुन्नीलाल छन्दुबाई पति छगन जाति कहार सा देह	122/8	2	71	49
578	रामचंद पिता छगन निशाबाई पति रामचंद जाति कहार सा देह	122/8	2	73	40
579	भागवतीबाई बेवा लच्छीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	74	53
580	रामदेव पिता जयराम साधनाबाई पति रामदेव जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	76	172
581	जमनाबाई बेवा रामाजी जाति राजपूत सा देह	122/8	2	77	74
582	अनोकसिंह पिता रामाजी बसन्तीबाई पति अनोकसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	78	74
583	कनकसिंह पिता रामाजी संतोषबाई पति कनकसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	79	99
584	नथूसिंह पिता बालूजी कलाबाई पति नथूसिंहजी जाति राजपूत सा देह	122/8	2	80	128
585	मोहनसिंह पिता नथूसिंह रेखाबाई पति मोहनसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	81	128
586	जितेन्द्र पिता भगवानसिंह मंजूबाई पति जितेन्द्र जाति राजपूत सा देह	122/8	2	82	243
587	किशन पिता ठाकलू स्यानुबाई पति किशन जाति मराठा सा देह	122/8	2	83	199
588	अजबबाई बेवा गणपतजी विक्रम पिता गणपतजी प्रमिलाबाई पति विक्रम जाति भारुड सा देह	122/8	2	86	117
589	भारत पिता गणपत मंजूबाई पति भारत जाति भारुड सा देह	122/8	2	87	117
590	गंगाबाई बेवा नानकयाजी रमेश पिता नानकयाजी सुमनबाई पति रमेश जाति भारुड सा देह	122/8	2	88	294
591	राधेश्याम पिता श्रीराम रुकमणीबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	89	141
592	मुरार पिता नथूजी स्याणीबाई पति मुरार जाति पाटीदार सा देह ब नं 57	122/8	2	90	112
593	मिसरबाई बेवा श्रीराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	91	88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
594	सुभाष पिता श्रीराम मनीषाबाई पति सुभाष जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	92	60
595	कैलाश पिता श्रीराम किरणबाई पति कैलाश जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	93	110
596	जगदीश पिता नवलसिंह सुमनबाई पति जगदीश जाति राजपूत सा देह	122/8	2	94	121
597	नवलसिंह पिता गणपतजी कावरबाई पति नवलसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	95	110
598	श्यामसिंह पिता नवलसिंह लक्ष्मीबाई पति श्यामसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	96	100
599	अनिल पिता रमेश सविताबाई पति अनिल जाति भूजवा सा देह	122/8 , 92/1	2	100	91
600	महादेव पिता बालूजी कमलाबाई पति महादेव जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	246	191
601	राजनाथ पिता बालूजी शांताबाई पति राजनाथ जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	247	182
602	रामेश्वर पिता बालूजी मनोरमाबाई पति रामेश्वर जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	248	198
603	नरेन्द्रसिंह पिता बाघसिंह सुलोचनाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	249	140
604	गणेश पिता रूपसिंह साधनाबाई पति गणेश जाति राजपूत सा देह	122/8	2	250	135
605	रामेश्वर पिता शिवलाल लीलाबाई पति रामेश्वर जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	251	135
606	राजेन्द्र पिता शिवलाल मधुबाई पति राजेन्द्र जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	252	135
607	मिश्रीलाल पिता बालूराम सुशीलाबाई पति मिश्रीलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	254	140
608	विलास पिता परसराम सरलाबाई पति विलास जाति मराठा सा देह	122/8	2	255	35
609	विलास पिता परसराम सरलाबाई पति विलास जाति मराठा सा देह	122/8	2	256	35
610	जगन्नाथ पिता लक्ष्मण सुमनबाई पति जगन्नाथ जाति मराठा सा देह	122/8	2	257	53
611	आनन्दराम पिता परसराम सुनिताबाई पति आनन्दराम जाति मराठा सा देह	122/8	2	258	56
612	चंदू पिता लक्ष्मण दुर्गाबाई पति चंदू जाति मराठा सा देह	122/8	2	259	74
613	दिनेश पिता लक्ष्मण मंजूलाबाई पति दिनेश जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	260	157
614	कमल पिता लक्ष्मण प्रमिलाबाई पति कमल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	261	150
615	रमेश पिता लक्ष्मण किरणबाई पति रमेश जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	262	133
616	नारायण पिता हेमराज भुवानीबाई पति नारायण जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	263	49
617	कमलेश पिता नारायण सीमाबाई पति कमलेश जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	264	92
618	ओमप्रकाश पिता हेमराज सालूबाई पति ओमप्रकाश जाति पाटीदार सा देह	122/8, 92/1	2	265	129
619	महेश पिता हेमराज मनोरमाबाई पति महेश जाति पाटीदार सा देह	92/1 122/8	2	266	122
620	अनोखीबाई बेवा चुन्नीलाल पन्नालाल पिता चुन्नीलाल रुखमणीबाई पति पन्नालाल जाति सुतार सा देह	122/8	2	269	45
621	आनन्दराम पिता नथू उमिलाबाई पति आनन्दराम जाति मराठा सा देह	122/8	2	270	94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
622	नथू पिता भीलाजी सुमनबाई पति नथू जाति मराठा सा देह	122/8	2	271	94
623	लक्ष्मीबाई पति हेमराज जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	272	164
624	प्रेमबाई बेवा लक्ष्मण जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	273	230
625	जगन्नाथ पिता मुरार लक्ष्मीबाई पति जगन्नाथ जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	274	284
626	लखनलाल पिता जगन्नाथ मनोरमाबाई पति लखनलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	275	245
627	सुलभाबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	277	530
628	संतोष पिता प्रभुराम दुर्गाबाई पति संतोष जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	278	186
629	हरिराम पिता अमरचंद गोदावरीबाई पति हरिराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	279	110
630	गंगाधर पिता देवराम अनूसंयाबाई पति गंगाधर जाति ब्राह्मण सा देह	122/8	2	280	110
631	जयराम पिता अमरचंद मनुबाई पति जयराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	281	130
632	देवीलाल पिता बिसन वर्षाबाई पति देवीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	283	73
633	राधेश्याम देवीलाल पिता बिसन जाति सा देह	122/8	2	284	73
634	संतोष पिता रघुनाथ गायत्रीबाई पति संतोष जाति मानकर सा देह	122/8	2	285	140
635	हेमराज, बालाराम, शंकर, दिनेश, फगालाल पिता नारायण भागूबाई पति हेमराज, बंदूबाई पति शंकर, भागवतीबाई पति दिनेश, सीराबाई पति फगालाल कंचनबाई पति बालाराम जाति भारुड सा देह	122/8	2	286	140
636	पवन पिता हीरालाल गायत्रीबाई पति पवन जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	287	121
637	बाबूलाल पिता राजाराम कमलाबाई पति बाबूलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	288	156
638	राजन पिता मोहन ममताबाई पति राजन जाति कहार सा देह	122/8	2	289	94
639	शोभाराम पिता बाबू हीरुबाई पति शोभाराम जाति कहार सा देह	122/8	2	290	91
640	मुकेश पिता कन्हैया श्याणीबाई पति मुकेश जाति कहार सा देह	122/8	2	291	65
641	राकेश पिता कन्हैया संगीताबाई पति राकेश जाति कहार सा देह	122/8	2	292	31
642	मनीराम पिता मांगीलाल मायाबाई पति मनीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	293	39
643	कैलाश पिता मांगीलाल लक्ष्मीबाई पति कैलाश जाति कहार सा देह	122/8	2	294	27
644	प्रमिलाबाई पति मांगीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	295	22
645	सावित्रीबाई पति मांगीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	296	22
646	लक्ष्मीबाई बेवा मिश्रीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	298	130
647	गजराबाई बेवा मांगीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	299	140
648	रमेश पिता छगन साउ बाई पति रमेश जाति कहार सा देह	122/8	2	300	97
649	भागचंद पिता चुन्नीलाल बसुबाई पति भागचंद जाति कहार सा देह	122/8	2	301	157
650	नाग्या पिता भागचंद यशोदाबाई पति नाग्या जाति कहार सा देह	122/8	2	302	102
651	विष्णु पिता बाबू सुनिताबाई पति विष्णु जाति कहार सा देह	122/8	2	303	156
652	राम्या पिता जोगीलाल देवकाबाई पति राम्या जाति कहार सा देह	122/8	2	304	140
653	अर्जुन पिता छितू लीलाबाई पति अर्जुन जाति कहार सा देह	122/8	2	305	148

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
654	नरेन्द्र पिता मंशाराम नर्मदाबाई पति नरेन्द्र जाति गोस्वामी सा देह	122/8	2	307	68
655	मंजूबाई पति मंशाराम जाति गोस्वामी सा देह	122/8	2	308	14
656	दौलतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह द्वारकीबाई पति दौलतसिंह जाति राजपूत सा.देह	122/8	2	309	62
657	मंशाराम पिता कालू कुसुमबाई पति मंशाराम जाति गोस्वामी सा देह	122/8	2	310	109
658	रामप्यारीबाई बेवा कालू जाति गोस्वामी सा देह	122/8	2	311	15
659	गजराजसिंह पिता दौलतसिंह कृष्णबाई पति गजराजसिंह जाति राजपूत सादेह	122/8	2	312	91
660	धनुबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	313	178
661	मनोहरसिंह पिता भगवानसिंह शीलूबाई पति मनोहरसिंह जाति राजपूत सा.देह	122/8	2	314	107
662	दरियावसिंह पिता भगवानसिंह प्रेमलता पति दरियावसिंह जाति राजपूत सा.देह	122/8	2	315	108
663	कैलाश पिता भगवान भागवतीबाई पति कैलाश जाति राजपूत सा देह	122/8	2	316	98
664	मनोहर , कैलाश दरियाव पिता भगवानसिंह शीलूबाई पति मनोहर भागवतीबाई पति कैलाश प्रमबाई पति दरियाव जाति राजपूत सा देह	122/8	2	318	142
665	गोगलबाई बेवा मांगीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	319	135
666	अमरसिंह पिता कनकसिंह समोतीबाई पति अमरसिंह जाति मानकर सा देह	122/8	2	320	67
667	लाडकीबाई बेवा बूदिया बिनूबाई बेवा रामेश्वर जाति मानकर सा देह	122/8	2	321	75
668	उदयसिंह पिता रघुनाथ गीताबाई पति उदयसिंह जाति मानकर सा देह	122/8	2	322	104
669	रजनीश पिता रघुनाथ सुनिताबाई पति रजनीश जाति मानकर सा देह	122/8	2	323	71
670	रघुनाथ पिता लक्ष्मण जाति मानकर सा देह	122/8	2	324	72
671	परसराम पिता लक्ष्मण पारवतीबाई पति परसराम जाति मराठा सा देह	122/8	2	325	68
672	भागीरथ पिता रघुनाथ मंजूलाबाई पति भागीरथ जाति मराठा सा देह	122/8	2	326	118
673	प्रेमनाथ पिता रघुनाथ चंचलबाई पति प्रेमनाथ जाति मराठा सा देह	122/8	2	327	118
674	गिरजाबाई बेवा खण्डेराव जाति मराठा सा देह	122/8	2	328	102
675	महेश भागीरथ पिता सखाराम शांतीबाई पति महेश , कुसुमबाई पति भागीरथ जाति कहार सा देह	122/8	2	329	37
676	रामसिंह पिता सखाराम नानीबाई पति रामसिंह जाति कहार सा देह	122/8	2	330	37
677	रामकोरबाई बेवा बिसन जाति कहार सा देह	122/8	2	331	74
678	मनोहर पिता शोभाराम संगीताबाई पति मनोहर जाति कहार सा देह	122/8	2	332	26
679	राधेश्याम पिता शोभाराम ममताबाई पति राधेश्याम जाति कहार सा देह	122/8	2	333	27
680	नबूबाई बेवा शोभाराम जाति कहार सा देह	122/8	2	334	27
681	शंकरलाल पिता गणपत रमबाई पति शंकरलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	336	80
682	बाबूलाल पिता गणपत केशरबाई पति बाबूलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	337	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
683	भलाजी पिता गणपत मीराबाई पति भलाजी जाति कहार सा देह	122/8	2	338	39
684	पांचीलाल पिता गणपत बसुबाई पति पांचीलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	339	39
685	रामेश्वर पिता गणपत जाति कहार सा देह	122/8	2	340	40
686	भुवानीराम पिता गणपत मधुबाई पति भुवानीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	341	40
687	मधुबाई पति भुवानीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	342	40
688	गणेश पिता हरिराम कृष्णबाई पति गणेश रमाबाई बेवा हरिराम जाति सोनी सा देह	122/8	2	343	205
689	चंदरसिंह पिता सिकदारसिंह लाडकीबाई पति चंदरसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	344	33
690	कैलाश पिता चंदरसिंह प्रभाबाई पति कैलाश जाति राजपूत सा देह	122/8	2	345	115
691	लखनलाल पिता चंदरसिंह कमलेशबाई पति लखनलाल जाति राजपूत सा देह	122/8	2	346	114
692	सेवन्तीबाई बेवा कमलसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	347	110
693	लूमरीबाई बेवा शेरसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	348	110
694	हीरालाल पिता जगन्नाथ यशोदाबाई पति हीरालाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	350	245
695	बाबूलाल पिता राजाराम कमलबाई पति बाबूलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	351	239
696	ज्ञानचंद पिता गोपाल सेवन्तीबाई पति ज्ञानचंद जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	352	172
697	सीताराम पिता घनश्याम बसुबाई पति सीताराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	353	83
698	गोपीबाई बेवा घनश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	354	89
699	राधेश्याम पिता घनश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	355	142
700	प्रेमचंद पिता घनश्याम राधाबाई पति प्रेमचंद जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	356	138
701	अमिचंद पिता घनश्याम नर्मदाबाई पति अमिचंद जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	357	108
702	जानकीबाई बेवा घनश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	358	65
703	अन्नपूर्णाबाई बेवा मोहनलाल जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	359	65
704	राधेश्याम पिता नारायण रुकमणीबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	361	47
705	भुवानीराम पिता नारायण सेवन्तीबाई पति भुवानीराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	362	47
706	नारायण पिता गोपाल कमलबाई पति नारायण भगवान पिता नारायण कुसुमबाई पति भगवान जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	363	96
707	गजानन्द पिता गोपाल राधाबाई पति गजानन्द जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	364	177
708	अनोकचंद पिता गोपाल भागवतीबाई पति अनोकचंद जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	365	177
709	रणछोड़ पिता सीताराम सीताबाई पति रणछोड़ जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	366	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
710	सुरेश पिता रणछोड निर्मलाबाई पति सुरेश जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	367	150
711	सीताराम पिता कालूराम कमलाबाई पति सीताराम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	368	150
712	राधेश्याम पिता कालूराम कुसुमबाई पति राधेश्याम जाति पाटीदार सा देह	122/8	2	369	150
713	बीनाबाई बेवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण सा देह	122/8	2	370	93
714	वन्दनाबाई बेवा ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण सा देह	122/8	2	371	93
715	सार्वजनिक, माताजी का ओटला कहार समाज	122/8	2	380	12
716	ओमप्रकाश पिता हीरालाल गीताबाई पति ओमप्रकाश जाति कहार सा देह	122/8	2	381	58
717	सुरेश पिता हीरालाल कृष्णाबाई पति सुरेश जाति कहार सा देह	122/8	2	384	39
718	धनीबाई बेवा हीरालाल जाति कहार सा देह	122/8	2	385	41
719	कडवीबाई बेवा मनोहर जाति कहार सा देह	122/8	2	386	72
720	बलीराम पिता बाबूलाल बसुबाई पति बलीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	387	64
721	दिनेश पिता सुकलाल नानीबाई पति दिनेश जाति कहार सा देह	122/8	2	388	70
722	रेवाराम पिता चुन्नीलाल सुभद्राबाई पति रेवाराम जाति कहार सा देह	122/8	2	389	70
723	लोभीराम पिता बाबू लक्ष्मीबाई पति लोभीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	390	73
724	छन्नूसिंह पिता बालू नानीबाई पिता छन्नूसिंह जाति कहार सा देह	122/8	2	391	70
725	बसन्त पिता रामलाल ममताबाई पति बसन्त जाति मानकर सा देह	122/8	2	392	42
726	मुकेश पिता रामदीन ममताबाई पति मुकेश जाति कंहार सा देह	122/8	2	393	80
727	सोनाबाई बेवा दशरथ जाति कहार सा देह	122/8	2	394	72
728	महेश पिता सुकलाल बसन्तीबाई पति महेश जाति कहार सा देह	122/8	2	395	71
729	सुकलाल पिता चुन्नीलाल राजलबाई पति सुकलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	396	67
730	सुबीबाई बेवा नन्दु जाति कहार सा देह	122/8	2	397	64
731	चन्द्रसिंह पिता गेंदालाल देवकीबाई पति चन्द्रसिंह जाति कहार सा देह	122/8	2	399	84
732	अमरसिंह पिता मांगीलाल सकुबाई पति अमरसिंह जाति कहार सा देह	122/8	2	400	72
733	बलीराम पिता धीसाजी ममताबाई पति बलीराम जाति कहार सा देह	122/8	2	401	50
734	शंकरलाल पिता धीसालाल रेखाबाई पति शंकरलाल जाति कहार सा देह	122/8	2	403	34
735	संतोष पिता हीरालाल प्रेमलबाई पति संतोष जाति कहार सा देह	122/8	2	404	43
736	करणसिंह पिता सबलसिंह जयन्तिबाई पति करणसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	47 / 580	42
737	धन्नालाल पिता चुन्नीलाल कान्तीबाई पति धन्नालाल जाति सुतार सा देह	122/8	2	269/ 581	45
738	भागीरथ पिता मोहनलाल रुकमणीबाई पति भागीरथ जाति सुतार सा देह	122/8	2	269/ 582	52
739	दुर्गलाल पिता चुन्नीलाल कुसुमबाई पति दुर्गलाल जाति सुतार सा देह	122/8	2	269/ 583	55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
740	रामलाल पिता चुन्नीलाल कलाबाई पति रामलाल जाति सुतार सा देह	122/8	2	269/ 584	52
741	सबलसिंह पिता उमरावसिंह कुवरबाई पति सबलसिंह जाति राजपूत सा देह	122/8	2	47/ 598	62
742	इन्द्रसिंह पिता रुग्नाथ जाति मानकर सा देह	122/8	2	392/ 601	35
	महायोग			742	88365

परिशिष्ट – 2
निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

अनु.क्र.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	सौदान पिता अनसिंग	270	मकान कच्चा
2	गीताबाई पति नानूराम	270	मकान कच्चा
3	सुकराम पिता नानूराम	270	मकान कच्चा
4	मानसिंग पिता रामलाल	270	मकान कच्चा
5	शेरू पिता प्रेमचंद	270	मकान कच्चा
6	मानसिंग पिता नारायण	92/3	मकान कच्चा
7	गजानंद पिता गोपाल	116/2	मकान कच्चा
8	भुवानीराम पिता नारायण	116/3	मकान कच्चा
9	देवराम पिता भगवान	116/4	मकान कच्चा
10	ज्ञानचंद पिता गोपाल	116/5	मकान कच्चा

परिशिष्ट – 3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु.क्र.	ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	269	चरनोई	कच्चा टप्पर-18
2	272/1	चरनोई	कच्चा टप्पर-18
3	299/1	चरनोई	कच्चा टप्पर-35
4	281	चरनोई	पाईपलाईन-100, पम्पहाउस-49

- 2 राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टी कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षैत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
- 3 कंपनी के भू-अर्जन आवेदन पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.09.2007 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 12-15/07/सात-2-ए भोपाल दिनांक 04.10.07 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है।
- 4 कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2,3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेंगा, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—
1. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्वर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
 2. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
 3. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निरस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा।
 4. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुर्नवास नीति में दिए गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी।

5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44ए)
6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा, और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
7. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी, तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।
8. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा।
10. प्रदूषण नहीं किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आशय के प्राप्त करना होगे कि, “पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा”।
11. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मार्स्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।
12. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
13. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा।
14. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

15. शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 16. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें।
 17. प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- (क) राज्य शासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लाट पर मकान बनाने के लिए करेगा। यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है, तो वह आवंटित स्थल पर मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा।
- (ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह उस पर अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है, तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा। जिसमें लगाने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा।
- (ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
- (घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1,2,3 में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्तियों के अर्जन के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा, तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा। यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन भूमि अधिगृहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिगृहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिगृहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी, उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा।

भू—अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क.—1 राज्य शासन, पक्ष क.—2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्त्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी। अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्युटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा।

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क.—1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क.—2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र सक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

पक्ष क्रमांक—1

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

साक्षी क्र.—1

नाम: मथुरालाल मण्डलेश्वर

पता 219 पुष्प कुन्ज बजरंग नगर जैतापुर
खरगोन

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला—खरगोन (म.प्र.)

साक्षी क्र.—2

नाम: गोपाल यादव

पक्ष क्रमांक—2

पता: बिस्टान रोड़ नाका

रुद्रेश्वर कॉलोनी खरगोन

(असद जाफर)

महाप्रबंधक
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.
मण्डलेश्वर

क्रमांक/288/भू-अर्जन/11

खरगोन, दिनांक 4 मार्च, 2011

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 9-अ/82/09-10

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार-

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभ्यांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 04.03.2011 को सम्पादित किया जा रहा है।

- 1 कंपनी ने म.प्र. शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण छूब से प्रभावित होने से ग्राम मर्दाना प.ह. नं. 31, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 148, 199, 240, 242, 243, 244, 245, 247/2 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नंबर 166/1, 194, 201, 203, 204, 224, पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1, 70, 168 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1,2,3 पर अंकित किया गया है।

परिशिष्ट – 1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/पूरा पता	सर्वे नम्बर	मोहल्ला शीट क्रमांक	प्लाट नम्बर/भूखण्ड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	2	3	4	5	6
1	आश्रम महन्त श्री लक्ष्मण दास जी त्यागी	240,242	1	1	115
2	आश्रम महन्त श्री लक्ष्मण दास जी त्यागी	240,242	1	2	80
3	आश्रम महन्त श्री लक्ष्मण दास जी त्यागी	240,242	1	3	35
4	आश्रम महन्त श्री लक्ष्मण दास जी त्यागी	240,242	1	4	26
5	आश्रम महन्त श्री लक्ष्मण दास जी त्यागी	240,242	1	5	36
6	अशोक पिता गेंदालाल मंजुबाई पति अशोक	240,242	1	7	145
7	कालु पिता मंगत, मंजुबाई पति कालु	240,242	1	8	106
8	दरियाव पिता सीताराम, भागवती पति दरियाव	240,242	1	9	66
9	माला बाई बेवा पुनमचंद,	240,242	1	10	43
10	शासकीय शाला भवन	240,242	1	13	200
11	ग्राम पंचायत भवन	240,242	1	15	210
12	शाला भवन किचन	240,242	1	16	38
13	शास. प्रा.रखा.केन्द	240,242	1	18	145
14	शा.मा.वि.भवन	240,242	1	19	278
15	शा.प्रा.वि. कार्यालय	240,242	1	20	106
16	शा.प्रा.शाला भवन	240,242	1	22	182
17	शा.हाई स्कूल भवन	240,242	1	23	550
18	कमल सिंह पिता शेर सिंह, रेमश बाई पति कमल सिंह,	240,242	1	25	885
19	सुरेश चन्द्र पिता बंसतीलाल, संध्याबाई पति सुरेशचंद	240,242	1	26	370
20	देवीसिंह पिता गणपतसिंह, सेवतीबाई, देवीसिंह	240,242	1	27	40
21	मांगीलाल पिता भुक्कण, दुर्गाबाई पति मांगीलाल	240,242	1	28	59
22	भारत पिता सोनीराम, रेशमबाई पति भारत	240,242	1	29	30
23	रामलाल पिता छीतू सुमनबाई पति रामलाल	240,242	1	30	548
24	सौभाग सिंह पिता चैनसिंह राजुबाई पति सौभागसिंह	240,242	1	32	62
25	मानसिंह पिता चैनसिंह, रेशमबाई पति मानसिंह	240,242	1	33	51
26	मनोहर सिंह पिता चैनसिंह, शांताबाई पति मनोहर सिंह	240,242	1	34	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	सौभाग सिंह पिता चैनसिंह राजुबाई पति सौभागसिंह	240,242	1	35	112
28	मुकेश पिता हुकुमचंद, चिंताबाई पति मुकेश	240,242	1	36	200
29	रामचंद्र पिता हरिकरण, गंगाबाई पति रामचंद्र	240,242	1	37	146
30	प्रहलाद सिंह पिता नहारसिंह, सुरजबाई पति प्रहलाद सिंह	240,242	1	38	180
31	मानसिंह पिता चैनसिंह, रेशमबाई पति मानसिंह	240,242	1	39	35
32	मनोहर सिंह पिता चैनसिंह, शांताबाई पति मनोहर सिंह	240,242	1	40	92
33	बागसिंह पिता मोहनसिंह, दुगाबाई पति बागसिंह	240,242	1	41	137
34	सुंदरलाल पिता बलीराम, राधाबाई पति सुंदरलाल	240,242	1	42	135
35	प्रहलाद सिंह पिता नैनसिंह, ममताबाई पति प्रहलाद सिंह	240,242	1	43	175
36	खुमानसिंह पिता भुवानीसिंह, कुसुमबाई पति खुमान सिंह	240,242	1	44	170
37	रमेश भारत सिंह प्रताप सिंह पिता उमेद सिंह, कुसुमबाई पति रमेश, ममताबाई पति भारत सिंह, राजबाला पति प्रताप सिंह	240,242	1	45	50
38	मंगल सिंह पिता सीताराम, कमलबाई पति मंगल सिंह,	240,242	1	46	160
39	दरियाव पिता सीताराम, भागवती पति दरियाव	240,242	1	47	27
40	नानकराम पिता छीतू, सलिताबाई पति नानकराम	240,242	1	48	185
41	सजन सिंह पिता देवीसिंह, कविताबाई पति सजनसिंह	240,242	1	49	185
42	देवीसिंह पिता मांगीलाल, नादान पति देवीसिंह	240,242	1	50	185
43	प्रहलाद सिंह पिता नैनसिंह, ममताबाई पति प्रहलाद सिंह	240,242	1	51	38
44	बागसिंह पिता मोहनसिंह, दुगाबाई पति बागसिंह	240,242	1	52	60
45	मिश्रीलाल पिता बलीराम, कंचन बाई पति मिश्रीलाल	240,242	1	53	110
46	भगवान सिंह पिता प्रेमचंद, रुक्मणी बाई पति भगवान सिंह	240,242	1	54	87
47	बलीराम पिता प्रेमचंद, पिंकीबाई पति बलीराम	240,242	1	55	87
48	मोतेसिंह पिता किशोर सिंह, कडवीबाई बेवा किशोर	240,242	1	56	44
49	कमलसिंह, बागसिंह, पिता मोतेसिंह, सौभागसिंह पिता किशोर सिंह	240,242	1	57	88
50	प्रतापसिंह पिता दगडूसिंह, जयंतीबाई पति प्रताप सिंह	240,242	1	58	240
51	प्रतापसिंह पिता दगडूसिंह, जयंतीबाई पति प्रताप सिंह	240,242	1	59	550
52	रुखड़ई बाई बेवा बलीराम, प्रेमलाल पिता बलीराम, बसकर बाई पति प्रेमलाल	240,242	1	60	126
53	महेश पिता बलीराम, ममताबाई पति महेश,	240,242	1	61	126
54	यशवंत सिंह पिता देवीसिंह, सुनीताबाई पति यशवंतसिंह	240,242	1	62	130
55	कलाबाई बेवा औंकारसिंह	240,242	1	63	190
56	बदाम सिंह पिता औंकार सिंह, राजकुवर बाई पति बदाम सिंह	240,242	1	64	225
57	सीताराम पिता दरियाव सिंह, सावित्री बाई पति सीताराम	240,242	1	65	96

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	नारातंक पिता दरियाव सिंह, चन्द्रकला पति नारातंक	240,242	1	66	90
59	आशुतोष पिता रत्नलाल, निशाबाई पति आशुतोष	240,242	1	67	130
60	रेशमबाई बेवा पुरुषोत्तम	240,242	1	68	130
61	लालचंद पिता बाबुराव, गीताबाई पति लालचंद	240,242	1	69	125
62	दीपक पिता राधाकृष्ण, ममताबाई पति दीपक	240,242	1	70	47
63	महेन्द्र पिता राधाकृष्ण	240,242	1	71	41
64	सरस्यतीबाई पति रेवाशंकर	240,242	1	72	40
65	जानकीबाई बेवा महादेव	240,242	1	73	55
66	उषा,रमा,प्रभा,भागवती पिता मुन्नलाल	240,242	1	74	280
67	भुवानीराम पिता शिवाजी, सुमनबाई पति भुवानीराम	240,242	1	75	90
68	मंगत पिता भोलू, गंगाबाई पति मंगत	240,242	1	76	260
69	रघुवीर सिंह पिता नहार सिंह, कृष्णबाई पति रघुवीर सिंह	240,242	1	77	60
70	अजय सिंह पिता नहार सिंह, राजश्री बाई पति अजय सिंह	240,242	1	78	60
71	कमल सिंह पिता शेर सिंह, रेमश बाई कमल सिंह,	240,242	1	79	80
72	भगवान पिता उम्मेदसिंह, दुर्गाबाई पति भगवान	240,242	1	80	40
73	हुकुम पिता मंशाराम, चंदन बाई पति हुकुम	240,242	1	82	22
74	गुर्जर समाज धर्मशाला अध्यक्ष मनोहर सिंह पिता हीरालाल,	240,242	1	83	396
75	शास.प्रा.शाला भवन	240,242	1	84	106
76	शास.शाला भवन	240,242	1	85	82
77	प्राचार्य भवन	240,242	1	86	48
78	शा.शाला मैदान	240,242	1	87	355
79	गुर्जर समाज धर्मशाला अध्यक्ष मनोहर सिंह पिता हीरालाल,	240,242	1	88	225
80	राजपूत समाज धर्मशाला	240,242	1	89	35
81	डोंगर सिंह पिता शिवाजी, लक्ष्मीबाई पति डोंगर सिंह	240,242	1	90	102
82	गणेश पिता भुवानीराम, कमुबाई पति गणेश,	240,242	1	91	172
83	आनंदराम पिता शिवाजी, ग्यारस पति आनंदराम	240,242	1	92	130
84	आनंदराम पिता शिवाजी, ग्यारस पति आनंदराम	240,242	1	93	102
85	रूपचंद पिता शिवाजी, कमलबाई पति रूपचंद	240,242	1	94	97
86	कलाबाई बेवा रेवाराम	240,242	1	95	90
87	अमराजी पिता शिवाजी, लक्ष्मीबाई पति अमराजी	240,242	1	96	180
88	विनायक राव पिता राजनाथ, संध्याबाई पति विनायक राव,	240,242	1	97	133
89	हुकुम पिता मंशाराम, चंदन बाई पति हुकुम	240,242	1	98	72
90	दरगाह बाबा हुजुरीशाह	240,242	1	99	380
91	भुरीबाई पति सबल सिंह,	240,242	1	100	138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	तारुबाई बेवा कालुसिंह, भगवान, बलीराम पिता कालुसिंह	240,242	1	101	52
93	कुसुमबाई बेवा नानाजी	240,242	1	102	60
94	उदय भानू पिता रतनलाल, निर्मलाबाई पति उदय भानू	240,242	1	103	105
95	जगदीश पिता राजाराम, गुलाती बाई पति जगदीश	240,242	1	104	50
96	कड़वा पिता तिलोकचंद, उमाबाई पति कड़वा	240,242	1	105	23
97	तिलोकचंद पिता मांगीलाल, शाताबाई पति तिलोकचंद	240,242	1	106	36
98	दिनेश पिता दुलीचंद, रुकमणी बाई दिनेश	240,242	1	107	21
99	दुलीचंद पिता मांगीलाल, सकुबाई पति दुलीचंद	240,242	1	108	21
100	द्वारकीलाल पिता दुलीचंद, जीवनबाई पति द्वारकीलाल	240,242	1	109	23
101	काशीनाथ पिता नारायण, तुलसीबाई पति काशीनाथ	240,242	1	110	72
102	कड़वा पिता तेजसिंह, कुसुमबाई पति कड़वा	240,242	1	112	55
103	भगवान सिंह पिता तेजसिंह, ममताबाई पति भगवान	240,242	1	113	90
104	रेशमबाई बेवा बनवटसिंह,	240,242	1	114	110
105	किशोरसिंह पिता दरियावसिंह	240,242	1	115	150
106	भगवान सिंह पिता दरियाव सिंह, गीताबाई पति भगवान सिंह	240,242	1	116	63
107	गुलाबबाई बेवा गुलाबसिंह,	240,242	1	117	198
108	लखमेसिंह पिता नवलसिंह, सुभद्राबाई पति लखमें सिंह	240,242	1	118	140
109	लक्ष्मण पिता भाईराम, झूरमूबाई पति लक्ष्मण	240,242	1	119	74
110	प्रेमचंद पिता पदम, कलाबाई पति प्रेमचंद	240,242	1	120	74
111	रमेश पिता रामरतन, लक्ष्मीबाई पति रमेश	240,242	1	121	63
112	आनंदराम पिता रामरतन, मायाबाई पति आनंदराम	240,242	1	122	60
113	आनंदराम, रमेश पिता रामरतन, मायाबाई पति आनंदराम, लक्ष्मीबाई पति रमेश,	240,242	1	123	95
114	कमलसिंह पिता औंकारसिंह, हेमलता पति कमलसिंह	240,242	1	125	42
115	जनार्दन पिता बालकृष्ण, मधुबाई पति जनार्दन	240,242	1	126	76
116	संजय पिता रतनलाल, अनिताबाई पति संजय	240,242	1	127	110
117	जनार्दन पिता बालकृष्ण, मधुबाई पति जनार्दन	240,242	1	128	94
118	अनिल, अरुण, लाकूर पिता केदार	240,242	1	129	140
119	शेरसिंह पिता गणपत सिंह, गीताबाई पति शेर	240,242	1	130	125
120	अजय पिता राजनाथ, शंकुललाबाई पति अजय	240,242	1	131	141
121	काशीनाथ पिता नारायण राव	240,242	1	132	45
122	जानकी वल्लभ पिता लालचंद	240,242	1	133	85
123	गजराजसिंह पिता शेरसिंह, बनारसबाई पति गजराजसिंह	240,242	1	135	35
124	रामकुंवर बाई बेवा गंगाराम,	240,242	1	136	33
125	मायाबाई बेवा गजानंद	240,242	1	137	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
126	सरसत बाई बेवा बबन	240,242	1	138	86
127	गजानंद पिता गोपाल, पार्वतीबाई पिता गंजानंद	240,242	1	140	33
128	गजराज पिता शेरसिंह, बनारस पति शेरसिंह	240,242	1	141	167
129	नहारसिंह पिता मिश्रेसिंह, लक्ष्मीबाई पति नहारसिंह	240,242, 243	1	142	20
130	हनुमान मंदिर सार्वजनिक	243,244	1	143	105
131	राजाराम पिता कसरन, मंगतीबाई पति राजाराम	240,242	1	145	75
132	समोतीबाई बेवा जालमसिंह	240,242	1	146	21
133	बंसतीबाई बेवा गेंदालाल	240,242	1	147	54
134	कैलाश पिता गेंदालाल, भारतीबाई पति कैलाश	240,242	1	148	31
135	महावीर पिता गेंदालाल, शारदाबाई पति महावीर जाति	240,242	1	149	31
136	राजाराम पिता नथ्युजी, कंचनबाई पति राजाराम	240,242	1	150	52
137	राघोराम पिता नथ्युसिंह, जीवंतीबाई पति राघोराम	240,242	1	151	31
138	अशोक पिता गेंदालाल मंजुबाई पति अशोक	240,242	1	152	31
139	मिसरबाई बेवा फत्तु सिंह	240,242	1	153	70
140	दादूसिंह पिता गेंदालाल, कुसुमबाई पति दादूसिंह,	240,242	1	154	40
141	कलाबाई बेवा रेवाराम	240,242	1	155	315
142	लखन पिता सेवकराम, गायत्रीबाई पति लखन,	240,242	1	158	27
143	गुलाबसिंह पिता कालू, कमलाबाई पति गुलाबसिंह	240,242	1	159	41
144	धर्मशाला	240,242	1	160	94
145	देवराम पिता फत्तुजी, लक्ष्मीबाई पति देवराम	240,242	1	161	50
146	सेवकराम पिता शोभाराम, बनारसबाई पति सेवकराम	240,242	1	162	124
147	हरिकरण पिता बालाजी, नर्मदाबाई पति हरिकरण	240,242	1	163	40
148	गजानंद पिता बालाजी, कस्तुरीबाई पति गजानंद	240,242	1	164	225
149	गजानंद पिता बालाजी, कस्तुरीबाई पति गजानंद	240,242	1	165	237
150	हरिकरण पिता बालाजी, नर्मदाबाई पति हरिकरण	240,242	1	166	173
151	अशोक पिता शोभाराम, पारुबाई पति अशोक	240,242	1	167	75
152	ग्यानबाई बेवा शोभाराम, गणेश पिता शोभाराम, शंकुतलाबाई पति गणेश	240,242	1	168	75
153	कन्हैया पिता शोभाराम, उमाबाई पति कन्हैया	240,242	1	169	75
154	लक्ष्मण पिता गणपत, शंकुतलाबाई पति लक्ष्मण	240,242	1	170	44
155	ग्राम पंचायत भवन	240,242	1	171	52
156	रामलाल पिता भोलू, अनारबाई पति रामलाल	240,242	1	173	142
157	गुलाबबाई बेवा गेंदालाल, गजु पिता गेंदालाल, गुन्जा पति गजु राजू पिता गेंदालाल, कुताबाई पति राजू	240,242	1	174	150
158	भगवान सिंह पिता दगडू, दुगाबाई पति भगवान सिंह,	240,242	1	175	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
159	सुशीलाबाई बेवा दगडू	240,242	1	176	265
160	डॉगर सिंह पिता शिवाजी, लक्ष्मीबाई पति डॉगर सिह	240,242	1	177	108
161	अमरसिंह पिता शिवासिंह, लक्ष्मीबाई पति अमर सिंह	240,242	1	178	115
162	कडवीबाई बेवा किशोरसिंह, शोभागसिंह पिता किशोरसिंह, बागासिंह रेशमबाई पति बागसिंह, सीमाबाई पति सोभागसिंह	240,242	1	179	270
163	उर्मिलाबाई पति मनोहरलाल	240,242	1	180	80
164	ललितकुमार पिता मनोहर लाल, भारतीबाई पति ललितकुमार	240,242	1	181	80
165	अनिल कुमार पिता मनोहरलाल, कविता बाई पति अनिल कुमार	240,242	1	182	80
166	महेशकुमार पिता मनोहरलाल, सीमाबाई पति महेशकुमार,	240,242	1	183	80
167	मोतेसिंह पिता किशोर सिंह, मधुबाई पति मोतेसिंह	240,242	1	184	50
168	कमलसिंह पिता किशोरसिंह, प्रेमबाई पति कमलसिंह	240,242	1	185	65
169	गोपाल पिता श्यामराव, गंगाबाई पति गोपाल	240,242	1	186	67
170	गंगाधर पिता श्यामराव, सुमित्राबाई पति गंगाधर	240,242	1	187	67
171	शांताबाई बेवा रूपाजी,	240,242	1	188	140
172	गंगाधर गोपाल, दिनेश पिता श्यामराम, सुमित्राबाई पति गंगाधर, गंगाबाई पति गोपाल, रमाबाई बेवा बंसतीलाल	240,242	1	189	70
173	सालगराम पिता भगवान, मायाबाई पति सालगराम,	240,242	1	190	105
174	बलीराम पिता तुकाराम, अन्नपूर्णा पति बलीराम	240,242	1	191	115
175	बालकराम पिता भगवान, भागवतबाई पति बालकराम,	240,242	1	192	139
176	बालकराम पिता भगवान, भागवतबाई पति बालकराम,	240,242	1	193	11
177	सालगराम पिता भगवान, मायाबाई पति सालगराम,	240,242	1	194	45
178	शिवाजी पिता लाल्या,	240,242	1	195	60
179	गोर्वधन पिता बालू, शारदाबाई पति गोर्वधन	240,242	1	196	107
180	नंदु पिता बालु, कलाबाई पति नंदू	240,242	1	197	60
181	देवराम पिता बाला, दुर्गाबाई पति देवराम	240,242	1	198	78
182	भगवान पिता बालुजी, उमाबाई पति भगवान,	240,242	1	199	73
183	मुन्नालाल पिता बालुजी, सरस्वतीबाई पति मुन्नालाल,	240,242	1	200	100
184	शेरू पिता बाल्या, सकुबाई पति शेरू,	240,242	1	201	74
185	रणछोड़ पिता सुंदर, शांताबाई पति रणछोड़	240,242	1	202	50
186	रामेश्वर पिता सङ्कृत, मायाबाई पति रामेश्वर,	240,242	1	203	18
187	बसुबाई बेवा सङ्कृत	240,242	1	204	42
188	कालु पिता दगडू, गोगलबाई पति कालु	240,242	1	205	40
189	सजनबाई बेवा सखाराम, मांगीलाल पिता सखाराम, ग्यारसीबाई पति मांगीलाल,	240,242	1	206	44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
190	रमेश पिता सङ्घ भागवती बाई पति रमेश,	240,242	1	207	85
191	जशोदाबाई पति गोपाल	240,242	1	209	48
192	शोभाराम पिता गोपाल, नानीबाई पति शोभाराम	240,242	1	210	36
193	भगवान पिता हीराजी, लीलाबाई पति भगवान	240,242	1	211	310
194	महेश पिता मोहनलाल, रीनाबाई पति महेश	240,242	1	212	178
195	कड़वा पिता फत्तु, दुग्गाबाई पति कड़वा,	240,242	1	213	76
196	नानीबाई बेवा नानकू	240,242	1	214	220
197	कमल पिता नानकू संतोष बाई पति कमल	240,242	1	215	132
198	राधेश्याम पिता दग्घू, सुरजबाई पति राधेश्याम,	240,242	1	216	43
199	दग्घू पिता गंगाराम, निलाबाई पति दग्घू	240,242	1	217	78
200	आनंदगिर पिता औंकार गिर, तारुबाई पति आनंद गिर	240,242	1	218	364
201	मयाराम पिता गोपाल, कुसुमबाई पति मयाराम,	240,242	1	219	47
202	नन्हु पिता गोपाल, गंगाबाई पति नन्हु	240,242	1	220	40
203	गोरीबाई बेवा नर्मदागिर, संजय जितेन्द्र पिता नर्मदागिर, सुनिता बाई पति संजय,	240,242	1	221	100
204	महाकालेश्वर मंदिर सार्वजनिक	240,242	1	222	51
205	भगवान गिर पिता नर्मदागिर, सुशीलाबाई पति भगवान गिर,	240,242	1	223	125
206	शांताबाई बेवा रूपा, कड़वा पिता रूपा, भागवत बाई पति कड़वा, धारेसिंह पिता रूपा, मंजुबाई पति धारेसिंह, रेवाराम पिता रूपा, करुणा बाई पति रेवाराम,	240,242	1	226	823
207	सुनिल पिता गोट्ठ मायाबाई पति सुनिल,	240,242	1	227	93
208	संतोष पिता गेंदालाल, सुंदरबाई पति संतोष	240,242	1	228	30
209	लखन पिता भोलू अजुध्याबाई पति लखन,	240,242	1	229	19
210	सावित्री बाई बेवा भोलू, सोहनलाल पिता भोलू कुसुमबाई पति सोहनलाल,	240,242	1	230	41
211	नन्हु पिता दग्घू मंजुबाई पति नन्हु,	240,242	1	231	70
212	भगवान पिता नार्या, सलूबाई पति भगवान,	240,242	1	233	25
213	कड़वा पिता फत्तु दुग्गाबाई पति कड़वा,	240,242	1	235	35
214	सेंवतीबाई बेवा गबरू,	240,242	1	236	25
215	मोहनलाल पिता पुनमचंद, सरजूबाई पति मोहनलाल	240,242	1	237	78
216	गोपाल पिता नानाजी, सुनिताबाई पति गोपाल,	240,242	1	238	21
217	दौलत पिता नागुजी, भागवत बाई पति दौलत,	240,242	1	239	42
218	सकुबाई बेवा मयाराम,	240,242	1	240	45
219	भाईराम पिता नार्या, सरसत बाई पति भाईराम,	240,242	1	241	50
220	गोर्वधन पिता मयाराम, अमरावतीबाई पति गोर्वधन,	240,242	1	242	57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
221	भाईराम पिता नाम्या, सरसत बाई पति भाईराम,	240,242	1	243	47
222	भागाबाई बेवा राजाराम,	240,242	1	244	70
223	बजरंग पिता सदू किरण बाई पति बजरंग	240,242	1	245	106
224	मंगत पिता नागु, मंजुबाई पति मंगत, राधेश्याम पिता नागु, अनिता बाई पति राधेश्याम	240,242	1	246	61
225	सुखलाल पिता बालुजी, बीनाबाई पति सुखलाल	240,242	1	247	195
226	नन्तु पिता बाबू, बनारस बाई पति नन्तु	240,242	1	248	66
227	सीताराम पिता बाबू, ग्यारसीबाई पति सीताराम	240,242	1	249	102
228	केशरीलाल पिता बुदिया, छन्दुबाई पति केशरीलाल	240,242	1	250	59
229	मिश्रीलाल पिता बुदिया, शीलाबाई पति मिश्रीलाल,	240,242	1	251	117
230	अनिता बाई बेवा प्रेमलाल,	240,242	1	252	60
231	नाना पिता मोतीलाल, लीलाबाई पति नाना,	240,242	1	253	75
232	रवि पिता नाना, मायाबाई पति रवि,	240,242	1	254	85
233	कहार समाज सकल पंच, मांगलिक भवन	240,242	1	256	132
234	गीताबाई बेवा मांगीलाल,	240,242	1	257	100
235	कहार समाज सकल पंच धर्मशाला	240,242	1	258	160
236	सार्वजनिक नर्मदा मंदिर,	240,242	1	259	160
237	सार्वजनिक शिव मंदिर,	240,242	1	260	123
238	कमलेश पिता मुन्नालाल, आशाबाई पति कमलेश	240,242	1	262	35
239	लवकेश पिता मुकुंद	240,242	1	263	45
240	महेश पिता गजानंद, ज्योति पति महेश	240,242	1	264	35
241	अशोक पिता रामेश्वर	240,242	1	265	12
242	उमराव पिता दौला,	240,242	1	266	45
243	महेन्द्र पिता हरिसाम, मायाबाई पति महेन्द्र	240,242	1	267	32
244	दयाराम पिता गोपाल, सकरीबाई पति दयाराम,	240,242	1	268	67
245	कहार समाज रेवा मंदिर	240,242	1	270	24
246	गजानंद पिता उमराव, रुकमणी बाई पति गजानंद	240,242	2	271	54
247	मुकेश पिता गजानंद, रिंकुबाई पति मुकेश,	240,242	2	272	33
248	रामेश्वर पिता उमराव, कंचन बाई पति रामेश्वर	240,242	2	273	85
249	बंसतीबाई बेवा देवराम, राकेश पिता देवराम, कविताबाई पति राकेश	240,242	2	274	85
250	आनंदराम पिता बाबुलाल, दुर्गाबाई पति आनंदराम	240,242	2	275	80
251	बलीराम पिता दल्लू जी, चंननबाई पति बलीराम	240,242	2	276	55
252	मंशाराम पिता दल्लूजी, ममताबाई पति मंशाराम	240,242	2	277	55
253	गबर्ल पिता घिर्या, नानीबाई पति गबर्ल,	240,242	2	278	75
254	अमरसिंह पिता भीलू, गीताबाई पति अमरसिंह	240,242	2	279	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

255	अनार बाई बेवा भीलू, राजकुमार पिता भीलू, रेखाबाई पति राजकुमार	240,242	2	280	21
256	भुक्कण पिता भीलूजी, राधाबाई पति भुक्कण	240,242	2	281	42
257	सुखराम पिता कन्हैया, भागवतबाई पति सुखराम	240,242	2	282	127
258	दरियाव पिता नाना, मीराबाई पति दरियाव	240,242	2	284	15
259	गबरु पिता धिस्या, नानीबाई पति गबरु,	240,242	2	285	19
260	दिनेश पिता दल्लू, ग्यारसबाई पति दिनेश,	240,242	2	287	38
261	सुरज पिता दलिया, गेदाबाई पति सुरज,	240,242	2	288	43
262	भगन पिता घनश्याम, जमनाबाई पति भगन,	240,242	2	289	76
263	रामकरण पिता भलाजी, मायाबाई पति रामकरण,	240,242	2	290	65
264	नानूराम पिता कलिया, बसुबाई पति नानूराम,	240,242	2	291	65
265	दरियाव नाना, मीराबाई पति दरियाव	240,242	2	292	35
266	तिलोकचंद पिता नाना, कविता बाई पति तिलोकचंद	240,242	2	293	35
267	बसंतीबाई बेवा दयाराम,	240,242	2	294	12
268	बाबु पिता मांगीलाल, समोती बाई पति बाबु	240,242	2	296	50
269	बलीराम पिता लालाराम, गायत्रीबाई पति बलीराम	240,242	2	297	83
270	देवचंद पिता मांगीलाल, धनीबाई पति देवचंद,	240,242	2	298	50
271	मेवालाल पिता सुखलाल, उमाबाई पति मेवालाल	240,242	2	299	24
272	सुखलाल पिता मांगीलाल, सकुबाई पति सुखलाल	240,242	2	300	25
273	सदु पिता दगडू, देवकीबाई पति सदू	240,242	2	301	48
274	नारायण पिता बल्ला, उर्मिलाबाई पति नारायण,	240,242	2	302	75
275	कड़वा पिता मला, रुकमणीबाई पति कड़वा	240,242	2	303	35
276	मोहन पिता मला, जसुबाई पति मोहन	240,242	2	304	35
277	कालु पिता मला,	240,242	2	305	35
278	नानकराम पिता मांगीलाल, कंचनबाई पति नानकराम	240,242	2	306	45
279	नन्नु पिता मांगीलाल, बसुबाई पति नन्नु	240,242	2	307	45
280	छनाबाई बेवा टुटा, गजानंद पिता टुटा, ममताबाई पति गजानंद, कालु पिता टुटा, उषाबाई पति कालु,	240,242	2	308	21
281	नानकराम पिता भिका, कमलाबाई पति नानकराम,	240,242	2	309	34
282	भगवान पिता बाबुलाल, संगीताबाई पति भगवान	240,242	2	310	23
283	राधेश्याम पिता भिका, लक्ष्मीबाई पति राधेश्याम	240,242	2	311	30
284	शंकर पिता छितु, प्रभाबाई पति शंकर	240,242	2	312	30
285	पुनम पिता भिका, संगीताबाई पति पुनम	240,242	2	313	20
286	सीताराम पिता बाबू, भागवत बाई पति सीताराम,	240,242	2	314	31
287	बाबुलाल पिता गलाजी, कौशल्याबाई पति बाबुलाल,	240,242	2	315	31
288	किशोर पिता भिका, ममताबाई पति किशोर	240,242	2	316	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
289	कल्लु पिता बाबूलाल, कमलाबाई पति कल्लु	240,242	2	317	29
290	भिकाजी पिता तुमड़िया, रेवाबाई पति भिकाजी,	240,242	2	318	36
291	दरियाव पिता भिका, रेशमबाई पति दरियाव,	240,242	2	319	40
292	नारू पिता सुखलाल, धनुबाई पति नारू	240,242	2	320	38
293	गजानंद पिता सुखलाल, समोतीबाई पति गजानंद	240,242	2	321	50
294	शिव ओटला,	240,242	2	323	23
295	कैलाश पिता चंपालाल, गिरजाबाई पति कैलाश,	240,242	2	324	30
296	दिनेश पिता दल्लू, झलूबाई पति दिनेश,	240,242	2	325	27
297	दल्लू पिता रामा, शांताबाई पति दल्लू	240,242	2	326	116
298	ओंकार पिता मल्लू लक्ष्मीबाई पति ओंकार	240,242	2	327	52
299	कालु पिता मल्लू नर्मदाबाई पति कालु	240,242	2	328	52
300	श्रवण पिता बाल्या, आशाबाई पति श्रवण	240,242	2	329	67
301	आनंदराम पिता शिवाजी, ग्यारसबाई पति आनंदराम	240,242	2	330	212
302	कलाबाई बेवा रेवाराम	240,242	2	331	88
303	रूपचंद पिता शिवाजी, कमलाबाई पति रूपचंद	240,242	2	332	140
304	विक्रम सिंह पिता विजय सिंह, रानूबाई पति विक्रमसिंह	240,242	2	333	111
305	कमलाबाई बेवा कालुराम	240,242	2	334	122
306	लखनलाल पिता कालुराम, संध्याबाई पति लखनलाल	240,242	2	335	115
307	जगदीश पिता कालुराम, प्रीतीबाला पति जगदीश,	240,242	2	336	104
308	कमलाबाई बेवा उम्मेदसिंह,	240,242	2	337	195
309	अजय सिंह पिता नहार सिंह, राजश्री बाई पति अजय सिंह	240,242	2	338	67
310	रघूवीर सिंह पिता नहार सिंह, कृष्णाबाई पति रघुवीर सिंह	240,242	2	339	68
311	सुधीरसिंह पिता कमलसिंह, आशाबाई पति सुधीरसिंह	240,242	2	340	51
312	कमलसिंह पिता शेर सिंह, रेशमबाई पति कमलसिंह,	240,242	2	341	57
313	सुमेरसिंह पिता कमल सिंह, शेराबाई पति सुमेरसिंह	240,242	2	342	51
314	भीमसिंह पिता कमलसिंह, संगीताबाई पति भीमसिंह,	240,242	2	343	55
315	सुमेरसिंह भीमसिंह, पिता कमलसिंह, शेराबाई पति सुमेरसिंह, संगीताबाई पति भीमसिंह	240,242	2	344	32
316	सुरेश पिता बंसतीलाल, संध्याबाई पति सुरेशचंद	240,242	2	345	270
317	हुकुमसिंह पिता शेर सिंह, शांताबाई पति हुकुमसिंह,	240,242	2	346	65
318	प्रेमलाल पिता शेरसिंह, कृष्णाबाई पति प्रेमलाल	240,242	2	347	137
319	जगन्नाथ पिता शोभाराम, शारदाबाई पति जगन्नाथ,	240,242	2	348	52
320	शेर सिंह पिता जालमसिंह, नीलाबाई पति शेरसिंह,	240,242	2	349	200
321	रामेश्वर पिता शोभाराम, दुर्गाबाई पति रामेश्वर	240,242	2	350	51
322	महेश पिता देवराम, उर्मिलाबाई पति महेश	240,242	2	351	98

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
323	प्रेमलताबाई बेवा विजयसिंह, जगदीश, अशोक, रविंद्र पिता अमरसिंह, राजरानी पति जगदीश, आशाबाई पति अशोक, भारतीबाई पति रविंद्र	240,242	2	352	1472
324	शकुन्तलाबाई बेवा अमरसिंह	240,242	2	353	188
325	मांगीलाल पिता हीरालाल, सुमनबाई पति मांगीलाल,	240,242	2	354	98
326	मोहनलाल पिता हीरालाल, कृष्णबाई पति मोहनलाल	240,242	2	355	98
327	हुकुमचंद पिता अमरसिंह, कलाबाई पति हुकुमचंद	240,242	2	356	256
328	अनोखीलाल पिता जोगीलाल, लक्ष्मीबाई पति अनोखीलाल,	240,242	2	357	138
329	श्रीराम पिता भुवानीराम, सरस्वतीबाई पति श्रीराम	240,242	2	358	152
330	देवराम पिता भुवानीराम, रमाबाई पति देवराम,	240,242	2	359	147
331	दिलीप पिता देवराम, रेखाबाई पति दिलीप	240,242	2	360	120
332	धनसिंह पिता गुलाबसिंह, दुर्गाबाई पति धनसिंह	240,242	2	361	75
333	तुलसीराम पिता गणपत, जसुबाई पति तुलसीराम,	240,242	2	362	57
334	राजेन्द्र अरूण सुनिल पिता श्रीकृष्ण, मंजुलाबाई पति राजेन्द्र, किरणबाई पति अरूण, सुलभा पति सुनिल	240,242	2	363	67
335	लक्ष्मीनारायण मंदिर	244	2	365	160
336	शिवकरण पिता फत्तुसिंह, मंगतीबाई पति शिवकरण,	240,242	2	366	120
337	उर्मिलाबाई बेवा तिलोकचंद,	240,242	2	367	40
338	फुंदाबाई पति शेरसिंह	240,242	2	368	105
339	कलाबाई बेवा चंदरसिंह	240,242	2	369	61
340	दशरथ पिता चंदरसिंह, ग्यारस बाई पति दशरथ मण्डलोई	240,242	2	370	42
341	गोपाल पिता हाउसीलाल, किरण बाई पति गोपाल,	240,242	2	371	110
342	अशोक पिता अनोकचंद, अमरावतीबाई पति अशोक	240,242	2	372	115
343	महेश पिता हरलाल	240,242	2	373	115
344	प्रहलाद पिता शेरसिंह, कोमलबाई पति प्रहलादसिंह	240,242	2	374	60
345	हाउसीलाल पिता शेरसिंह, भागवत बाई पति हाउसीलाल	240,242	2	375	60
346	भगवानसिंह पिता शेरसिंह, नर्मदाबाई पति भगवान सिंह	240,242	2	376	64
347	मनोहर सिंह पिता डोंगरसिंह, सुभद्रा बाई पति मनोहरसिंह	240,242	2	377	260
348	महेश पिता रेवाराम, किरण बाई पति महेश	240,242	2	378	125
349	कमलेश पिता मनोहरसिंह, जयश्री पति कमलेश	240,242	2	379	335
350	गोर्वधन पिता दयाराम, मंजुबाई पति गोर्वधन	240,242	2	380	56
351	कमेलश पिता सुरजलाल, रंजना पति कमलेश	240,242	2	381	77
352	गोर्वधन पिता दयाराम, मंजुबाई पति गोर्वधन	240,242	2	382	130
353	जयपाल पिता हाउसीलाल, ज्योति बाई पति जयपाल, देवकरण पिता भगवानसिंह, दुर्गाबाई पति देवकरण	240,242	2	383	135
354	किशोर सिंह पिता दरियाव सिंह, उमाबाई पति किशोरसिंह,	240,242	2	384	63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
355	सीताराम पिता दरियाव सिंह, सावित्री बाई पति सीताराम	240,242	2	385	55
356	नारातंक पिता दरियाव सिंह, चन्द्रकला पति नारातंक	240,242	2	386	55
357	भगवान सिंह पिता दरियाव सिंह, गीताबाई पति भगवान सिंह	240,242	2	387	73
358	संजय पिता रतन लाल, अनिताबाई पति संजय	240,242	2	389	170
359	लालचंद पिता बाबुलाल, गीताबाई पति लालचंद	240,242	2	390	95
360	रेवाराम पिता भुवानीराम, कैलाश बाई पति रेवाराम	240,242	2	392	215
361	अनोखीलाल पिता जोगीलाल, लक्ष्मीबाई पति अनोखीलाल,	240,242	2	393	155
362	रामसिंह पिता भलाजी, लताबाई पति रामसिंह,	240,242	2	394	240
363	देवराम पिता फत्तुजी, लक्ष्मीबाई पति देवराम	240,242	2	395	1015
364	भगवान पिता उम्मेदसिंह, दुर्गाबाई पति भगवान	240,242	2	398	221
365	ध्रुव पिता अन्नतराव, सुधाबाई पति ध्रुव	240,242	2	399	106
366	शेर सिंह पिता जालमसिंह, नीलाबाई पति शेरसिंह,	240,242	2	400	89
367	मालतीबाई बेवा राघवेन्द्र,	240,242	2	401	156
368	रेवाराम पिता भुवानीराम, कैलाश बाई पति रेवाराम	240,242	2	403	248
369	गजानंद पिता भाईराम, जीवतीबाई पति गजानंद,	240,242	2	405	250
370	देवराम पिता भुवानीराम, रमाबाई पति देवराम,	240,242	2	406	61
371	श्रीराम पिता भुवानीराम, सरस्वतीबाई पति श्रीराम	240,242	2	407	62
372	अजुध्याबाई बेवा माधवदास,	240,242	2	408	85
373	भगवान पिता बाबुलाल, रेखाबाई पति भगवान	240,242	2	409	92
374	अनोखीलाल पिता जोगीलाल, लक्ष्मीबाई पति अनोखीलाल,	240,242	2	410	66
375	अमरसिंह पिता जालमसिंह, कमलाबाई पति अमरसिंह	240,242	2	411	90
376	राघोराम पिता राजाराम, रामकोरबाई पति राघोराम	240,242	2	413	41
377	सोभागसिंह पिता भलाजी, तेजलबाई पति सौभागसिंह	240,242	2	415	126
378	निर्भयसिंह पिता भलाजी, सकुबाई पति निर्भय सिंह,	240,242	2	416	109
379	श्रीराम पिता भुवानीराम, सरस्वतीबाई पति श्रीराम	240,242	2	417	183
380	भगवान पिता बाबुलाल, रेखाबाई पति भगवान	240,242	2	418	78
381	बाबुलाल पिता जोगीलाल, मंगतीबाई पति बाबुलाल	240,242	2	419	137
382	सेवकराम पिता आनंदराम, निर्मलाबाई पति सेवकराम	240,242	2	420	58
383	आनंदराम पिता राजाराम, द्वारकीबाई पति आनंदराम	240,242	2	421	100
384	आशीष पिता गजानंद गायत्रीबाई पति आशीष	240,242	2	422	134
385	गणेश पिता गोर्वधन, भुरीबाई पति गणेश,	240,242	2	423	90
386	मनोहर सिंह पिता भलाजी	240,242	2	424	56
387	श्रीराम पिता कृपाराम, सरोजबाई पति श्रीराम	240,242	2	426	60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
388	अनोखीबाई बेवा भाईराम, गजानंद पिता भाईराम, जीवंतीबाई पति गजानंद, लक्ष्मीनारायण पिता भाईराम, मीराबाई पति लक्ष्मीनारायण	240,242	2	427	435
389	लक्ष्मीनारायण पिता भाईराम, मीराबाई पति लक्ष्मीनारायण	240,242	2	428	82
390	अशोक पिता हुकुमचंद, कृष्णबाई पति अशोक,	240,242	2	429	29
391	राधाकृष्ण मंदिर, व्यवस्थापक अजुध्याबाई बेवा माधवदास	240,242	2	430	58
392	अजुध्याबाई बेवा माधवदास,	240,242	2	431	55
393	गौरीशंकर पिता कालुजी, प्रमिला बाई पति गौरीशंकर	240,242	2	432	350
394	केशरीलाल पिता राघोराम, मंजुबाई पति केशरीलाल,	240,242	2	434	24
395	राघोराम पिता राजाराम, रामकोरबाई पति राघोराम	240,242	2	435	63
396	रमबाई बेवा बंसतीलाल,	240,242	2	436	80
397	गोर्वधनपिता भलाजी,	240,242	2	437	91
398	निर्भरसिंह, गोर्वधनसिंह, सौभागसिंह, मनोहरसिंह, पिता भलाजी,	240,242	2	438	51
399	निर्भयसिंह पिता भलाजी, सकुबाई पति निर्भय सिंह,	240,242	2	439	130
400	अमरसिंह पिता जालमसिंह, कमलबाई पति अमरसिंह	240,242	2	440	167
401	यशवंत पिता अमरसिंह, ममताबाई पति यशवंत,	240,242	2	441	366
402	जानकीबाई पति भुवानीराम	240,242	2	442	84
403	भगवान पिता भाईराम, मीठीबाई पति भगवान	240,242	2	443	76
404	देवकरण पिता बालकराम, गंगाबाई पति देवकरण	240,242	2	444	395
405	भागाबाई बेवा बाबुलाल, भुवानीराम पिता बाबुलाल, सीताबाई पति भुवानीराम	240,242	2	446	360
406	मनोहर सिंह पिता भलाजी	240,242	2	447	130
407	सोभागसिंह पिता भलाजी, तेजलबाई पति सौभागसिंह	240,242	2	448	118
408	लक्ष्मीबाई पति गोटू	240,242	2	449	31
409	लक्ष्मीबाई पति बालकराम	240,242	2	450	198
410	रामई बाई बेवा मांगीलाल,	240,242	2	451	95
411	पुनाजी पिता सीताराम, गीताबाई पति पुनाजी,	240,242	2	452	186
412	जगदीश पिता भलाजी, मंगलबाई पति जगदीश,	240,242	2	453	122
413	देवराम पिता राघोराम, बनारसबाई पति देवराम,	240,242	2	454	182
414	रामनारायण पिता देवराम, छायाबाई पति रामनारायण	240,242	2	455	70
415	अजुध्याबाई बेवा चंपालाल	240,242	2	457	16
416	कड़वा पिता चंपालाल,	240,242	2	458	128
417	प्रेमलाल पिता रमेश, दुगबाई पति प्रेमलाल	240,242	2	459	135
418	भगवान पिता भाईराम, मीठीबाई पति भगवान	240,242	2	460	75
419	श्रीराम, बलराम, कृष्णलाल पिता औंकार	240,242	2	461	133

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420	अनोखीलाल पिता कड़वाजी, दुपताबाई पति अनोखीलाल	240,242	2	463	55
421	देवराम पिता बाबुलाल, लक्ष्मीबाई पति देवराम	240,242	2	464	107
422	सालकराम, बालकराम, पिता तेजसिंह, सुनिताबाई पति सालकराम	240,242	2	465	108
423	रमेश पिता गुलाबसिंह संगीताबाई पति रमेश	240,242	2	466	124
424	कलाबाई बेवा नहारसिंह,	240,242	2	467	145
425	गुलाबचंद पिता भलाजी	240,242	2	468	107
426	रामसिंह पिता भलाजी	240,242	2	469	102
427	भुवानीराम पिता बाबुलाल, सीताबाई पति भुवानीराम	240,242	2	470	201
428	गुलाबसिंह पिता भलाजी, लक्ष्मीबाई पति गुलाबसिंह	240,242	2	471	226
429	रामसिंह पिता भलाजी	240,242	2	472	258
430	लक्ष्मीनारायण पिता भुवानीराम, संतोष बाई पति लक्ष्मीनारायण	240,242	2	473	76
431	ओंकार पिता बाबुलाल, श्याणीबाई पति ओंकार	240,242	2	474	94
432	जगन्नाथ पिता राजाराम, रुकमणीबाई पति जगन्नाथ	240,242	2	475	487
433	जगन्नाथ पिता राजाराम, रुकमणीबाई पति जगन्नाथ	240,242	2	476	60
434	मरुबाई बेवा मयाराम,	240,242	2	477	157
435	एडूजी उर्फ अनोकचंद पिता हरचंद, खुश्यालीबाई पति एडूजी उर्फ अनोकचंद	240,242	2	478	85
436	बागसिंह पिता सीताराम, कड़वीबाई पति बागसिंह,	240,242	2	480	109
437	केशरीलाल पिता शोभाराम, शांताबाई पति केशरीलाल,	240,242	2	481	130
438	बलीराम पिता ओंकार, वंदनाबाई पति बलराम	240,242	2	482	80
439	गोपाल पिता सीताराम, तुलसीबाई पति गोपाल	240,242	2	483	100
440	लाड़सिंह पिता सीताराम	240,242	2	484	95
441	पर्वतसिंह पिता सीताराम, अनोखीबाई पति पर्वत सिंह	240,242	2	485	90
442	गजानंद पिता सीताराम, सावित्रीबाई पति गजानंद	240,242	2	486	95
443	नारायण पिता रामेश्वर, मंगलाबाई पति नारायण	240,242	2	487	59
444	देवकीबाई, बंसतीबाई बेवा बालाजी, परमानंद पिता बालाजी, रंजना बाई पति परमानंद	240,242	2	488	81
445	नारायण पिता रामेश्वर, मंजुलाबाई पति नारायण	240,242	2	490	42
446	जगदीश पिता भलाजी, मंगलाबाई पति जगदीश,	240,242	2	491	133
447	हरेराम पिता बलीराम, कविताबाई पति हरेराम,	240,242	2	492	75
448	राकेश पिता हुकुमचंद, सुनिता बाई पति राकेश	240,242	2	493	67
449	टीकाराम पिता बलीराम, निर्मलाबाई पति टीकाराम	240,242	2	494	73
450	नर्मदाबाई बेवा भगवान	240,242	2	495	37
451	हुकुम चंद पिता शिवराम, बनारस बाई पति हुकुमचंद	240,242	2	496	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
452	मोतीराम पिता सीताराम, सुरजबाई पति मोतीराम,	240,242	2	497	207
453	चैतराम पिता मांगीलाल, बंसतीबाई पति चैतराम	240,242	2	498	143
454	कालुसिंह पिता पुनाजी, नीलाबाई, रुकमणीबाई पति कालुसिंह,	240,242	2	499	250
455	खातुनबी बेवा रसूल खां,	240,242	2	500	134
456	काले खां पिता जुम्मा खां, अनीषा बी पति काले खां,	240,242	2	501	40
457	मुकेश पिता धनसिंह, तुलसीबाई पति मुकेश	240,242	2	502	45
458	भाईराम पिता हीरालाल, दुर्गाबाई पति भाईराम,	240,242	2	503	110
459	जसुबाई पति भाईराम	240,242	2	504	18
460	चैनसिंह पिता हीरालाल, रमुबाई पति चैनसिंह	240,242	2	505	89
461	गजराजसिंह पिता रामेश्वर, गिरजाबाई पति गजराज सिंह	240,242	2	506	170
462	श्रीकृष्ण पिता औंकार, राजश्रीबाई पति श्रीकृष्ण	240,242	2	507	150
463	बलीराम पिता औंकार, वंदनाबाई पति बलीराम	240,242	2	508	59
464	श्रीराम पिता औंकार, तुलसीबाई पति श्रीराम	240,242	2	509	72
465	घनश्याम पिता मोजीलाल, लक्ष्मीबाई पति घनश्याम	240,242	2	510	132
466	जगदीश पिता रामलाल, सरोजबाई पति जगदीश,	240,242	2	511	115
467	शिवनारायण पिता रामलाल, कुसुमबाई पति शिवनारायण,	240,242	2	512	90
468	मनोहरलाल पिता हीरालाल, सुंदरबाई पति मनोहर लाल,	240,242	2	513	125
469	लक्ष्मीनारायण पिता राधोराम, सुमनबाई पति लक्ष्मीनारायण,	240,242	2	514	111
470	संजय पिता राधोराम, नर्मदाबाई पति संजय	240,242	2	515	88
471	कमलसिंह पिता बाबुलाल, भागवत बाई पति कमलसिंह,	240,242	2	516	203
472	कुसुमबाई बेवा लक्ष्मीनारायण	240,242	2	517	92
473	जगदीश पिता राजाराम, नारंगीबाई पति जगदीश	240,242	2	518	80
474	महावीर पिता राधोराम, राधाबाई पति महावीर	240,242	2	519	147
475	मिश्रीलाल पिता अमरसिंह, बसंतीबाई पति मिश्रीलाल	240,242	2	520	93
476	कमलसिंह पिता अमरसिंह, रुकमणीबाई पति कमलसिंह	240,242	2	521	93
477	राधेश्याम पिता भगवान, ममताबाई पति राधेश्याम,	240,242	2	525	35
478	श्रीराम पिता भगवान, अनिता बाई पति श्रीराम	240,242	2	526	54
479	रेहमत बाई बेवा रमजान खां,	240,242	2	527	66
480	जाईदसा पिता जगुसां, रुबाबी पति जाईदसा	240,242	2	528	66
481	नान्या पिता उमराव, वहीदा बी पति नान्या,	240,242	2	529	33
482	हबीब खां पिता इमाम खां अनीसा बेवा नसीर खां	240,242	2	530	40
483	मुन्सी खां पिता इमाम खां, मेहरुनबाई पति मुन्सी खां, नबीब खां पिता इमाम खां, जायदा बी पति नबीब खां, शब्बीर खां पिता इमाम खां,	240,242	2	531	41
484	नन्दकिशोर पिता उमराव, शकुन्तलाबाई पति नन्दकिशोर,	240,242	2	532	96

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
485	हरिराम पिता मकुन्द, मंगतीबाई पति हरिराम,	240,242	2	533	60
486	हीरालाल पिता गोपाल, सोनाबाई पति हीरालाल	240,242	2	534	75
487	आनंदराम पिता मांगीलाल	240,242	2	535	65
488	कमलाबाई बेवा बाबुलाल	240,242	2	536	32
489	शेरू पिता आनंदराम, शांताबाई पति शेरू	240,242	2	537	28
490	सीताराम पिता बाबू, ग्यारसीबाई पति सीताराम	240,242	2	538	35
491	बानोबी बेवा जग्गुसा,	240,242	2	539	98
492	शहीदा बी बेवा आरिफ खां,	240,242	2	540	38
493	मकुन्द पिता बाबू, नानीबाई पति मकुन्द	240,242	2	541	43
494	चंपालाल पिता बाबू, चंदुबाई पति चंपालाल	240,242	2	542	51
495	बाबू पिता तीतर गंगाबाई पति बाबू, बिहारी पिता बाबू,	240,242	2	543	75
496	नन्नु पिता बाबू, बनारस बाई पति नन्नु	240,242	2	544	37
497	राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल, प्रमिलाबाई पति राजेन्द्र	240,242	2	546	18
498	चेतराम पिता कन्हैयालाल, राधाबाई पति चेतराम,	240,242	2	547	14
499	समोतीबाई बेवा भिकाजी	240,242	2	548	25
500	कन्हैयालाल पिता भिकाजी, लक्ष्मीबाई पति कन्हैयालाल	240,242	2	549	20
501	नानकराम पिता मिटटूजी, कमलाबाई पति नानकराम	240,242	2	550	57
502	कमलाबाई बेवा दल्लू औमप्रकाश पिता दल्लूआशाबाई पति औमप्रकाश	240,242	2	551	38
503	मल्लू पिता बुदिया, भुवानीबाई पति मल्लू	240,242	2	552	40
504	रेवाराम पिता भलाजी, गेंदाबाई पति रेवाराम	240,242	2	553	20
505	श्यामा पिता भलाजी, कमुबाई पति श्यामा	240,242	2	554	12
506	देवा पिता भलाजी, पारुबाई पति देवा	240,242	2	555	18
507	दिलीप पिता कडवा, रेखाबाई पति दिलीप	240,242	2	556	33
508	नर्मदा बाई पिता कडवा	240,242	2	557	41
509	दिनेश पिता जगदीश, रानूबाई पति दिनेश,	240,242	2	558	80
510	सकुबाई पति कैलाश	240,242	2	559	60
511	लाड़कीबाई बेवा रुखडू जी	240,242	2	560	65
512	लच्छीराम पिता बाबू, रामकुंवरबाई पति लच्छीराम,	240,242	2	561	12
513	नरसिंग पिता लच्छीराम, रंजनाबाई पति नरसिंग,	240,242	2	562	13
514	दुलीचंद पिता लच्छीराम, कोमलबाई पति दुलीचंद	240,242	2	563	13
515	नानू पिता बाबू बीनाबाई पति नानू	240,242	2	564	51
516	रमेश पिता मांगीलाल, कमलबाई पति रमेश	240,242	2	565	126
517	रमजान पिता शेरू, शहनाज बी, पति रमजान,	240,242	2	566	40
518	मीरा दाता मजार	240,242	2	567	7
519	बसीर पिता शेरू, नसीम बी पति बसीर	240,242	2	568	105

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
520	चैनसिंह पिता डोगरसिंह, गीताबाई पति चैनसिंह,	240,242	2	569	150
521	महेश पिता सुरज,	240,242	2	571	29
522	राजु पिता जगदीश, संगीताबाई पति राजू	240,242	2	572	90
523	मंगत पिता तुकाराम, गुड्डीबाई पति मंगत,	240,242	2	573	29
524	गजानंद पिता तुकाराम, साउ बाई पति गजानन	240,242	2	574	63
525	रुखङ्गिया पिता मदन, ताराबाई पति रुखङ्गिया,	240,242	2	576	78
526	राधेश्याम पिता रामलाल, मधुबाई पति राधेश्याम,	240,242	2	577	82
527	गोटू पिता भीलू, लक्ष्मीबाई पति गोटू	240,242	2	578	93
528	कालु पिता रमेश, कुसुमबाई पति कालु	240,242	2	579	81
529	भरत पिता रमेश, लीलाबाई पति भरत	240,242	2	580	33
530	लखन पिता लच्छीराम, रमाबाई पति लखन	240,242	2	581	30
531	सुरेश पिता लच्छीराम, भारती बाई पति सुरेश	240,242	2	582	27
532	लच्छीराम पिता बाला, सुंदर बाई पति लच्छीराम	240,242	2	583	39
533	रामेश्वर पिता लच्छीराम, आशाबाई पति रामेश्वर	240,242	2	584	28
534	कड़वा पिता सीताराम, दमु बाई पति कड़वा	240,242	2	585	66
535	नर्मदाबाई बेवा आनंदराम	240,242	2	586	75
536	चंपालाल पिता बाबु, चंदुबाई पति चंपालाल	240,242	2	588	155
537	मनोहर पिता बावल्या, रेवाबाई पति मनोहर	240,242	2	589	93
538	जितेन्द्र पिता मिश्रीलाल, प्रीतिबाई पति जितेन्द्र	240,242	2	590	40
539	मिश्रीलाल पिता कालु, भागवत बाई पति मिश्रीलाल	240,242	2	591	35
540	कमेलश पिता कालु	240,242	2	592	60
541	बिहारी पिता बाबु, सजनबाई पति बिहारी	240,242	2	593	112
542	याकुब खां पिता नवाब खां	240,242	2	594	66
543	नत्थु पिता सडू, सुमनबाई पति नत्थु	240,242	2	595	133
544	बाबु पिता तीतर गंगाबाई पति बाबु, बिहारी पिता बाबु,	240,242	2	596	19
545	सलीम खां पिता मेहबुब खां, सलमाबी पति सलीम खां	240,242	2	597	25
546	अंतरसिंह पिता रामसिंह, जानकीबाई पति अंतरसिंह,	240,242	2	598	28
547	लखमें सिंह पिता रामसिंह, समोतीबाई पति लखमेंसिंह	240,242	2	599	28
548	भागीरथ पिता हंसराज, बसंतीबाई पति भागीरथ	240,242	2	600	56
549	शा.अस्पताल	240,242	2	602	108
550	मोहम्मद पिता अब्दुल	240,242	2	603	38
551	मस्जिद	240,242, 245	2	604	365
552	किशोर पिता अमरसिंह, शारदा बाई पति किशोर	240,242	2	605	95
553	अमरसिंह पिता देवाजी, गेंदाबाई पति अमरसिंह	240,242	2	606	95
554	राधेश्याम पिता मयाराम, पार्वतीबाई पति राधेश्याम	240,242	2	607	280

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
555	राधोराम पिता हरिकरण, कमलाबाई पति राधौराम	240,242	2	608	159
556	रामप्यारी बेवा पुनाजी	240,242	2	609	117
557	गजानंद पिता सीताराम, सुभद्रा पति गजानंद	240,242	2	610	70
558	कालु पिता गेंदालाल, कुसुमबाई पति कालु	240,242	2	611	90
559	गजानंद पिता गोविद, सलोकी बाई पति गजानंद	240,242	2	612	98
560	ऑकार पिता गजानंद, कावेरीबाई पति ऑकार	240,242	2	613	95
561	राजाराम पिता बालाजी, गंगाबाई पति राजाराम,	240,242	2	614	134
562	चैनसिह पिता कमल, गंगाबाई पति चैनसिंह	240,242	2	615	42
563	गोदावरी बाई बेवा तुलसीराम	240,242	2	616	136
564	कमल पिता बुदिया, बसंतीबाई पति कमल	240,242	2	617	120
565	नदान बाई बेवा तुकाराम,	240,242	2	618	95
566	लीलाबाई बेवा दला	240,242	2	619	35
567	मंशाराम पिता तुलसीराम, सुनिताबाई पति मंशाराम	240,242	2	620	78
568	सेवकराम पिता गोकुलजी, मायाबाई पति सेवकराम,	240,242	2	621	37
569	गोकुल पिता सीताराम, रामकुवर बाई पति गोकुल	240,242	2	622	68
570	राजाराम पिता सीताराम, अजुधा बाई पति राजाराम	240,242	2	623	126
571	संतोष पिता बाबू, प्रमीलाबाई पति संतोष	240,242	2	624	18
572	उमराव पिता बाबू, स्वरम बाई पति उमराव	240,242	2	625	19
573	पदम पिता बाबू, रेखाबाई पति पदम	240,242	2	626	24
574	नारायण पिता बाबू, उर्मिलाबाई पति नारायण	240,242	2	627	30
575	अनोकचंद पिता दला, कंचनबाई पति अनोकचंद	240,242	2	628	48
576	हुकुम पिता देवचंद, सजनबाई पति हुकुम	240,242	2	630	80
577	भगवान पिता नथुजी, पुनीबाई पति भगवान,	240,242	2	631	179
578	संतोष पिता राजाराम, रेखाबाई पति संतोष	240,242	2	633	55
579	अजुध्याबाई बेवा राजाराम	240,242	2	634	46
580	अशोक पिता रणछोड़, सुलोचना पति अशोक,	240,242	2	635	46
581	गजानंद पिता फत्तु, सावित्रीबाई पति गजानंद,	240,242	2	636	25
582	कुंआर बाई बेवा फत्तु,	240,242	2	637	22
583	नवाब खां पिता अब्दुल खां, सलमाबी पति नवाब खां	240,242	2	639	72
584	मन्तु पिता मकुंद, जसुबाई पति मन्तु,	240,242	2	640	40
585	रमेश पिता मकुन्द, सुमनबाई पति रमेश	240,242	2	641	36
586	बाबू पिता हीरा, गीताबाई पति बाबू	240,242	2	643	101
587	रमेश पिता मकुन्द, सुमनबाई पति रमेश	240,242	2	644	24
588	दिलीप पिता मन्तु, ज्योति बाई पति दिलीप	240,242	2	645	24
589	भाईराम पिता गप्पू, अनुबाई पति भाईराम	240,242	2	646	175
590	बाबू पिता हीरा, गीताबाई पति बाबू	240,242	2	650	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
591	शांतीलाल पिता नानाजी, मनुबाई पति शांतिलाल,	240,242	2	651	130
592	श्याणी बाई पति तुकाराम,	240,242	2	652	15
593	दिलीप पिता देवराम	240,242	2	653	15
594	सचिन पिता देवराम, मीराबाई पति सचिन,	240,242	2	654	44
595	लक्ष्मीबाई बेवा नानाजी	240,242	2	655	125
596	दिलीप पिता आनंदराम, राधाबाई पति दिलीप	240,242	2	656	39
597	देवराम पिता तुकाराम, पारूबाई पति देवराम	240,242	2	657	23
598	मोहन पिता तुकाराम, भागवत बाई पति मोहन	240,242	2	658	29
599	नाना पिता पदम्,	240,242	2	659	27
600	इंदर पिता भुवानीराम, दुर्गाबाई पति इंदर	240,242	2	661	110
601	कृष्ण पिता रेवाराम, संगीता बाई पति कृष्ण	240,242	2	663	65
602	बलाई समाज सामुदयिक भवन	240,242	2	664	36
603	सार्वजनिक शिवडेरी	240,242	2	665	10
604	धर्मराज पिता चैतराम, सपना बाई पति धर्मराज	240,242	2	666	17
605	चैतराम पिता नारायण, ग्यारस बाई पति चेतराम	240,242	2	667	40
606	गीताबाई बेवा नारायण,	240,242	2	668	43
607	संतोष पिता सेवकराम, आशाबाई पति संतोष	240,242	2	669	25
608	चैतराम पिता नारायण, ग्यारस बाई पति चेतराम	240,242	2	670	12
609	हेमराज पिता चैतराम, कंचन बाई पति हेमराज	240,242	2	671	23
610	रमेश पिता नारायण, लक्ष्मीबाई पति रमेश	240,242	2	672	30
611	आनंदराम पिता तुकाराम, रेशमबाई पति आनंदराम	240,242	2	673	33
612	चिंताराम पिता शम्भु, पुनीबाई पति चिंताराम	240,242	2	674	80
613	धनीबाई बेवा बाबू	240,242	2	675	25
614	विष्णु पिता बाबू, सकुबाई पति विष्णु	240,242	2	676	31
615	दशरथ पिता दयाराम	240,242	2	677	30
616	जगदीश पिता शोभाराम, मांगीबाई पति जगदीश	240,242	2	678	80
617	नत्थु पिता मांगीलाल, सकुबाई पति नत्थु	240,242	2	679	50
618	रामेश्वर पिता मयाराम, अमरावतीबाई कुसुमबाई पति रामेश्वर,	240,242	2	680	58
619	जगदीश पिता शोभाराम, मांगीबाई पति जगदीश	240,242	2	681	70
620	मदन पिता रंगीया, गुलाबबाई पति मदन	240,242	2	682	25
621	डोंगर पिता मदन, मंगला बाई पति डोंगर	240,242	2	683	31
622	रमेश पिता दौलत, लीलाबाई पति रमेश	240,242	2	685	75
623	प्रेमबाई बेवा शेरू,	240,242	2	686	54
624	रामेश्वर पिता मयाराम, लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर	240,242	2	687	10
625	संतोष पिता मयाराम, लताबाई पति संतोष	240,242	2	688	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
626	रामेश्वर पिता मयाराम, लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर	240,242	2	689	38
627	कड़वाजी पिता दयाराम, सुलोचनाबाई पति कड़वा,	240,242	2	690	89
628	गेंदालाल पिता सुखलाल, गुलाबबाई पति गेंदालाल	240,242	2	692	34
629	टुटा पिता सुखलाल,	240,242	2	693	31
630	अर्जुन पिता टुटा, सुदामाबाई पति अर्जुन	240,242	2	694	13
631	गोविन्द पिता गणपत, धवलीबाई पति गोविन्द	240,242	2	695	45
632	रामलाल पिता पदम, मोताबाई पति रामलाल,	240,242	2	696	37
633	लीलाबाई बेवा लक्ष्मण, पंकज पिता काशीराम, गायत्रीबाई पति पंकज, गणेश पिता काशीराम, सोनाबाई पति गणेश	240,242	2	697	14
634	जगदीश पिता नाना, बसुबाई पति जगदीश	240,242	2	698	10
635	अमरसिंह पिता नाना, सावित्री बाई पति अमरसिंह	240,242	2	699	10
636	मांगीलाल पिता नाना, बेबीबाई पति मांगीलाल	240,242	2	700	24
637	बिरोज बाई बेवा प्यारा, टन्टु पिता प्याराजी, प्रेमबाई पति टन्टु	240,242	2	701	40
638	अशोक पिता देवराम,	240,242	2	702	46
639	कमलाबाई कलाबाई, बेवा सिकदार	240,242	2	703	20
640	गुलाबसिंह पिता भागीरथ, लीलाबाई पति गुलाबसिंह	240,242	2	704	46
641	प्रेमबाई बेवा सडूजी,	240,242	2	705	100
642	छोगालाल पिता माधव,	240,242	2	706	32
643	अमरसिंह पिता बाबुलाल, सावित्रीबाई पति अमरसिंह, गुलाबसिंह पिता भागीरथ, लीलाबाई पति गुलाबसिंह, रामलाल पिता पदम, मोहनबाई पति रामलाल, जगन पिता प्यारा, कला पति जगन, गणपत पिता धीसालाल, गगाबाई पति गणपत	240,242	2	707	41
644	गजानंद पिता भागीरथ, गुलाबबाई पति गजानंद	240,242	2	708	20
645	गुलाबबाई बेवा छज्जु	240,242	2	709	48
646	देवराम पिता रतन, शारदाबाई पति देवराम	240,242	2	710	36
647	कमलाबाई कलाबाई, बेवा सिकदार	240,242	2	711	27
648	शांताबाई बेवा मोहन, औंकार पिता मोहन,	240,242	2	712	50
649	उषाबाई बेवा रामसिंग,	240,242	2	713	23
650	संजय पिता बण्डु, आरती पति संजय	240,242	2	714	24
651	अमरिया पिता बाबुलाल, सावित्रीबाई पति अमरिया	240,242	2	715	9
652	कमल पिता बाबुलाल, मीनाबाई पति कमल	240,242	2	716	9
653	जानकीबाई बेवा लच्छीराम	240,242	2	717	20
654	संतोष पिता गेंदालाल, ममताबाई पति संतोष	240,242	2	718	40
655	गेंदालाल पिता मिल्या, कमलाबाई पति गेंदालाल	240,242	2	719	42
656	मुकेश पिता गेंदालाल, प्रमिलाबाई पति मुकेश	240,242	2	720	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
657	कमल पिता गेदालाल, आरतीबाई पति कमल	240,242	2	721	80
658	हीरालाल पिता केशव, कमलबाई पति हीरालाल	240,242	2	722	38
659	मुकेश पिता हीरालाल, सीमाबाई पति मुकेश	240,242	2	723	38
660	मांगीलाल पिता दुलीचंद, गंगाबाई पति मांगीलाल,	240,242	2	724	34
661	ताराबाई पति शंकर,	240,242	2	725	40
662	मांगीलाल पिता दुलीचंद, गंगाबाई पति मांगीलाल,	240,242	2	727	38
663	जगन पिता प्यारा, कलाबाई पति जगन	240,242	2	730	130
664	दशरथ पिता दयाराम	240,242	2	732	90
665	मांगीलाल पिता दशरथ, लक्ष्मीबाई पति मांगीलाल	240,242	2	733	65
666	मांगीलाल पिता नारायण, जानकीबाई पति मांगीलाल	240,242	2	734	46
667	राजू पिता नारायण, नर्मदाबाई पति राजु	240,242	2	735	55
668	लाड़कीबाई बेवा शोभाराम	240,242	2	736	23
669	सलुबाई बेवा रमेश	240,242	2	737	22
670	नरसिंग पिता दल्या	240,242	2	739	69
671	नागुलाल पिता सालम, सोनाबाई पति नागुलाल	240,242	2	740	30
672	शंकर पिता सीताराम, ताराबाई पति शंकर	240,242	2	741	55
673	भागीरथ पिता नागुलाल, बनारस बाई पति भागीरथ	240,242	2	742	30
674	भोलू पिता रामलाल, ममताबाई पति भोलू	240,242	2	743	37
675	रविन्द्र पिता प्रेमा, बसंतीबाई पति रविन्द्र	240,242	2	744	22
676	पेमा पिता रतन, रुक्माबाई पति पेमा,	240,242	2	745	58
677	शेरू पिता रतन, प्रेमबाई पति शेरू	240,242	2	746	52
678	कालु पिता रामा, अनिताबाई पति कालु	240,242	2	747	65
679	लच्छीराम पिता साहिबा, पुनीबाई पति लच्छीराम	240,242	2	749	75
680	बलीराम पिता सायबा, ज्ञानुबाई पति बलीराम, संजय पिता बलीराम	240,242	2	750	50
681	अजय पिता बलीराम, मायाबाई पति अजय	240,242	2	751	53
682	लीलाबाई बेवा जगदीश	240,242	2	752	68
683	दिनेश पिता बलीराम, रेखाबाई पति दिनेश	240,242	2	753	85
684	कैलाश पिता बाबुलाल, सेवंतीबाई पति कैलाश	240,242	2	754	67
685	शेरू पिता शोभाराम, रेशमबाई पति शेरू	240,242	2	755	20
686	राजेश पिता शोभाराम, अनिताबाई पति राजेश	240,242	2	756	32
687	शेरू पिता शोभाराम, रेशमबाई पति शेरू	240,242	2	757	14
688	शोभाराम पिता बोदर, देवकीबाई पति शोभाराम, संतोष पिता शोभाराम,, पिंकीबाई पति संतोष	240,242	2	758	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
689	रमेश पिता बल्लु, राधाबाई पति रमेश	240,242	2	759	19
690	भीलुराम पिता बल्लु, बसंतीबाई पति भीलुराम	240,242	2	760	24
691	बल्लु पिता छीतु सकुबाई पति बल्लु	240,242	2	761	20
692	रेवाराम पिता बल्लु, सुमनबाई पति रेवाराम	240,242	2	762	80
693	दिनेश पिता गेंदालाल, सलिताबाई पति दिनेश	240,242	2	763	80
694	बाबुलाल पिता गेंदालाल, लक्ष्मीबाई पति बाबुलाल	240,242	2	764	17
695	गेंदालाल पिता रामाजी, सकुबाई पति गेंदालाल	240,242	2	765	40
696	तुलसीराम पिता रामाजी, प्रेमबाई पति तुलसीराम	240,242	2	766	108
697	जियालाल पिता राजाराम, नर्मदाबाई पति जियालाल	240,242	2	767	430
698	नंदकिशोर पिता बाबु, सुशीलाबाई पति नंदकिशोर	240,242	2	768	46
699	रामु पिता बाबु फुंदाबाई पति रामु	240,242	2	769	50
700	देवकरण पिता रामु छायाबाई पति देवकरण	240,242	2	770	29
701	मंशाराम पिता तुलसीराम, संतोषबाई पति मंशाराम	240,242	2	772	140
702	आनंदराम पिता गोकुल, श्यामुबाई पति आनंदराम	240,242	2	773	356
703	गेंदाबाई बेवा गेंदालाल	240,242	2	774	58
704	तुलसीराम पिता मांगीलाल सेवंतीबाई पति तुलसीराम	240,242	2	775	120
705	राजाराम पिता मांगीलाल भागवतबाई पति राजाराम	240,242	2	776	108
706	घीसीबाई बेवा शिवराम	240,242	2	777	31
707	गजानंद पिता शिवराम सकुनबाई पति गजानंद	240,242	2	778	165
708	हुकुमचंद पिता शिवराम बनारसबाई पति हुकुमचंद	240,242	2	779	110
709	बलीराम पिता मंगतु श्यामबाई पति बलीराम	240,242	2	780	258
710	प्रहलादसिंह पिता गेंदालाल तुलसीबाई पति प्रहलादसिंह	240,242	2	781	81
711	रामसिंह पिता गेंदालाल बसंतीबाई पति रामसिंह	240,242	2	782	65
712	महेंद्र पिता प्रहलादसिंह	240,242	2	783	56
713	दिनेश पिता रामसिंह उषाबाई पति दिनेश	240,242	2	784	35
714	दशरथ पिता दयाराम नर्मदाबाई पति दशरथ	240,242	2	785	56
715	तिलोकीबाई बेवा कड़वा	240,242	2	786	69
716	भुवानीराम पिता दयाराम जीवंतीबाई पति भुवानीराम	240,242	2	787	66
717	रुखड़ीबाई बेवा दयाराम	240,242	2	788	55
718	ऊंकार पिता दयाराम	240,242	2	789	40
719	देवचंद पिता दयाराम रुकमणीबाई पति देवचंद	240,242	2	790	45
720	रमेश पिता उमेदसिंह नर्मदाबाई पति रमेश	240,242	2	791	270
721	नथीबाई बेवा राधेश्याम	240,242	3	792	108
722	परमानंद पिता बालाजी रंजनाबाई पति परमानंद	240,242	3	793	90
723	दुपदाबाई बेवा राजाराम उमेदसिंह पिता राजाराम उमाबाई पति उमेदसिंह	240,242	3	794	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

724	देवराम पिता राजाराम सुष्माबाई पति देवराम	240,242	3	795	86
725	ऊंकार पिता भाउजी	240,242	3	796	60
726	उमाबाई बेवा भुवानीराम	240,242	3	797	325
727	ऊंकार पिता शोभाराम अमरावतीबाई पति ऊंकार	240,242	3	800	120
728	कैलाशबाई बेवा उमेदसिंह	240,242	3	801	135
729	भाईराम पिता करसन अजुद्धाबाई पति भाईराम	240,242	3	802	78
730	टीकाराम पिता करसन	240,242	3	803	73
731	कालुजी पिता बालाजी ग्यारसीबाई पति कालुजी	240,242	3	804	95
732	बलीराम पिता पदम कुसुमबाई पति बलीराम	240,242	3	805	76
733	श्रीराम पिता पदम दुर्गाबाई पति श्रीराम	240,242	3	806	55
734	लेखराम पिता राधेश्याम जमुनाबाई पति लेखराम	240,242	3	807	107
735	मदन पिता सीताराम निहालीबाई पति मदन	240,242	3	808	131
736	पदम पिता सीताराम लक्ष्मीबाई पति पदम	240,242	3	809	66
737	तुलसीराम पिता राजाराम पार्वतीबाई पति तुलसीराम	240,242	3	812	220
738	भूराजी पिता पुनाजी राधाबाई पति भूराजी	240,242	3	813	30
739	लच्छीराम पिता कालुजी कैलाशबाई पति लच्छीराम	240,242	3	814	113
740	राजाराम पिता दुलीचंद रामकुवरबाई पति राजाराम	240,242	3	815	15
741	शिवराम पिता कालुजी	240,242	3	816	26
742	रामेश्वर पिता कालुजी रुकमणीबाई पति रामेश्वर	240,242	3	817	26
743	पार्वतीबाई बेवा बोंदर	240,242	3	818	262
744	बाबुलाल पिता हिराजी, मांगीबाई पति बाबुलाल	240,242	3	819	90
745	नैनसिंह पिता गुलाबसिंह रामप्यारीबाई पति नैनसिंह	240,242	3	820	245
746	भुवानीराम पिता टीकाराम कुसुमबाई पति भुवानीराम	240,242	3	821	73
747	मदन पिता सीताराम निहालीबाई पति मदन	240,242	3	822	174
748	मंशाराम पिता टीकाराम कड़वीबाई पति मंशाराम	240,242	3	827	42
749	देवराम पिता टीकाराम समोतिबाई पति देवराम	240,242	3	828	40
750	मुकेश पिता बलीराम ज्योतीबाई पति मुकेश	240,242	3	829	45
751	सेवा सहकारी संस्था मर्यादित	240,242	3	830	178
752	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्दाना	240,242	3	831	28
753	रामसिंह पिता गुलाबसिंह लक्ष्मीबाई पति रामसिंह	240,242	3	832	29
754	मेढ़ाबाबा का ओटला सार्वजनिक	240,242	3	833 पैकी	6
755	चबुतरा शासकीय	240,242	3	834	18
756	प्रेमलाल पिता ऊंकार रेशमबाई पति प्रेमलाल	240,242	3	836	192
757	रामलाल पिता ऊंकार मीराबाई पति रामलाल	240,242	3	837	84
758	राजेश पिता रामसिंह	240,242	3	838	113
759	रेवाराम पिता राजाराम निर्मलाबाई पति रेवाराम	240,242	3	839	77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
760	मिश्रीलाल पिता शोभाराम कमलाबाई पति मिश्रीलाल	240,242	3	840	107
761	रेवाराम, देवराम पिता शोभाराम कृष्णबाई पति रेवाराम, तुलसीबाई पति देवराम	240,242	3	841	235
762	चेतराम पिता धीरुलाल कुसुमबाई पति चेतराम उमाबाई बेवा भुवानीराम	240,242	3	842	205
763	ऊंकार पिता भाउजी कुसुमबाई पति ऊंकार	240,242	3	843	192
764	कालु पिता हिरालाल चंपाबाई पति कालु	240,242	3	844	188
765	भगवान पिता गेंदालाल ठगुबाई पति भगवान	240,242	3	845	159
766	महावीर पिता गेंदालाल मायाबाई पति महावीर	240,242	3	846	75
767	मुन्ना खां पिता अब्बास खां गुलताज बी पति मुन्ना खां	240,242	3	847	50
768	हाफिजाबी बेवा अब्बास खां छोटु खां पिता अब्बास खां मुमताजबी पति छोटु खां	240,242	3	848	177
769	कुठीया पिता बालु निसुबाई पति कुठीया	240,242	3	849	85
770	युसुफ पिता बालु खां उमराव बी पति युसुफ खां	240,242	3	850	33
771	पिरु पिता यूसुफ सकिला बी पति पिरु	240,242	3	851	29
772	मोटी माता मंदिर सार्वजनिक	199	3	853	35
773	रईस पिता कासम तमन्ना बी पति रईस	240,242	3	854	27
774	कासम खां पिता गप्पु मुमताज बी पति कासम खां	240,242	3	855	55
775	स्माईल पिता कासम फरिदा बी पति स्माईल	240,242	3	856	24
776	राहील पिता मौसम खां जुब्बा बी पति राहील	240,242	3	857	18
777	नानुं खा पिता बालु	240,242	3	858	32
778	मांगीबाई बेवा गोरेलाल युसुफ पिता बाउ उमराबाई पति युसुफ	240,242	3	859	34
779	बाघसिंह पिता बाबू कंचनबाई पति बाघसिंह	240,242	3	862	43
780	अमरु पिता बाबू	240,242	3	863	27
781	तुलसीराम पिता बालाजी गोदावरीबाई पति तुलसीराम	240,242	3	864	140
782	अनोखीबाई बेवा चंपालाल	240,242	3	865	30
783	शंकर पिता बजरंग संगीताबाई पति शंकर	240,242	3	866	18
784	सेवकराम पिता गेंदालाल	240,242	3	867	14
785	सोनीबाई बेवा गेंदालाल	240,242	3	868	31
786	वाहीद खां पिता रसुल खां नफीसा बी पति वाहीद खां	240,242	3	869	37
787	कमल पिता गेंदालाल ममताबाई पति कमल	240,242	3	870	13
788	गौरीशंकर पिता मोतीराम दुर्गाबाई पति गौरीशंकर	240,242	3	872	235
789	कन्हैयालाल पिता मंशाराम दयाबाई पति कन्हैयालाल	240,242	3	873	96
790	बजरंग पिता गेंदालाल नीलाबाई पति बजरंग	240,242	3	874	37
791	रेवाराम पिता गेंदालाल ग्यारसबाई पति रेवाराम	240,242	3	875	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
792	विष्णु पिता रेवाराम रेखाबाई पति विष्णु	240,242	3	876	35
793	संतोषबाई बेवा लोभीराम	240,242	3	877	39
794	सुकईबाई बेवा हिरा	240,242	3	879	54
795	प्रभुदास पिता हिरा जीवनबाई पति प्रभुदास	240,242	3	880	60
796	मनोहर पिता शेरू गुंजाबाई पति मनोहर	240,242	3	881	58
797	गुलाबबाई बेवा शेरू	240,242	3	882	120
798	रमेश पिता हिरा	240,242	3	883	238
799	राजु पिता शेरू अंजनबाई पति राजु	240,242	3	884	57
800	कुसुमबाई पति राजु	240,242	3	885	38
801	राधेश्याम पिता शेरू दुर्गाबाई पति राधेश्याम	240,242	3	886	95
802	सीताराम पिता अनोकचंद सकुबाई भागुबाई पति सीताराम	240,242	3	887	14
803	दिनेश पिता अनोकचंद लक्ष्मीबाई पति दिनेश	240,242	3	888	11
804	अनोकचंद पित हिरा अनारबाई पति अनोकचंद	240,242	3	889	30
805	रामु पिता अनोकचंद ममताबाई पति रामु	240,242	3	890	45
806	रामनारायण पिता राधेश्याम उमाबाई पति रामनारायण	240,242	3	891	304
807	भारत पिता सडु संजुबाई पति भारत	240,242	3	892	122
808	जितेंद्र पिता मिश्रीलाल राधाबाई पति जितेंद्र	240,242	3	893	439
809	सडु पिता छोटु संतोषीबाई पति सडु	240,242	3	894	115
810	कमलसिंह पिता अमरसिंह रुकमाबाई पति कमलसिंह	240,242	3	895	270
811	रामसिंह पिता गेंदालाल बसंतीबाई पति रामसिंह	240,242	3	896	200
812	अरविंद पिता महावीर	240,242	3	897	59
813	नंदु पिता सकरीया त्रिलोकीबाई पति नंदु	247 / 2	4	902	145
814	परसराम पिता मदन सनीबाई पति परसराम	247 / 2	4	903	40
815	रमेश पिता बाबू उमाबाई पति रमेश	247 / 2	4	904	70
816	धनुबाई बेवा तुकाराम	247 / 2	4	906	20
817	कालु पिता तुकाराम दुर्गाबाई पति कालु	247 / 2	4	907	108
818	गुलाबबाई पति भाईराम	247 / 2	4	908	80
819	रामेश्वर पिता तुकाराम कलाबाई पति रामेश्वर	247 / 2	4	909	165
820	चेनसिंह पिता रामसिंह, रामकन्याबाई पति चेनसिंह	247 / 2	4	910	118
821	रामदीन पिता ग्यारसीलाल कंचनबाई पति रामदीन	247 / 2	4	912	61
822	महेंद्र पिता मिश्रीलाल सारीकाबाई पति महेंद्र	247 / 2	4	913	77
823	पप्पु पिता मल्लु कलाबाई पति पप्पु	247 / 2	4	914	100
824	रामेश्वर पिता कालु शारदाबाई पति रामेश्वर	247 / 2	4	916	96
825	चुन्नीलाल पिता रूपसिंह भूराबाई पति चुन्नीलाल	247 / 2	4	917	52
826	दिनेश पिता बाबू नीमाबाई पति दिनेश	247 / 2	4	918	65
827	ऊंकार पिता शोभाराम रुकमणीबाई पति ऊंकार	247 / 2	4	919	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
828	राधेश्याम पिता भोलु निर्मलाबाई पति राधेश्याम	247/2	4	920	141
829	हरिकरण पिता भलाजी दुर्गाबाई पति हरिकरण	247/2	4	921	126
830	बुदन पिता नारंगा सरस्वतीबाई पति बुदन	247/2	4	922	124
831	बंशी पिता भोतीराम चंदाबाई पति बंशी	247/2	4	925	47
832	इंदर पिता दयाराम दिपाबाई पति इंदर	247/2	4	926	30
833	संगीताबाई बेवा राजेश	247/2	4	927	11
834	राजाराम पिता सुकलाल गुड्डीबाई पति राजाराम	247/2	4	928	110
835	बलीराम पिता गणपत दुर्गाबाई पति बलीराम	247/2	4	929	45
836	आत्माराम पिता रनछोड़ दुर्गाबाई पति आत्माराम	247/2	4	931	70
837	महिमाराम पिता रनछोड़ जसुबाई पति महिमाराम	247/2	4	932	73
838	रमेश पिता नाना सकुंतलाबाई पति रमेश	247/2	4	933	57
839	गजानंद पिता टुटा ममताबाई पति गजानंद	247/2	4	934	46
840	आनंदराम पिता तुकाराम, रेशमबाई पति आनंदराम	247/2	4	935	302
841	संतोष पिता नंदु सुमनबाई पति संतोष	247/2	4	936	52
842	नंदु पिता नार्या कडवीबाई पति नंदु	247/2	4	937	50
843	अमोलबाई पति विक्रम	247/2	4	938	182
844	घनश्याम पिता दगडु ममताबाई पति घनश्याम	247/2	4	939	151
845	भगवान पिता नत्थुजी, पुनीबाई पति भगवान	247/2	4	940	406
846	शेरू पिता आनंदराम, शांताबाई पति शेरू	247/2	4	942	322
847	गबरू पिता तुकाराम प्रेमबाई पति गबरू	247/2	4	943	65
848	सरवण पिता देवा संगीताबाई पति सरवण	247/2	4	944	55
849	श्याम पिता भलाजी कमुबाई पति श्याम	247/2	4	945	55
850	रमुबाई बेवा सीताराम कडवा पिता सीताराम मनुबाई पति कडवा	247/2	4	946	151
851	अंतु पिता बली मंगतीबाई पति अंतु	247/2	4	947	93
852	रामा पिता गोबरिया देवकाबाई पति रामा	247/2	4	948	95
853	मेहताब पिता छगन लक्ष्मीबाई पति मेहताब	247/2	4	950	215
854	सोहन पिता भोलु कुसुमबाई पति सोहन	247/2	4	952	120
855	करणसिंह पिता दर्याव दुर्गाबाई पति करणसिंह	247/2	4	953	229
856	गेंदालाल पिता उमराव राधाबाई पति गेंदालाल	247/2	4	954	75
857	महादेव पिता तुलसीरामरेवाबाई पति महादेव	247/2	4	955	82
858	दुलीचंद पिता लच्छीराम, कोमलबाई पति दुलीचंद	247/2	4	956	157
859	महेश पिता मिश्रीलाल छायाबाई पति महेश	247/2	4	957	165
860	नरसिंग पिता लच्छीराम, रंजनाबाई पति नरसिंग	247/2	4	958	112
861	विजय पिता लक्ष्मीराम रीनाबाई पति विजय	247/2	4	959	112
862	चैनलाल पिता कालु मायाबाई पति चैनलाल	247/2	4	960	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
863	सेवकराम पति मल्लु सावित्रिबाई पति सेवकराम	247/2	4	961	100
864	त्रिलोक पिता बलीराम	247/2	4	963	55
865	भरत पिता गोप्या भागाबाई पति भरत	247/2	4	964	99
866	प्रेमलाल पिता कालु ममताबाई पति प्रेमलाल	247/2	4	966	105
867	शिवा पिता अमरसिंह नकलाबाई पति शिवा	247/2	4	967	59
868	चैनसिंह पिता गमनसिंह पुनीबाई पति चैनसिंह	247/2	4	968	36
869	हीरालाल पिता रामा गीताबाई पति हीरालाल	247/2	4	969	110
870	सार्वजनिक भीलट देव मंदिर	247/2	4	970	18
871	राजु पिता गणेश कुसुमबाई पति राजु	247/2	4	972	6
872	चेतराम पिता नराण रयारसबाई पति चेतराम	247/2	4	973	144
873	प्रेमलाल पिता चेतराम निर्मलाबाई पति प्रेमलाल	247/2	4	974	170
874	रेवाराम पिता फत्तु रमुबाई पति रेवाराम	247/2	4	975	60
875	महेश पिता नथु बसुबाई पति महेश	247/2	4	976	25
876	गौरी पिता नथु राधाबाई पति गौरी	247/2	4	977	30
877	गीताबाई बेवा नथु	247/2	4	978	100
878	रामा पिता भोलु गौराबाई पति रामा	247/2	4	979	45
879	विजय पिता लच्छीराम रीनाबाईपति विजय कहार	240,242	4	563/1143	12
880	प्रहलाददास गुरु मौनीबाबा त्यागी	240,242	4	259/1144	4
881	मोतीराम पिता खुश्याल, सरजुबाई पति मोतीराम	247/2	4	910/1145	190
882	हिरालाल पिता केशव, कमलाबाई पति हिरालाल	247/2	4	941/1147	44
883	हीरालाल पिता गुलाबसिंग शारदाबाई पति हीरालाल	240,242	4	502/1148	48
884	गुलाबसिंग पिता पुनाजी कैलाशबाई पति गुलाबसिंग	240,242	4	502/1149	21
885	रामसिंह पिता गुलाबसिंह लक्ष्मीबाई पति रामसिंह गुजर	240,242	4	502/1151	108
886	गुलाबसिंग पिता पुनाजी कैलाशबाई पति गुलाबसिंग	240,242	4	502/1152	25
887	कमलाबाई बेवा दर्याव	240,242	4	499/1153	50
888	रामनारायण पिता दरियावसिंह मधुबाई पति रामनारायण	240,242	4	499/1154	51
889	किशोरसिंह पिता दरियावसिंह लक्ष्मीबाई पति किशोरसिंह	240,242	4	499/1155	53
890	विजयसिंह पिता दरियावसिंह सुमनबाई पति विजयसिंह	240,242	4	499/1156	55
891	जितेंद्र पिता कड़वाजी संगीताबाई पति जितेंद्र	240,242	4	463/1157	55
892	मदन पिता सीताराम निहालीबाई पति मदन	240,242	4	413/1158	435
893	भुवानीराम पिता टीकाराम कुसुमबाई पति भुवानीराम	240,242	4	413/1159	95
894	मंगत पिता लाल्या सुमनबाई पति मंगत	240,242	4	195/1160	35
895	लाल्या पिता रामा उषदईबाई पति लाल्या	240,242	4	195/1161	35
896	सकुबाई बेवा कमल	240,242	4	195/1162	38
897	देवराम पिता भुवानीराम, रमाबाई पति देवराम,	240,242	4	360/1163	135
898	संतोष पिता कड़वाजी बसंतीबाई पति संतोष	240,242	4	715/1165	37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
899	प्रकाश पिता बदामसिंह	240,242	4	125/1167	90
900	अजय पिता राजनाथ, शंकुललालबाई पति अजय	240,242	4	131/1168	17
901	झबरसिंग पिता भागीरथ सुमनबाई पति झबरसिंग	240,242	4	697/1178	17
902	सोनाबाई बेवा गणेश	240,242	4	698/1179	14
903	नर्मदाबाई बेवा आनंदराम	240,242	4	318/1180	65
904	मांगीलाल पिता बाबुलाल बेबीबाई पति मांगीलाल	240,242	4	715/1181	8
905	संतोष पिता बाबुलाल अनिताबाई पति संतोष	240,242	4	716/1182	8
906	सुभाष पिता सङ्कु	240,242	4	892/1187	60
907	ईदगाह	148	4	825/1188	80
	योग			907	84774

परिशिष्ट – 2

निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

अनु.क.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	राजाराम पिता पुनाजी गुजर	166/1	मकान
2	राजाराम पिता मांगीलाल गुजर	166/1	गोदाम
3	सीताराम पिता कालूजी गुजर	166/1	पशुबाड़ा
4	रेवाराम पिता राजाराम गुजर	166/1	पशुबाड़ा
5	बलीराम पिता बाबूलाल गुजर	166/1	मकान
6	श्रीराम पिता ओंकार गुजर	166/1	पशुबाड़ा
7	जितेन्द्र पिता हिमतसिंह गुजर	166/1	मकान
8	शिवनारायण पिता देवराम गुजर	166/1	मकान
9	श्रीराम पिता पदम गुजर	166/1	पशुबाड़ा
10	नानकराम पिता बोंदर गुजर	166/1	पशुबाड़ा
11	ओंकार पिता शोभाराम गुजर	166/1	पशुबाड़ा
12	शिवनारायण पिता चंपालाल गुजर	166/1	मकान
13	केशरीलाल पिता शोभाराम गुजर	166/1	गोबर गैस, पशुबाड़ा
14	लखनलाल पिता टुकडू भीलाला	166/1	मकान
15	तुलसीराम पिता मांगीलाल गुजर	166/1	मकान दो
16	मिश्रीलाल पिता चैनसिंग गुजर	166/1	भीलट बाबा मंदिर

(1)	(2)	(3)	(4)
17	चैनसिंग पिता हिरालाल गुजर	166 / 1	मकान
18	नेमीचंद पिता चैनसिंह गुजर	166 / 1	पशुबाड़ा
19	राधेश्याम पिता सुन्दरलाल भारूड	194	मकान
20	सुखदेव पिता भुवानीराम भारूड	194	मकान
21	सार्वजनिक सीतलामाता मंदिर	201	मकान
22	बागसिंह पिता सीताराम गुजर	203	पशुबाड़ा
23	गोपाल पिता सीताराम गुजर	203	पशुबाड़ा
24	लाडसिंह पिता सीताराम	203	पशुबाड़ा
25	गजानंद पिता सीताराम गुजर	203	पशुबाड़ा
26	दशरथ पिता दयाराम गुजर	204	पशुबाड़ा
27	दिनेश पिता बाबुलाल गुजर	224	मकान
28	ओमप्रकाश पिता कड़वाजी गुजर	224	मकान
29	बंकटजी पिता नंदूजी गुजर	224	मकान
30	दुलीचंद पिता रामेश्वर गुजर	224	मकान
31	गजानंद पिता शिवराम	224	पशुबाड़ा

परिशिष्ट – 3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु.क्र.	ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	70	निचरागाह	मकान – 17, भीलट बाबा का ओटला
2	168	निचरागाह	मकान – 2
3	1	नदी	पाईप लाईन–121, पंप हाउस –65

- 2 राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
- 3 कंपनी के भू-अर्जन आवेदन पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.09.2007 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 12-15 / 07 / सात-2-ए भोपाल दिनांक 04.10.07 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है।
- 4 कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2,3 में वर्णित संरचनाएँ कंपनी को प्रदाय करेंगा, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—
1. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्वर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
 2. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
 3. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा।
 4. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुर्नवास नीति में दिए गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी।
 5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44ए)

6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा, और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
 7. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी, तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
 8. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप कों बदला नहीं जावेगा।
 9. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा।
 10. प्रदूषण नहीं किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आशय के प्राप्त करना होगे कि, “पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा”।
 11. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं रथानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।
 12. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
 13. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा।
 14. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
 15. शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 16. मौके की स्थिति या रथानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लंगाई अन्य आवश्यक शर्तें।
 17. प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- (क) राज्य शासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लाट पर मकान बनाने के लिए करेगा। यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है, तो वह आवंटित स्थल पर मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा।
- (ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह उस पर

अतिक्रमण/अधिपत्य रखता है, तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा। जिसमें लगने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा।

- (ग) स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
- (घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1,2,3 में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्तियों के अर्जन के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा, तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा।, यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन भूमि अधिगृहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिगृहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिगृहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी, उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा।

भू-अर्जन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क्र-1 राज्य शासन, पक्ष क्र.-2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी। अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्युटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा।

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

पक्ष क्रमांक-1

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

साक्षी क्र.-1

नाम: मथुरालाल मण्डलेश्वर
पता 219 पुष्प कुञ्ज बजरंग नगर जैतापुर
खरगोन

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला—खरगोन (म.प्र.)

साक्षी क्र.-2

नाम: छोटेखान

पक्ष क्रमांक-2

पता: 15 टवड़ी मोहल्ला खरगोन

(असद जाफर)

महाप्रबंधक
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि.
मण्डलेश्वर

क्रमांक / 373 / भू-अर्जन / 11

खरगोन, दिनांक 8 मार्च, 2011

भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 3-अ / 82 / 09-10

यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “राज्यपाल” कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “कम्पनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभ्यांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म.प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 08.03.2011 को सम्पादित किया जा रहा है।

- 1 कंपनी ने म.प्र. शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण ढूब से प्रभावित होने से ग्राम भट्टाण बुजूर्ग प.ह.नं. 36, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की आबादी भूमि सर्वे नंबर 3, 231, 478/6, 478/7 की आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं तथा निजी कृषि भूमि सर्वे नंबर 120, 133, 161, 178, 185/2, 193/1, 222, 234, 239/1, 240 पर स्थित संरचनाएं एवं शासकीय भूमि सर्वे नंबर 59, 60, 200, 209 पर स्थित संरचनाओं के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1,2,3 पर अंकित किया गया है।

परिशिष्ट – 1
आबादी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं

अनु. क्र.	स्वत्वधारक या भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/ पूरा पता	सर्वे नम्बर	मोह ल्ला शीट क्रमांक	प्लाट/ नम्बर/ भूखण्ड क्रमांक	क्षैत्रफल वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6
1	सीयाराम पर्ण शाला हनुमान मंदिर	231	1	1	180
2	सीयाराम पर्ण शाला नर्मदाघाट	231	1	2	660
3	सीयाराम पर्ण शाला आश्रम	231	1	3	168
4	बसुबाई बेवा सीताराम लोभीराम पिता सीताराम सुन्दरबाई पति लोभीराम जाति केवट सा देह	231	1	4	64
5	कडवा पिता रतिराम छन्नूबाई पति कडवा जाति केवट सा देह	231	1	5	90
6	कमलाबाई बेवा मंगलसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	7	140
7	प्रताप पिता मंगलसिंह रेखाबाई पति प्रताप जाति ठाकुर सा देह	231	1	8	98
8	भोला पिता मंगलसिंह निर्मलाबाई पति भोला जाति ठाकुर सा देह	231	1	9	70
9	अजीमखो पिता उरमतखों जरीनाबी पति अजीमखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	10	42
10	हबीबखों पिता अजीमखों नफीसाबी पति हबीबखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	11	31
11	शब्दीरखों पिता आजीमखों फरीदाबी पति शाबिरखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	12	62
12	मेहरबानखों पिता असरफखों आयसाबी पति मेहरबानखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	13	59
13	असरफखों पिता गप्पूखों कुबराबी पति असरफखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	14	49
14	मुंशीखों पिता गप्पूखों सलमाबी पति मुंशीखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	15	45
15	रज्जाखों पिता नवाबखों जमिलाबी पति रज्जाखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	16	37
16	नवाबखों पिता गप्पूखों हसीनाबी पति नवाबखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	17	65
17	रमजानखों पिता नवाबखों जरिनाबी पति रमजानखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	18	44
18	मुबारीकखों पिता इमामखों जरीनाबी पति मुबारीकखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	19	61
19	शेफुददीन पिता इमामखाफ अनीसाबी पति शेफुददीन जाति पिंजारा सा देह	231	1	20	44
20	मासुमबी बेवा हुरमतखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	21	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	कालूखॉ पिता हुरमतखॉ जमिलाबी पति कालूखॉ जाति पिंजारा सा देह	231	1	22	69
22	मौसमखॉ पिता हुरमतखॉ जेराबी पति मौसमखॉ जाति पिंजारा सा देह	231	1	23	176
23	मलकाबी बेवा हमीदखॉ जाति मेहतर सा देह	231	1	25	60
24	गुलाबचंद पिता मयाराम कमलाबाई पति गुलाबचंद जाति गुजर सा देह	231	1	26	8
25	सयन पिता तुलसीराम जाति मोरी सा देह	231	1	27	42
26	महेन्द्र पिता तुलसीराम भारती पति तुलसीराम जाति मोरी सा देह	231	1	28	28
27	भुवानीराम पिता नानकराम अजुध्याबाई पति भुवानीराम जाति मोरी सा देह	231	1	29	105
28	तुलसीराम पिता नानकराम आनन्दबाई पति तुलसीराम जाति मोरी सा देह	231	1	30	36
29	मरुबाई बेवा मांगीलाल शांतीलाल पिता मांगीलाल सुभद्राबाई पति शांतीलाल जाति मोरी सा देह	231	1	31	21
30	ओमप्रकाश पिता चेतराम लक्ष्मीबाई पति ओमप्रकाश जाति गुजर सा देह	231	1	32	156
31	गुलाबबाई कमलाबाई बेवा चेतराम जाति गुजर सा देह	231	1	33	256
32	ओमप्रकाश पिता चेतराम लक्ष्मीबाई पति ओमप्रकाश जाति गुजर सा देह	231	1	34	91
33	गुलाबचंद पिता मयाराम कमलाबाई पति गुलाबचंद जाति गुजर सा देह	231	1	35	68
34	कल्याण पिता चेतराम सकुनबाई पति कल्याण जाति गुजर सा देह	231	1	36	91
35	देवकीबाई बेवा तुकाराम जाति गुजर सा देह	231	1	37	50
36	चिंताराम पिता भगवान कुसुमबाई पति चिंताराम जाति गुजर सा देह	231	1	38	82
37	राकेश पिता जयराम रुकमणीबाई पति राकेश जाति गुजर सा देह	231	1	39	55
38	सीताबाई बेवा जयराम जाति गुजर सा देह	231	1	40	82
39	तोताराम पिता नथु गेंदबाई पति तोताराम जाति गुजर सा देह	231	1	41	56
40	नारायण पिता बाबूलाल प्रमिलाबाई पति नारायण जाति गुजर सा देह	231	1	42	37
41	किशोरीलाल पिता दगडू कमलाबाई पति किशोरीलाल जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	43	34
42	राधेश्याम पिता दगडू उषाबाई पति राधेश्याम जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	44	34
43	विनोद पिता दगडू अनिताबाई पति विनोद जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	45	34
44	रेवाराम पिता भाउजी सलोकीबाई पति रेवाराम जाति गुजर सा दह	231	1	47	78
45	बसन्तीबाई बेवा राधेश्याम जाति मोरी सा देह	231	1	48	342
46	मनोहर पिता सडू सुकई बाई पति मनोहर जाति भारूड सा देह	231	1	49	81
47	लल्लू पिता सडू चन्दुबाई पति लल्लू जाति भारूड सा देह	231	1	50	129
48	रामप्यारीबाई बेवा फत्तू जाति सुतार सा देह	231	1	51	81
49	मयाराम पिता गोविन्द अनोखीबाई पति मयाराम जाति सुतार सा देह	231	1	52	77

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	सीताराम पिता गोविन्द अम्बुबाई पति सीताराम जाति सुतार सा देह	231	1	53	83
51	अमराजी पिता भाउजी मांगीबाई पति अमराजी जाति गुजर सा देह	231	1	54	167
52	रामलाल पिता भाउजी कृष्णबाई पति रामलाल जाति गुजर सा देह	231	1	55	215
53	धन्नालाल पिता रेवाराम संताषीबाई पति धन्नालाल जाति गुजर सा देह	231	1	56	29
54	बलिराम पिता रेवाराम कंचनबाई पति बलिराम जाति गुजर सा देह	231	1	57	115
55	विलासखॉ पिता कालेखॉ कालीबाई पति विलासखॉ जाति पिंजार सा देह	231	1	58	159
56	चामुण्डा माता मंदिर श्यामु पिता रामलाल जाति मोरी सा देह	231	1	59	33
57	कालू पिता रामलाल गिरजाबाई पति कालू जाति मोरी सा देह	231	1	60	30
58	सुखदेव पिता रामलाल सुनिताबाई पति सुखदेव जाति मोरी सा देह	231	1	61	36
59	श्यामु पिता रामलाल संतोषीबाई पति श्यामु जाति मोरी सा देह	231	1	62	25
60	लाडकीबाई बेवा रामलाल जाति मोरी सा देह	231	1	63	57
61	भगवान पिता सखाराम सजनबाई पति भगवान जाति सुतार सा देह	231	1	64	46
62	कैलाश पिता सखाराम उमाबाई पति कैलाश जाति सुतार सा देह	231	1	65	46
63	रहमानखॉ पिता बकश्या वहीदाबी पति रहमानखॉ जाति पिंजार सा देह	231	1	66	50
64	बकश्या पिता नथू मखमुलबी पति बकश्या जाति पिंजारा सा देह	231	1	67	50
65	मेहरबान पिता बकश्या सेराजबी पति मेहरबान जाति पिंजारा सा देह	231	1	69	50
66	उरस्मान पिता बकश्या जमिलाबी पिता उरस्मान जाति पिंजारा सा देह	231	1	70	65
67	गंगाबाई बेवा गेंदालाल जाति गुजर सा देह	231	1	72	38
68	सीताराम पिता मांगीलाल जाति मौर्य सा देह	231	1	74	57
69	पुनमचंद पिता धुलिया कंचनबाई पति पुनमचंद जाति गुजर सा देह	231	1	75	52
70	रेशमबाई पिता धुलिया जाति गुजर सा देह	231	1	76	52
71	गुलाबचंद पिता धुलचंद बसुबाई पति गुलाबचंद जाति गुजर सा देह	231	1	77	52
72	रेशम पिता धुलिया गुजर	231	1	78	81
73	शंकर पिता मांगीलाल जाति मौर्य सा देह	231	1	79	59
74	भगवान पिता तापीराम भागवतबाई पति भगवान जाति मौर्य सा देह	231	1	80	52
75	शिवा पिता गणपत कंचनबाई पति शिवा जाति मौर्य सा देह	231	1	81	52
76	मिश्रीलाल पिता भीलू रामेश्वर, जगदीश पिता भाईराम ममताबाई पति मिश्रीलाल संतोषबाई पति रामेश्वर ममताबाई पति जगदीश जाति गुजरा सा देह	231	1	82	119
77	इन्द्रा बेवा अनवरखॉ जाति पिंजारा सा देह	231	1	83	51
78	कालूखॉ पिता उरमतखॉ जमिलाबी पति कालूखॉ जाति पिंजार सा देह	231	1	84	60
79	इब्राहिम पिता अभिमन्यु हकिमाबी पति इब्राहिम जाति पिंजारा सा देह	231	1	86	29
80	गुलाबचंद पिता धुलिया बसुबाई पति गुलाबचंद जाति गुजर सा देह	231	1	87	80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	शकीनाबी बेवा अभिमन्यु जाति पिंजारा सा देह	231	1	88	26
82	मेहरबान पिता बकश्या शेराजबी पति मेहरबान जाति पिंजारा सा देह	231	1	89	23
83	रहमान पिता बकश्या वहीदाबी पति रहमान जाति पिंजारा सा देह	231	1	90	23
84	ऐसान पिता उरमान रजियाबी पति ऐसान जाति पिंजारा सा देह	231	1	91	23
85	पुनमचंद पिता धुलिया कंचनबाई पति पुनमचंद जाति गुजर सा देह	231	1	92	80
86	शेरू पिता धुलिया मुन्नीबाई पति शेरू जाति गुजर सा देह	231	1	93	80
87	मुंशीखों पिता गप्पूखों सलमाबी पति मुंशीखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	95	21
88	उंकार पिता रतन जाति गुजर सा देह	231	1	96	46
89	लक्ष्मीबाई बेवा राजाराम जाति गुजर सा देह	231	1	97	66
90	रमेश पिता रतन मायाबाई पति रमेश जाति गुजर सा देह	231	1	98	40
91	प्रेमलाल पिता रतन लीलाबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	1	99	40
92	लखन पिता रतन पुनीबाई पति लखन जाति गुजर सा देह	231	1	100	95
93	राधेश्याम पिता रेवाजी सुनिताबाई पति राधेश्याम जाति गुजर सा देह	231	1	101	39
94	लखन पिता रेवाजी ममताबाई पति लखन जाति गुजर सा देह	231	1	102	42
95	बाबूलाल पिता पुनमचंद जाति गुजर सा देह	231	1	103	82
96	गुलाबचंद पिता पुनमचंद कुसुमबाई पति गुलाबचंद जाति गुजर सा देह	231	1	104	34
97	भुवानीराम पिता जोगीलाल रामेश्वर पिता भवानीराम सुमनबाई पति भुवानीराम जाति गुजर सा देह	231	1	105	90
98	तिलोकचंद पिता पुनमचंद कंचनबाई पति तिलोकचंद जाति गुजर सा देह	231	1	106	35
99	मंशाराम पिता भगवान सुनिताबाई पति मंशाराम जाति गुजर सा देह	231	1	107	70
100	नर्मदाबाई पिता चेतराम जाति गुजर सा देह	231	1	108	37
101	कालूराम पिता भुवानीराम सलिताबाई पति कालूराम जाति गुजर सा देह	231	1	109	42
102	लखन पिता भाईराम राधाबाई पति लखन जाति केवट सा देह	231	1	110	31
103	हुकुम पिता भाईराम प्रमिलाबाई पति हुकुम जाति केवट सा देह	231	1	111	31
104	रमेश पिता भाईराम रुकमणीबाई पति रमेश जाति केवट सा देह	231	1	112	33
105	सुरेश पिता भाईराम ममताबाई पति सुरेश जाति केवट सा देह	231	1	113	32
106	केशवदास पिता गणपतदास कमलाबाई पति केशवदास कडवीबाई बेवा नानकदास जाति केवट सा देह	231	1	114	62
107	सेवकराम पिता नानकदास मायाबाई पति सेवकराम जाति केवट सा देह	231	1	115	65
108	राम मंदिर व्यवस्थापक केशवदास पिता गणपतदास कमलाबाई पति केशवदास जाति केवट सा देह	231	1	116	188
109	हुकुम पिता भाईराम प्रमिलाबाई पति हुकुम जाति केवट सा देह	231	1	119	50
110	कमलाबाई बेवा वेतराम केवट सा देह	231	1	120	75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	भगवान पिता रेवाराम अरुणाबाई पति भगवान जाति केवट सा देह	231	1	121	38
112	रेवाराम पिता बाबू शांताबाई पति रेवाराम जाति केवट सा देह	231	1	122	79
113	देवराम पिता बाबू सुमनबाई पति देवराम जाति केवट सा देह	231	1	123	56
114	गुलाबचंद पिता शोभाराम जाति गवली सा देह	231	1	124	39
115	भाईराम पिता बाबू जाति केवट सा देह	231	1	125	37
116	बसुबाई बेवा सीताराम ,लोभीराम पिता सीताराम सुन्दरबाई पति लोभीराम जाति केवट सा देह	231	1	126	62
117	रुकमणीबाई बेवा खुशीयाल जाति केवट सा देह	231	1	127	105
118	दगड़ीबाई बेवा सीताराम प्रताप पिता सीताराम संगीताबाई पति प्रताप जाति केवट सा देह	231	1	128	21
119	गिरिराम पिता सीताराम सीमाबाई पति गिरिराम जाति केवट सा देह	231	1	129	19
120	बसुबाई बेवा सीताराम ,लोभीराम पिता सीताराम सुन्दरबाई पति लोभीराम जाति केवट सा देह	231	1	130	109
121	प्रताप पिता सीताराम केवट सा देह	231	1	131	90
122	कडवा पिता रतीराम छन्दुबाई पति कडवा जाति केवट सा देह	231	1	132	249
123	शिवसिंह पिता मोतीसिंह फुलकीबाई पति शिवसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	133	106
124	नानूराम पिता डागरिया रुकमाबाई पति नानूराम जाति बारेला सा देह	231	1	134	15
125	भागीरथ पिता सुतारीया सुमित्राबाई पति भागीरथ जाति बारेला सा देह	231	1	135	25
126	तापीराम पिता भोलूजी धनीबाई पति तापीराम जाति गुजर सा देह	231	1	136	95
127	अर्जुनसिंह पिता मोतीसिंह रिंधुबाई पति अर्जुनसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	137	79
128	नारायण सिंह पिता अर्जुनसिंह सीतलबाई पति नारायणसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	138	51
129	आनन्दराम पिता पुनमचंद पुनीबाई पति आनन्दराम जाति केवट सा देह	231	1	140	171
130	गुणीराम पिता तुकाराम राधाबाई पति गुणीराम जाति केवट सा देह	231	1	142	19
131	सार्वजनिक शिव मंदिर सा देह	231	1	143	29
132	सार्वजनिक कुवर देव मंदिर सा देह	231	1	144	4
133	तुकाराम पिता पुनमचंद द्रोपताबाई पति तुकाराम जाति केवट सा देह	231	1	145	66
134	र्यारसीबाई बेवा पुनमचंद जाति केवट सा देह	231	1	146	87
135	मिश्रीलाल पिता गंगाराम बसुबाई पति मिश्रीलाल जाति केवट सा देह	231	1	147	77
136	मिश्रीलाल पिता गंगाराम बसुबाई पति मिश्रीलाल जाति केवट सा देह	231	1	148	40
137	आनन्दराम पिता मोतीराम सोनाबाई पति आनन्दराम जाति कहार सा देह	231	1	149	73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
138	મિસરબાઈ બેવા ગણપત જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	150	20
139	તિલોકચંદ પિતા ગણપત રેશમબાઈ પતિ તિલોકચંદ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	151	17
140	જિતેન્દ્ર પિતા રાધેશ્યામ વન્દનાબાઈ પતિ જિતેન્દ્ર જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	152	28
141	રાધેશ્યામ પિતા મકુન્દ બસન્તીબાઈ પતિ રાધેશ્યામ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	153	38
142	મોહન પિતા મકુન્દ ચંદાબાઈ પતિ મોહન જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	154	54
143	મદન પિતા મકુન્દ પ્રેમબાઈ પતિ મદન જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	155	49
144	જગદીશ પિતા મકુન્દ ગંગાબાઈ પતિ જગદીશ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	156	51
145	ઓમપ્રકાશ પિતા ફુલચંદ રામકન્યાબાઈ પતિ ઓમપ્રકાશ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	157	42
146	રમેશ પિતા ફુલચંદ મનુબાઈ પતિ રમેશ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	158	36
147	ગબરુ પિતા ફુલચંદ ગીતાબાઈ પતિ ગબરુ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	159	33
148	ચિંતારામ પિતા માંગીલાલ કંચનબાઈ પતિ ચિંતારામ જાતિ ગુજર સ દેહ	231	1	160	73
149	શંકર પિતા મોતીરામ પુજાબાઈ પતિ શંકર જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	161	61
150	મુન્નાલાલ પિતા છબ્બુ નાનીબાઈ પતિ મુન્નાલાલ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	162	40
151	મહેશ પિતા મોતીલાલ આશાબાઈ પતિ મહેશ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	163	22
152	રાઘોરામ પિતા માંગીલાલ કલાબાઈ પતિ રાઘોરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	164	19
153	મોતીલાલ પિતા નથ્યુ કલાબાઈ પતિ મોતીલાલ તારાચંદ પિતા મોતીલાલ ભગવતબાઈ પતિ તારાચંદ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	165	28
154	રાજારામ પિતા માંગીલાલ ગાયત્રીબાઈ પતિ રાજારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	166	60
155	ચંપાલાલ રાઘોરામ ચિંતારામ રાજારામ પિતા માંગીલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	167	12
156	રાકેશ પિતા રાઘોરામ જ્યોતીબાઇ પતિ રાકેશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	168	32
157	આનન્દરામ પિતા ચંપાલાલ સુશીલાબાઈ પતિ આનન્દરામ જાતિ ગુજર સ દેહ	231	1	169	44
158	ચંપાલાલ પિતા માંગીલાલ ચંપાબાઈ પતિ ચંપાલાલ જાતિ ગુજર સ દેહ	231	1	170	41
159	રાકેશ પિતા રાઘોરામ જ્યોતીબાઇ પતિ રાકેશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	171	33
160	ચિંતારામ પિતા માંગીલાલ કંચનબાઈ પતિ ચિંતારામ જાતિ ગુજર સ દેહ	231	1	172	29
161	રાજારામ પિતા માંગીલાલ ગાયત્રીબાઈ પતિ રાજારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	173	37
162	મંગત્યા પિતા પુનાજી છન્દુબાઈ પતિ મંગત્યા જાતિ પ્રજાપત સા દેહ	231	1	174	81
163	લક્ષીબાઈ બેવા ટંટૂજી રમેશ પિતા ટંટુજી નર્મદીબાઈ પતિ રમેશ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	175	73
164	ભગવાન પિતા નાનકદાસ મંગતીબાઈ પતિ ભગવાન જાતિ કેવટ સા દેહ	231	1	176	41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
165	जयराम पिता केशवदास उर्मिलाबाई पति जयराम जाति केवट सा देह	231	1	177	77
166	हीरालाल पिता भुवानीराम गायत्रीबाई पति हीरालाल जाति गुजर सा देह	231	1	178	60
167	कालूराम पिता भुवानीराम सलिताबाई पति कालूराम जाति गुजर सा देह	231	1	179	16
168	सेवकराम पिता जयराम छायाबाई पति सेवकराम जाति गुजर सा देह	231	1	180	55
169	अशोक पिता मंगत्या संजुबाई पति अशोक जाति प्रजापत सा देह	231	1	181	81
170	दिलीप पिता मंगत्या शारदाबाई पति दिलीप जाति प्रजापत सा देह	231	1	182	68
171	द्वारकीबाई बेवा नथू जाति गुजर सा देह	231	1	183	115
172	प्रेमलाल पिता फत्तू प्रमिलाबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	1	184	42
173	सेवकराम पिता फत्तू देवकीबाई पति सेवकराम जाति गुजर सा देह	231	1	185	42
174	राघोराम पिता आपाजी कुसुमबाई पति राघोराम जाति गुजर सा देह	231	1	186	202
175	हुकुमचंद पिता आपाजी चुन्नीबाई पति हुकुमचंद जाति गुजर सा देह	231	1	187	111
176	सुरेश पिता तोताराम किरणबाई पति सुरेश जाति गुजर सा देह	231	1	188	55
177	रेवाजी पिता नथुजी कलाबाई पति रेवाजी जाति गुजर सा देह	231	1	189	78
178	घीरीबाई बेवा बरमगीरी दशरथगीरी पिता बरमगीरी जाति गोस्वामी सा देह	231	1	190	47
179	बनवारी पिता दशरथगीरी संतोषीबाई पति बनवारीगीरी जाति गोस्वामी सा देह	231	1	191	47
180	शोभाराम पिता गंगाराम भूरीबाई पति शोभाराम जाति तेली सा देह	231	1	192	69
181	रामेश्वर पिता शोभाराम कंचनबाई पति रामेश्वर जाति तेली सा देह	231	1	193	66
182	शेरखौ पिता कालेखौ मुमताजबी पति शेरखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	194	38
183	सार्वजनिक मस्जिद मुस्लिम जमात सा देह	231	1	195	60
184	मंगतु खौ पिता रमझानखौ जैतुनबी पति मंगतुखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	196	41
185	फकीरा पिता रमझानखौ सकुबी पति फकीरा जाति पिंजारा सा देह	231	1	197	43
186	इमामखौ पिता मंगुखौ गुलाबबी पति इमामखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	198	6
187	कादरखौ पिता मंगुखौ सकुनबी पति कादरखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	199	122
188	कैलाश पिता शोभाराम सेवन्तीबाई पति कैलाश जाति तेली सा देह	231	1	200	68
189	रणछोड पिता बाबू लक्ष्मीबाई पति रणछोड जाति सा देह	231	1	201	122
190	आनन्दराम पिता हीरालाल गीताबाई पति आनन्दराम जाति तेली सा देह	231	1	202	127
191	मांगीबाई बेवा गेंदालाल कमलेश पिता गोपाल जाति तेली सा देह	231	1	203	16
192	गोपाल पिता गेंदालाल गुलाबबाई पति गोपाल जाति तेली सा देह	231	1	204	69
193	संतोष पिता नारायण संगीताबाई पति संतोष जाति तेली सा देह	231	1	205	66

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
194	રામેશ્વર પિતા નારાયણ સાવિત્રીબાઈ પતિ રામેશ્વર જાતિ તેલી સા દેહ	231	1	206	182
195	કાલૂખોં પિતા હુરમતખોં જમિલાબી પતિ કાલૂખોં જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	207	42
196	અસરફખોં પિતા ગફુરખોં જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	208	36
197	ફિરોજખોં પિતા મુંશીખોં જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	209	34
198	ઇમામખોં પિતા મંગુખોં ગુલાબબી પતિ ઇમામખોં જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	210	44
199	બાબુ થિતા અભિમન્યુ સાઇનબી પતિ બાબુ જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	211	50
200	રજાકર્ખોં પિતા નવાબખોં જમિલીબી પતિ રજાકર્ખોં જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	212	18
201	હજરાબી બેવા ઇમામખોં જાતિ પિંજારા સા દેહ	231	1	213	21
202	ગોપાલ પિતા દેવરામ મુન્નીબાઈ પતિ ગોપાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	215	96
203	સુરેશ પિતા રૂપચંદ કુસુમબાઈ પતિ સુરેશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	216	63
204	મહેશ પિતા પ્રેમલાલ નિર્મિલાબાઈ પતિ મહેશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	217	63
205	જગદીશ પિતા ભાઈરામ મમતાબાઈ પતિ જગદીશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	218	63
206	મિશ્રીલાલ પિતા ભીલૂ મમતાબાઈ પતિ મિશ્રીલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	219	64
207	રામેશ્વર પિતા ભાઈરામ સંતોષબાઈ પતિ રામેશ્વર જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	220	64
208	રાજારામ પિતા નત્થૂજી શાવિત્રીબાઈ પતિ રાજારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	221	150
209	ઓમપ્રકાશ પિતા રાજારામ સંગીતાબાઈ પતિ ઓમપ્રકાશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	222	166
210	નવલગિર પિતા ભેર્લગિર અનિતાબાઈ પતિ નવલગિર જાતિ ગોસ્વામી સા દેહ	231	1	223	34
211	ગોપાલગિર પિતા ભેર્લગિર કિરણબાઈ પતિ ગોપાલગિર જાતિ ગોસ્વામી સા દેહ	231	1	225	122
212	અશોક પિતા દશરથગિર લલીતાબાઈ પતિ અશોક જાતિ ગોસ્વામી સા દેહ	231	1	226	87
213	બનવારીગિર પિતા દશરથગિર સંતુબાઈ પતિ બનવારીગિર જાતિ ગોસ્વામી સા દેહ	231	1	227	54
214	ભોલૂગિર પિતા ભેર્લગિર ભરીબાઈ પતિ ભોલૂગિર જાતિ ગોસ્વામી સા દેહ	231	1	228	75
215	રાધેશ્યામ પિતા સખારામ ભગવતીબાઈ પતિ રાધેશ્યામ જાતિ સા દેહ	231	1	229	106
216	કપૂરચંદ પિતા ચંપાલાલ કવિતાબાઈ પતિ કપૂરચંદ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	230	40
217	પ્રેમલાલ પિતા ચેતરામ જમનાબાઈ પતિ પ્રેમલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	231	40
218	ગોપાલ પિતા દેવરામ મુન્નીબાઈ પતિ ગોપાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	232	81
219	સૌદાન પિતા તાપીરામ મંગીતાબાઈ પતિ સૌદાન જાતિ મૌર્ય સા દેહ	231	1	234	28
220	શેરુ પિતા શંકર બનારસબાઈ પતિ શેરુ જાતિ મૌર્ય સા દેહ	231	1	235	34
221	ગણપત પિતા સીતારામ ગુલાબબાઈ પતિ ગણપત જાતિ મૌર્ય સા દેહ	231	1	236	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
222	शिवराम पिता देवराम रुकमणीबाई पति शिवराम जाति गुजर सा देह	231	1	237	85
223	महेश पिता चेतराम संगीताबाई पति महेश जाति गुजर सा देह	231	1	238	33
224	चेतराम पिता देवराम भगवतीबाई पति चेतराम जाति गुजर सा देह	231	1	239	54
225	नारायण पिता परसराम प्रीतीबाई पति नारायण जाति गुजर सा देह	231	1	240	54
226	प्रेमलाल पिता चेतराम जमनाबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	1	241	52
227	राधेश्याम पिता सखाराम भगवतीबाई पति राधेश्याम जाति गुजर सा देह	231	1	242	42
228	शेरखौ पिता कालेखौ मुमताजबी पति शेरखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	243	31
229	भेरुगिर पिता शंकरगिर शांताबाई पति भेरुगिर जाति गोरखामी सा देह	231	1	244	37
230	शिवराम पिता देवराम रुकमणीबाई पति शिवराम जाति गुजर सा देह	231	1	245	49
231	शिवराम चेतराम पिता देवराम रुकमणीबाई पति शिवराम भगवतीबाई पति चेतराम जाति गुजर सा देह	231	1	246	71
232	प्रेमलाल पिता नारायण जानकीबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	1	247	26
233	राधेश्याम पिता रूपचंद लक्ष्मीबाई पति राधेश्याम जाति गुजर सा देह	231	1	248	61
234	खातुनबी बेवा बक्खुखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	250	31
235	लतीफखौ पिता बक्खुखौ कानुनबी पति लतीफखौ जाति पिंजारा सा देह	231	1	251	64
236	गंगाराम पिता रेवाराम सावित्रीबाई पति गंगाराम जाति गुजर सा देह	231	1	252	78
237	चिंताराम पिता रेवाराम कुसुमबाई पति चिंताराम जाति गुजर सा देह	231	1	253	78
238	परसराम पिता रेवाराम इन्द्राबाई पति परसराम जाति गुजर सा देह	231	1	254	102
239	यशवंतसिंह पिता मलखौनसिंह सुनिताबाई पति यशवंतसिंह जाति परिहार सा देह	231	1	255	15
240	अखिलेश पिता मलखौनसिंह सुनिताबाई पति अखिलेश जाति ठाकुर सा देह	231	1	256	24
241	सुमनबाई बेवा मलखौनसिंह महेश पिता मलखौनसिंह चंदाबाई पति महेश जाति ठाकुर सा देह	231	1	257	85
242	सुखदेव बलीराम पिता टंटूजी सजनबाई पति सुखदेव जाति सेन	231	1	258	102
243	केशरीलाल पिता भाईराम रुकमणीबाई पति केशरीलाल जाति गुजर सा देह	231	1	259	106
244	कपूरचंद पिता चंपालाल कविताबाई पति कपूरचंद जाति गुजर सा देह	231	1	260	66
245	राधेश्याम पिता हीरालाल सुशीलाबाई पति राधेश्याम जाति गुजर सा देह	231	1	261	78
246	गोदावरीबाई बेवा हीरालाल मंगत पिता शंभू लीलाबाई पति मंगत जाति नाई सा देह	231	1	262	193

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
247	सङ्गु पिता लक्ष्मणजी गीताबाई पति सङ्गुजी जाति राठौड सा देह	231	1	263	198
248	एडूजी पिता टूटाजी रेवाबाई पति एडूजी जाति राठौड सा देह	231	1	264	74
249	गणेश पिता एडूजी कंचनबाई पति गणेश जाति राठौड सा देह	231	1	265	74
250	मिश्रीलाल पिता आनन्दराम रेशमबाई पति मिश्रीलाल जाति गुजर सा देह	231	1	266	115
251	छगन पिता नत्थू तिलोकीबाई बसन्तीबाई पति छगन जाति गुजर सा देह	231	1	267	115
252	पूनमचंद पिता ओंकार किरणबाई पति पूनमचंद जाति गुजर सा देह	231	1	268	64
253	रुपचंद पिता आपाजी कुसुमबाई पति रुपचंद जाति गुजर सा देह	231	1	269	64
254	प्रेमलाल पिता चेतराम जमनाबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	1	271	39
255	नन्दराम पिता कुवरजी नीलाबाई पति नन्दराम जाति गुजर सा देह	231	1	272	39
256	केशरीलाल पिता भाईराम रुकमणीबाई पति केशरीलाल जाति गुजर सा देह	231	1	273	39
257	महेश पिता गुलाबचंद मीराबाई पति महेश जाति गुजर सा देह	231	1	274	20
258	चिंताराम पिता रेवाराम कुसुमबाई पति चिंताराम जाति गुजर सा देह	231	1	275	28
259	नन्दराम पिता कुवरजी नीलाबाई पति नन्दराम जाति गुजर सा देह	231	1	276	118
260	भगवान पिता भाईराम जसोदाबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	1	277	115
261	नीलाबाई पति शिवनारायण जाति गुजर सा देह	231	1	278	115
262	मिश्रीलाल पिता भाईराम मांगीबाई पति मिश्रीलाल जाति गुजर सा देह	231	1	279	135
263	भोलेनाथ पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	280	108
264	नन्दकिशोर पिता मोजीलाल प्रमिलाबाई पति नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	281	155
265	पूनमचंद पिता एडूजी राधाबाई पति पूनमचंद जाति गुजर सा देह	231	1	282	78
266	धन्नालाल पिता एडूजी प्रमिलाबाई पति धन्नालाल जाति गुजर सा देह	231	1	283	90
267	एडूजी पिता बोमाजी मंगतीबाई पति एडूजी जाति गुजर सा देह	231	1	284	43
268	मुकेश पिता लखनलाल आरतीबाई पति मुकेश जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	285	89
269	पुष्पाबाई बेवा लखनलाल जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	286	55
270	बंशीधर पिता गणपतराव जीवनलताबाई पति बंशीधर जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	287	116
271	राजेश पिता बंशीधर अनिताबाई पति राजेश जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	288	97
272	रितेश पिता रमेशचंद सीमाबाई पति रितेश जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	289	55
273	प्रमोद पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण सा देह	231	1	290	31
274	बिहारी पिता दशरथ शारदाबाई पति बिहारी जाति गुजर सा देह	231	1	291	49
275	बालूजी पिता तुकाराम सुशीलाबाई पति बालूजी जाति गुजर सा देह	231	1	292	49
276	मिश्रीलाल पिता तुकाराम सुशीलाबाई पति मिश्रीलाल जाति गुजर सा देह	231	1	293	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
277	શિવરામ પિતા મંગત્યા સુરજબાઈ પતિ શિવરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	294	71
278	ભગવાન પિતા મંગત્યા કમલાબાઈ પતિ મંગત્યા જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	295	71
279	જિતેન્દ્ર પિતા બલીરામ પ્રમિલાબાઈ પતિ જિતેન્દ્ર જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	296	72
280	નથ્યુ પિતા દગડૂ જાતિ સા દેહ	231	1	298	78
281	દુલિચંદ પિતા દગડૂ સીતાબાઈ પતિ દુલિચંદ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	299	90
282	રામનારાયણ પિતા દગડૂ કમલાબાઈ પતિ રામનારાયણ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	300	78
283	પ્રેમલાલ પિતા ગોપાલ તુલસીબાઈ પતિ પ્રેમલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	301	59
284	નારાયણ પિતા ગોપાલ મીરાબાઈ પતિ નારાયણ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	302	59
285	રાજેશ પિતા ગુલાબચન્દ ચન્દુબાઈ પતિ રાજેશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	303	64
286	હીરાલાલ પિતા ગંગારામ સુન્દરબાઈ પતિ હીરાલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	304	60
287	રાધેશ્યામ પિતા મહાદેવ રાધિકાબાઈ પતિ રાધેશ્યામ જાતિ બ્રાહ્મણ સા દેહ	231	1	305	80
288	સીતારામ પિતા દૌલાજી ધુમાબાઈ પતિ સીતારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	306	143
289	બસન્તીબાઈ બેવા શ્યામરાવ જાતિ બ્રાહ્મણ સા દેહ	231	1	307	80
290	ફુન્દાબાઈ બેવા પરસરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	308	27
291	બસુબાઈ બેવા પરસરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	309	34
292	શિવરામ પિતા દશરથ નાનીબાઈ પતિ શિવરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	310	81
293	બલીરામ પિતા હીરાલાલ સકુબાઈ પતિ બલીરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	311	80
294	અકલેશ પિતા લખનલાલ પદમાબાઈ પતિ અખિલેશ જાતિ બ્રાહ્મણ સા દેહ	231	1	312	115
295	ગુલાબચન્દ પિતા ગંગારામ ગેંડાબાઈ પતિ ગુલાબચન્દ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	313	102
296	તુલસીરામ પિતા ગુલાબચન્દ જાનકીબાઈ પતિ તુલસીરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	314	102
297	રાકેશ પિતા બંશીધર અંશુબાઈ પતિ રાકેશ જાતિ બ્રાહ્મણ સા દેહ	231	1	315	116
298	સેવકરામ પિતા ગુલાબચન્દ કંચનબાઈ પતિ સેવકરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	316	102
299	હીરાસિંહ પિતા લક્ષ્મણસિહ ચન્દ્રકલાબાઈ પતિ હીરાસિંહ જાતિ ઠાકુર સા દેહ	231	1	317	48
300	ભગવાનસિંહ પિતા હીરાસિંહ ભારતીબાઈ પતિ ભગવાનસિંહ જાતિ ઠાકુર સા દેહ	231	1	318	45
301	કલ્લૂસિંહ પિતા ભીમસિંહ સીમાબાઈ પતિ કલ્લૂસિંહ જાતિ ઠાકુર સા દેહ	231	1	319	24
302	ભીમસિંહ પિતા લક્ષ્મણસિહ રાજુબાઈ પતિ ભીમસિંહ જાતિ ઠાકુર જાતિ સા દેહ	231	1	320	56
303	સુરેશસિંહ પિતા રામનારાયણસિહ વંદનાબાઈ પતિ સુરેશસિંહ જાતિ ઠાકુર સા દેહ	231	1	321	280

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
304	शिवराजसिंह पिता सुरेशसिंह नीतूबाई पति शिवराजसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	322	62
305	डालूराम पिता हुकुमचंद कमलाबाई पति डालूराम जाति गुजर सा देह	231	1	323	103
306	शेरू पिता देवराम प्रेमबाई पति शेरू जाति राठोड सा देह	231	1	324	103
307	गणेश पिता एडूजी कंचनबाई पति गणेश जाति राठोड सा देह	231	1	325	114
308	गोपाल पिता एडूजी अनिताबाई पति गोपाल जाति राठोड सा देह	231	1	326	102
309	मोहनलाल पिता सडूजी ममताबाई पति मोहनलाल जाति राठोड सा देह	231	1	327	107
310	कुम्तीबाई बेवा मोरसिंह सुल्तानसिंह पिता मोरसिंह सवित्रीबाई पति सुल्तानसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	330	42
311	करणसिंह पिता मोरसिंह ताराबाई पति करणसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	331	42
312	घीसीबाई बेवा मांगीलाल किशोर पिता मांगीलाल जाति सोनी सा देह	231	1	332	50
313	दुलिचंद पिता मांगीलाल दुर्गाबाई पति दुलिचंद जाति सोनी सा देह	231	1	333	50
314	कैलाश पिता हीरालाल देवकीबाई पति कैलाश जाति गुजर सा देह	231	1	334	85
315	चंपाबाई बेवा हीरालाल जाति गुजर सा देह	231	1	335	50
316	लखन पिता फत्तु दुर्गाबाई पति लखन जाति गुजर सा देह	231	1	336	70
317	रघुवीर पिता दीनानाथ ममताबाई पति रघुवीर जाति तेली सा देह	231	1	337	32
318	अमरसिंह पिता जालमसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	338	85
319	राजुबाई बेवा सुकदेवसिंह दिलीपसिंह पिता सुकदेवसिंह दुर्गाबाई पति दिलीपसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	339	65
320	जसवंतीबाई बेवा दिलीपसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	340	18
321	सुमेरसिंह पिता पुरनसिंह मंजुलाबाई पति सुमेरसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	341	20
322	अशोक पिता दीनानाथ संजूलाबाई पति अशोक जाति तेली सा देह	231	1	342	50
323	देवराम पिता टूटाजी जाति तेली सा देह	231	1	343	42
324	जगदीश पिता देवराम मायाबाई पति जगदीश जाति तेली सा देह	231	1	344	42
325	शिवशंकर पिता गणपत संतोषबाई पति शिवशंकर जाति तेली सा देह	231	1	345	85
326	अमराजी पिता टीकाराम कलाबाई पति अमराजी जाति गुजर सा देह	231	1	346	82
327	कडवाजी पिता टिकाराम गिरजाबाई पति कडवाजी जाति गुजर सा देह	231	1	347	75
328	कालीबाई बेवा बाबूखों जाति पिंजारा सा देह	231	1	348	64
329	कैलाश पिता गेंदालाल कलाबाई पति कैलाश जाति मौर्य सा देह	231	1	349	144
330	महेश पिता कडवाजी रुकमणीबाई पति महेश जाति गुजर सा देह	231	1	350	30
331	सीताराम पिता अमराजी प्रमिलाबाई पति सीताराम जाति तेली सा देह	231	1	351	38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
332	महेन्द्र पिता शिवशंकर संगीताबाई पति महेन्द्र जाति तेली सा देह	231	1	352	35
333	बलवंत पिता गंगाराम संतुबाई पति बलवंत जाति केवट सा देह	231	1	353	86
334	लाडकीबाई बेवा गंगाराम जाति केवट सा देह	231	1	354	176
335	गणेश पिता तुलसीराम सजनबाई पति गणेश जाति मौर्य सा देह	231	1	355	70
336	जसवंतीबाई बेवा दिलीपसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	356	74
337	तिलोकचंद पिता गणपत रेशमबाई पति तिलोकचंद जाति गुजर सा देह	231	1	357	155
338	अशोक पिता फत्तू मांगीबाई पति अशोक जाति गुजर सा देह	231	1	358	142
339	किशोर पिता नानाजी संतोषबाई पति किशोर जाति गुजर सा देह	231	1	359	27
340	मिश्रीलाल पिता नानाजी कुसुमबाई पति मिश्रीलाल जाति गुजर सा देह	231	1	360	29
341	गुलाबचंद पिता नानाजी सकुबाई पति गुलाबचंद जाति गुजर सा देह	231	1	361	35
342	रामकुवरबाई बेवा रामाजी जाति गुजर सा देह	231	1	362	15
343	प्रेमलाल पिता शोभाराम शारदाबाई पति प्रेमलाल जाति तेली सादेह	231	1	363	95
344	देवराम पिता दुटाजी जाति तेली सा देह	231	1	365	60
345	प्रभु पिता जगदीश जाति सा देह	231	1	366	85
346	शासकीय बालक प्राथमिक विधालय भटयाण बुजुर्ग अतिरिक्त कक्ष	231	1	367	43
347	शासकीय बालक प्राथमिक विधालय	231	1	368	128
348	शासकीय प्राथमिक विधालय व शा. बा. प्रा.शा. किचन	231	1	370	6
349	विजयसिंह पिता मोरसिंह अंजुलाबाई पति विजयसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	371	523
350	कल्पनाबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	372	189
351	कालीबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	231	1	373	108
352	रणजीत पिता बाबूलाल जाति बलाई सा देह	231	1	374	175
353	बाबूलाल पिता पिल्या लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल जाति बलाई सा देह	231	1	375	92
354	कालीबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	231	1	376	103
355	सजनबाई बेवा पिल्या जाति बलाई सा देह	231	1	377	68
356	योगेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	378	404
357	कल्पनाबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	379	388
358	योगेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	380	175
359	देवकीबाई बेवा कडवा जाति बलाई सा देह	231	1	381	43
360	रेखांबाई बेवा दिलीप जाति बलाई सा देह	231	1	382	39
361	सुभाष पिता गुलाबचंद जतनबाई पति सुभान जाति बलाई सा देह	231	1	383	30
362	कैलाश पिता सुभान कंचनबाई पति कैलाश जाति बलाई सा देह	231	1	384	27
363	रामचंद्र पिता सोबान अंजूबाई पति रामचंद्र जाति बलाई सा देह	231	1	385	21
364	संतोष पिता सोबान मंजूबाई पति संतोष जाति बलाई सा देह	231	1	386	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
365	सकुबाई बेवा जगदीश जाति बलाई सा देह	231	1	387	34
366	योगेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह कल्पनाबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	388	168
367	शंकर मंदिर त्रिवेणी व्यवस्थापक सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	389	25
368	शिवसिंह पिता भेलसिंह कृष्णबाई पति शिवसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	391	130
369	यशवंतसिंह पिता शिवसिंह दीपमाला पति यशवंतसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	392	81
370	संतोषसिंह पिता शिवसिंह सीमाबाई पति संतोषसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	1	393	77
371	हुकुम पिता फत्तूजी द्वारकीबाई पति हुकुम जाति गुजर सा देह	231	1	394	91
372	शेरू पिता रामाजी कडवीबाई पति शेरू जाति गुजर सा देह	231	1	395	81
373	नानक्या पिता चंपालाल कलाबाई पति नानक्या जाति गुजर सा देह	231	1	396	72
374	भगवान पिता भुवानीराम संतोषबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	1	397	203
375	प्रेमलाल पिता देवराम दुर्गाबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	1	398	34
376	कालूराम पिता देवराम बसन्तीबाई पति कालूराम जाति गुजर सा देह	231	1	399	61
377	बाकाजी पिता देवराम जसोदाबाई पति बाकाजी जाति गुजर सा देह	231	1	400	38
378	दुलीचंद पिता देवराम भागवतबाई पति दुलिचंद जाति गुजर सा देह	231	1	401	34
379	भुवानी माता चौक बलाई समाज सा देह	231	1	403	102
380	धवलीबाई बेवा नारायण जाति बलाई सा देह	231	1	404	120
381	सुशीलाबाई बेवा भाईराम जाति बलाई सा देह	231	1	405	27
382	जयराम पिता चंपालाल जाति सा देह	231	1	406	72
383	सुशीलाबाई बेवा भाईराम जाति बलाई सा देह	231	1	407	47
384	शिवराम पिता गणपत रुसीबाई पति शिवराम जाति बलाई सा देह	231	1	408	34
385	रेशमबाई बेवा सुकलाल जाति बलाई सा देह	231	1	409	55
386	धन्नालाल पिता गणपत लक्ष्मीबाई पति धन्नालाल जाति बलाई सा देह	231	1	410	63
387	रामलाल पिता धीस्या सावित्रीबाई पति रामलाल जाति बलाई सा देह	231	1	411	102
388	हुकुम पिता परसया दुर्गाबाई पति हुकुम जाति बलाई सा देह	231	1	412	69
389	नीलाबाई बेवा श्यामलाल ताराबाई बेवा कमलेश रमेश पिता श्यामलाल दिनेश पिता श्यामलाल जाति बलाई सा देह	231	1	413	52
390	बिरजू पिता लक्ष्मण कृष्णबाई पति बिरजू जाति बलाई सा देह	231	1	414	37
391	गुलाबचंद पिता लक्ष्मण पारुबाई पति गुलाबचंद जाति बलाई सा देह	231	1	415	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
392	शांताबाई बेवा लक्ष्मण जाति बलाई सा देह	231	1	416	30
393	सुभाष पिता सडू कालीबाई पति सुभाष जाति बलाई सा देह	231	1	418	79
394	कालीबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	231	1	419	67
395	कालू पिता पिल्या धीसीबाई पति कालू जाति बलाई सा देह	231	1	420	139
396	सुनिल पिता देवराम रुकमणीबाई पति सुनिल जाति बलाई सा देह	231	1	421	48
397	देवराम पिता पिल्या मुन्नीबाई पति देवराम जाति बलाई सा देह	231	1	422	55
398	कालू पिता पिल्या जाति बलाई सा देह	231	1	425	103
399	देवराम पिता पिल्या जाति बलाई सा देह	231	1	426	101
400	महेश पिता लखन ममताबाई पति महेश जाति बलाई सा देह	231	1	427	15
401	सार्वजनिक चमड़ा निकालने का रथान	231	1	428	130
402	अनिल पिता लखन बबीता पति अनिल जाति बलाई सा देह	231	1	429	47
403	सोनाबाई बेवा बाबू जाति बलाई सा देह	231	1	430	35
404	जगन्नाथ पिता रामा बिनाबाई पति जगन्नाथ जाति चमार सा देह	231	1	431	36
405	महेश पिता लखन ममताबाई पति महेश जाति बलाई सा देह	231	1	432	47
406	अमरसिंह पिता शंकर रेशमबाई पति अमरसिंह जाति बलाई सा देह	231	1	433	116
407	गेंदबाई बेवा बाबू जाति चमार सा देह	231	1	434	44
408	सुरेश पिता कालूराम लक्ष्मीबाई पति सुरेश जाति चमार सा देह	231	1	435	45
409	दुर्गामाता मंदिर सार्वजनिक बलाई समाज सा देह	231	1	438	25
410	नबीबाई बेवा गणपत जाति बलाई सा देह	231	1	439	52
411	नेनसिंह पिता बूटाजी संगीताबाई पति नेनसिंह जाति बलाई सा देह	231	1	440	57
412	पदम पिता बूटाजी रेशमबाई पति पदम जाति बलाई सा देह	231	1	441	36
413	नत्थीबाई बेवा बोखार जाति बलाई सा देह	231	1	442	43
414	रुखेडिया पिता रामा राधाबाई पति रुखेडिया जाति बलाई सा देह	231	1	443	44
415	सलिताबाई बेवा रामा जाति बलाई सा देह	231	1	444	64
416	छितू पिता नार्या सुकईबाई पति छितू जाति बलाई सा देह	231	1	446	33
417	संतोष पिता नारायण अंजूबाई पति संतोष जाति बलाई सा देह	231	1	447	123
418	मुकेश पिता धन्नालाल प्रेमबाई पति मुकेश जाति बलाई सा देह	231	1	448	37
419	कडवाजी पिता बंश्या रामकुवरबाई पति कडवाजी जाति बलाई सा देह	231	1	449	34
420	मंगत्या पिता भील्या जीवनबाई पति मंगत्या जाति बलाई सा देह	231	1	450	45
421	कालू पिता रामा काशीबाई पति कालू जाति चमार सा देह	231	1	451	57
422	चुन्नीलाल पिता जगन्नाथ हीरबाई पति चुन्नीलाल जाति चमार सा देह	231	1	452	57
423	आनन्दराम पिता चुन्नीलाल सुनिताबाई पति आनन्दराम जाति चमार सा देह	231	1	453	51
424	धन्नालाल पिता मांगीया झानाबाई पति धन्नालाल जाति बलाई सा देह	231	1	455	173

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
425	मनोहर पिता धन्नालाल शावित्रीबाई पति मनोहर जाति बलाई सा देह	231	1	456	48
426	बसन्त पिता बांगा शावित्रीबाई पति बसन्त जाति बलाई सा देह	231	1	458	32
427	जैराम पिता चंपालाल सलिताबाई पति जैराम जाति बलाई सा देह	231	1	459	15
428	राधेश्याम पिता बांगा गौरीबाई पति राधेश्याम जाति बलाई सा देह	231	1	460	25
429	एडू पिता हरचन्द बसुबाई पति एडू जाति बलाई सा देह	231	1	461	87
430	मांगीलाल पिता नारायण सीमाबाई पति मांगीलाल जाति बलाई सा देह	231	1	462	79
431	मदन पिता शोभाराम बसन्तीबाई पति मदन जाति बलाई सा देह	231	1	463	42
432	राकेश पिता मदन सुमनबाई पति राकेश जाति बलाई सा देह	231	1	464	29
433	देवराम पिता सोम्मारिया जाति बलाई सा देह	231	1	465	61
434	नादानबाई बेवा शंकर जाति बलाई सा देह	231	1	467	43
435	बालूराम पिता शंकर जसुबाई पति बालूराम जाति बलाई सा देह	231	1	468	94
436	नारायण पिता देवराम लक्ष्मीबाई पति नारायण जाति बलाई सा देह	231	1	469	24
437	प्यारा पिता धीसा जानकीबाई पति प्यारा जाति बलाई सा देह	231	1	470	261
438	बाला पिता धीस्या जाति बलाई सा देह	231	1	471	263
439	कालू पिता बाला दुर्गाबाई पति कालू जाति बलाई सा देह	231	1	472	72
440	जगदीश पिता शेरू अनुबाई पति जगदीश जाति बलाई सा देह	231	1	473	45
441	सुशीलाबाई गंगाबाई बेवा करसन दल्या पिता करसन रेखाबाई पति दल्या जाति बलाई सा देह	231	1	474	24
442	शांतीलाल पिता भील्या सकुबाई पति शांतीलाल जाति बलाई सा देह	231	1	475	28
443	अमरसिंह पिता राजला पारुबाई पति अमरसिंह जाति बलाई सा देह	231	1	476	24
444	संतोष पिता नहांरु रामकन्या पति संतोष जाति बलाई सा देह	231	1	477	27
445	रमेश पिता राजला रुकमणीबाई पति रमेश जाति बलाई सा देह	231	1	478	25
446	दुलीचंद पिता देवकरण संतूबाई पति दुलीचंद जाति गूजर सा देह	231	1	480	82
447	रामचंद पिता देवकरण पारवतीबाई पति देवकरण जाति गुजर सा देह	231	1	481	79
448	दगड़बाबा पिता देवराम तुलसीबाई पति देवराम जाति गुजर सा देह	231	1	482	140
449	तिलोकचंद पिता देवकरण नानीबाई पति तिलोकचंद जाति गुजर सा देह	231	1	483	125
450	शिवराम पिता कडवा गीताबाई पति शिवराम जाति गुजर सा देह	231	1	484	58
451	मयाराम पिता कडवाजी निर्मलाबाई पति मयाराम जाति गुजर सा देह	231	1	485	58
452	जगदीश पिता रामेश्वर नीलाबाई पति जगदीश जाति गुजर सा देह	231	1	486	140
453	सेवकराम पिता लक्ष्मण दुरपताबाई पति सेवकराम जाति गुजर सा देह	231	1	487	86
454	रामेश्वर पिता लक्ष्मण भगवतीबाई पति रामेश्वर जाति गुजर सा देह	231	1	488	78
455	राधोराम पिता लक्ष्मण लाडकीबाई पति राधोराम जाति गुजर सा देह	231	1	489	78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
456	કુવરબાઈ બેવા લક્ષ્મણ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	490	84
457	દગડીબાઈ બેવા શંકર (પટેલ)જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	491	116
458	રાજેશ પિતા કન્હૈયાલાલ ઉર્મિલાબાઈ પતિ રાજેશજાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	492	143
459	લખન પિતા શિવરામ અર્ઝુણબાઈ પતિ લખન જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	493	65
460	તારાચંદ પિતા શોભારામ મંજુબાઈ પતિ તારાચંદ જાતિ સુતાર સા દેહ	231	1	494	70
461	રમુબાઈ પતિ શિવરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	495	100
462	કમલ પિતા આનન્દરામ કૃષ્ણબાઈ પતિ કમલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	496	70
463	ભગવાન પિતા ભુવાનીરામ સંતોષબાઈ પતિ ભુવાનીરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	498	116
464	ઉંકાર પિતા કડવા ઘીરીબાઈ પતિ ઉંકાર જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	499	78
465	જગદીશ પિતા રામેશ્વર નીલાબાઈ પતિ જગદીશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	500	90
466	રેવારામ પિતા નાનકયા શાંતાબાઈ પતિ રેવારામ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	501	43
467	તુલારામ પિતા નાનકયા સજનબાઈ પતિ તુલારામ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	502	43
468	આશારામ પિતા નાનકયા ગ્યારસબાઈ પતિ આશારામ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	503	41
469	ગેંડાલાલ પિતા કાન્યા કવેરીબાઈ પતિ ગેંડાલાલ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	504	90
470	છિતૂ પિતા કરસન બસુબાઈ પતિ છિતૂ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	505	106
471	બનસિંહ પિતા નત્થુ દ્રોપતાબાઈ પતિ બનસિંહ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	506	46
472	ઘનશ્યામ પિતા નત્થુ ચંપાબાઈ પતિ ઘનશ્યામ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	507	32
473	મંશારામ પિતા નત્થુ તુલસાબાઈ પતિ મંશારામ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	508	25
474	ગ્યારસબાઈ બેવા રાધોરામ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	510	60
475	પણ્ણૂ પિતા બનસિંગ કાલીબાઈ પતિ પણ્ણૂ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	511	58
476	કડવા પિતા ગેંડાલાલ દુર્ગાબાઈ પતિ કડવા જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	512	7
477	બબલૂ પિતા રેવારામ સર્ગીતાબાઈ પતિ બબલૂ જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	513	25
478	સુન્દરબાઈ બેવા કરસન જાતિ બલાઈ સા દેહ	231	1	514	23
479	તિલોકચન્દ પિતા દેવકરણ નાનીબાઈ પતિ તિલોકચન્દ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	516	80
480	ગણેશ પિતા રામચંદ રેખાબાઈ પતિ ગણેશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	518	57
481	પાર્વતીબાઈ પતિ રામચંદ્ર જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	519	17
482	સંતુબાઈ પતિ દૂલિચંદ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	520	17
483	દુલિચંદ પિતા દેવરામ ભાગવતબાઈ પતિ દુલિચંદ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	522	54
484	કાલૂરામ પિતા દેવરામ બસન્તીબાઈ પતિ કાલૂરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	1	523	79
485	નારાયણ પિતા ગોપાલ મીરબાઈ પતિ નારાયણ જાતિ સા દેહ	231	1	524	130
486	ભગવાન પિતા ગોવિન્દ સુશીલાબાઈ પતિ ભગવાન જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	526	185
487	જગદીશ પિતા રામેશ્વર નીલાબાઈ પતિ જગદીશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	527	197

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
488	रामनारायण पिता दगडू कमलाबाई पति रामनारायण जाति गुजर सा देह	231	2	528	254
489	शिवराम पिता एडूजी उमाबाई पति शिवराम जाति गुजर सा देह	231	2	530	65
490	जगदीश पिता धनंजी नीलाबाई पति जगदीश जाति गुजर सा देह	231	2	532	143
491	रणजीतसिंह पिता कनकसिंह कान्तीबाई पति रणजीतसिंह जाति राजपूत सा देह	231	2	533	90
492	चैनसिंह पिता धनसिंह रेशमबाई पति चैनसिंह जाति राजपूत सा देह	231	2	534	75
493	प्यारसिंह पिता धनसिंह नीलाबाई पति प्यारसिंह जाति राजपूत सा देह	231	2	535	55
494	चन्द्रसिंह पिता धनसिंह गिरजाबाई पति चन्द्रसिंह जाति राजपूत सा देह	231	2	536	61
495	प्रेमबाई बेवा नारायणसिंह जाति राजपूत सा देह	231	2	537	148
496	शांताबाई बेवा मयाराम जाति गुजर सा देह	231	2	538	85
497	राधेश्याम पिता लक्ष्मण सुशीलाबाई पति राधेश्याम जाति राजपूत सा देह	231	2	539	95
498	सुजानबाई बेवा भुवानीराम भगवान पिता भुवानीराम द्रोपतीबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	2	540	155
499	सालकराम पिता आनन्दराम प्रेमलताबाई पति सालकराम जाति गुजर सा देह	231	2	541	62
500	बालकराम पिता आनन्दराम नन्दबाई पति बालकराम जाति गुजर सा देह	231	2	543	39
501	किशोर पिता आनन्दराम गुलवंतीबाई पति किशोर जाति गुजर सा देह	231	2	544	63
502	तापीराम पिता सखाराम नर्मदाबाई पति तापीराम जाति गुजर सा देह	231	2	545	70
503	चिंताराम पिता मयाराम राधाबाई पति चिंताराम जाति गुजर सा देह	231	2	546	50
504	लक्ष्मीबाई बेवा मंगत्या जाति गुजर सा देह	231	2	547	89
505	देवराम पिता सीताराम झारोकाबाई पति देवराम जाति गुजर सा देह	231	2	548	64
506	फुन्दाबाई बेवा पुनाजी जाति गुजर सा देह	231	2	549	34
507	दयाराम पिता पुनाजी नीलाबाई पति दयाराम जाति गुजर सा देह	231	2	550	58
508	अहिल्याबाई बेवा एडूजी जाति गुजर सा देह	231	2	551	90
509	नर्मदाशंकर पिता एडूजी कंचनबाई पति नर्मदाशंकर जाति गुजर सा देह	231	2	552	87
510	शिवराम पिता एडूजी उमाबाई पति शिवराम जाति गुजर सा देह	231	2	553	89
511	शिवराम पिता पुनाजी कुसुमबाई पति शिवराम जाति गुजर सा देह	231	2	554	84
512	सुभद्राबाई पति बलिराम जाति गुजर सा देह	231	2	555	36
513	धन्नीबाई बेवा आनन्दराम जाति गुजर सा देह	231	2	556	45
514	रामेश्वर पिता आनन्दराम कंचनबाई पति रामेश्वर जाति गुजर सा देह	231	2	557	39
515	नत्थीबाई बेवा नन्दराम जाति गुजर सा देह	231	2	558	63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
516	સુમનબાઈ બેવા જગદીશ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	559	85
517	રાધેશ્યામ પિતા દેવરામ મિઠીબાઈ પતિ રાધેશ્યામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	560	73
518	ઝબરલાલ પિતા દેવરામ કુસુમબાઈ પતિ દેવરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	561	67
519	સ્યાણીબાઈ બેવા તુકારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	562	71
520	ચેતરામ પિતા ભવાનીરામ કુહરબાઈ પતિ ચેતરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	563	52
521	ચિંતારામ પિતા હુકૂમચંદ સીમાબાઈ પતિ ચિંતારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	565	5
522	દુર્ગારામ પિતા ગેંડાલાલ ગેંડાબાઈ પતિ દુર્ગારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	566	70
523	શિવનારાયણ પિતા ગેંડાલાલ ગંગાબાઈ પતિ શિવનારાયણ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	567	62
524	રામેશ્વર પિતા ગેંડાલાલ નર્મદાબાઈ પતિ રામેશ્વર જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	568	61
525	ભિલટદેવ કા મંદિર વ્યવસ્થાપક રાકેશ પિતા ભલાજી જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	570	9
526	ભલાજી પિતા રેવારામ કંચનબાઈ પતિ ભલાજી જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	571	173
527	બાબુ પિતા રેવારામ કલાબાઈ પતિ બાબુ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	572	43
528	ભગવાન પિતા રેવારામ કુસુમબાઈ પતિ ભગવાન જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	573	93
529	બલિરામ પિતા રેવારામ કમલાબાઈ પતિ બલિરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	574	94
530	બસન્તીબાઈ બેવા મંગત જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	575	85
531	રાધેશ્યામ પિતા રેવારામ જડાવબાઈ પતિ રાધેશ્યામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	576	42
532	ઉંકાર પિતા રેવારામ કંચનબાઈ પતિ રેવારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	577	40
533	દગ્ઘૂ પિતા બોમાજી માંગીબાઈ પતિ દગ્ઘૂ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	578	85
534	દેવરામ પિતા માંગીલાલ લક્ષ્મીબાઈ પતિ દેવરામ જાતિ તેલી સા દેહ	231	2	579	106
535	ગોપાલ પિતા લાલજી દુરપતાબાઈ પતિ ગોપાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	580	125
536	કોમલબાઈ બેવા શેરુ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	581	48
537	લલ્લુ પિતા સીતારામ મુન્નીબાઈ પતિ લલ્લુ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	582	53
538	પુનીબાઈ બેવા નથ્ય જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	583	73
539	જમનાબાઈ બેવા પ્રેમલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	584	68
540	રામલાલ પિતા નથ્ય રેવાબાઈ પતિ રામલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	585	76
541	ગુલાબબાઈ બેવા ભુવાનીરામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	586	106
542	વિશાલ પિતા સીતારામ કલાબાઈ પતિ વિશાલ જાતિ કેવટ સા દેહ	231	2	587	140
543	ભગવાન પિતા સીતારામ શારદાબાઈ પતિ ભગવાન જાતિ કેવટ સા દેહ	231	2	588	74
544	પદમ પિતા ફત્તુ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	589	58
545	મિશ્રીલાલ પિતા પદમ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	590	47
546	કેશરીલાલ પિતા પદમ રેશમબાઈ પતિ કેશરીલાલ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	591	47
547	સરસ્વતીબાઈ બેવા રાજારામ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	592	65
548	એઢૂ પિતા રાજારામ કુસુમબાઈ પતિ એઢૂ જાતિ ગુજર સા દેહ	231	2	593	67

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
549	चंदू पिता श्रीराम रेशमबाई पति चंदू जाति गुजर सा देह	231	2	594	24
550	रामलाल पिता नथू रेवाबाई पति रामलाल जाति गुजर सा देह	231	2	598	270
551	तुलसीराम पिता दगडू बसन्तीबाई पति तुलसीराम जाति पाटीदार सा देह	231	2	599	54
552	दयाराम पिता सीताराम भागवतबाई पति दयाराम जाति गुजर सा देह	231	2	600	125
553	मोहनलाल पिता गोपाल मंजुबाई पति मोहनलाल जाति गुजर सा देह	231	2	601	135
554	कैलाश पिता रतन ममताबाई पति कैलाश जाति गुजर सा देह	231	2	602	303
555	घीसीबाई बेवा रतन जाति गुजर सा देह	231	2	603	156
556	राजेश पिता शिवनारायण ममताबाई पति राजेश जाति गुजर सा देह	231	2	605	105
557	चिंताराम पिता रेवाराम कुसुमबाई पति चिंताराम जाति गुजर सा देह	231	2	606	49
558	मिश्रीलाल भगवान पिता भाइराम मांगीबाई पति मिश्रीलाल जसोदाबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	2	607	142
559	गणपत पिता सीताराम गुलाबबाई पति गणपत जाति मोरी सा देह	231	2	609	85
560	शंकर पिता मांगीलाल जाति मोरी सा देह	231	2	610	21
561	भागवतबाई बेवा हुकूमचंद जाति गुजर सा देह	231	2	611	41
562	अनारबाई बेवा बिहारीलाल जाति सुतार सा देह	231	2	612	136
563	कमलबाई बेवा तापीराम जाति मोर्य सा देह	231	2	613	96
564	सार्वजनिक हनुमान मंदिर, शिव मंदिर एवं संत कुटी सा देह	231	2	614	94
565	नजीरनबी बेवा कालेखौं जाति पिंजारा सा देह	231	2	617	54
566	शेरखौं पिता कालेखौं मुमताजबी पति शेरखौं जाति पिंजारा सा देह	231	2	618	40
567	दरियाव, ध्रुवसिंह, प्रभुसिंह, कल्याण पिता नारायण, मकुबाई पति ध्रुवसिंह, रेखाबाई पति प्रभुसिंह, लताबाई पति कल्याण, जाति मोर्य सा देह	231	2	619	274
568	घीसीबाई बेवा राजाराम जाति गुजर सा देह	231	2	620	15
569	अमरसिंह पिता नारायण सुमनबाई पति अमरसिंह जाति मोरी सा देह	231	2	621	56
570	हुकुम पिता छितु नर्मदाबाई पति हुकुम जाति गुजर सा देह	231	2	622	89
571	गजानन्द पिता भगवान कुसुमबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	2	623	147
572	लक्ष्मीबाई बेवा रेवाराम जाति मोर्य सा देह	231	2	625	122
573	शेरू पिता आनन्दराम जाति मोर्य सा देह	231	2	626	55
574	भगवान पिता आनन्दराम रेखाबाई पति भगवान जाति मोर्य सा देह	231	2	627	62
575	राकेश पिता सीताराम सुजाताबाई पति राकेश जाति गुजर सा देह	231	2	628	67
576	लक्ष्मीबाई बेवा रेवाराम जाति मोर्य सा देह	231	2	629	76
577	किशोर पिता रेवाराम कुंताबाई पति किशोर जाति मोर्य सा देह	231	2	630	167
578	रामेश्वर पिता जयराम सुन्दरबाई पति रामेश्वर जाति गुजर सा देह	231	2	631	104

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
579	रेवागुजर धर्मशाला अध्यक्ष ओमप्रकाश पिता चेतराम , मिश्रीलाल पिता तुकाराम भगवान पिता भाइराम बालकराम पिता आनन्दराम रामेश्वर पिता जयराम जाति गुजर सा देह	231	2	632	87
580	जयराम पिता हीरालाल रमुबाई पति जयराम जाति गुजर सा देह	231	2	633	123
581	अमराजी पिता गणपत रेवाबाई पति अमराजी जाति गुजर सा देह	231	2	634	17
582	प्रेमलाल पिता गणपत संजूबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	2	635	18
583	मिश्रीलाल पिता तुकाराम सुशीलाबाई पति मिश्रीलाल जाति गुजर सा देह	231	2	637	60
584	योगेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह कल्पनाबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	2	639	32
585	सुरेशसिंह पिता रामनारायणसिंह वंदनाबाई पति सुरेशसिंह जाति ठाकुर सा देह	231	2	640	30
586	दिनेश पिता शेरूजी कैलाशबाई पति दिनेश जाति गुजर सा देह	231	2	641	84
587	संतोष पिता दुलिचन्द रंजनाबाई पति संतोष जाति गुजर सा देह	231	2	642	85
588	रेवागुजर धर्मशाला सा देह	231	2	644	22
589	द्वारकीबाई बेवा बाबू जाति गुजर सा देह	231	2	645	91
590	लोभीराम पिता फत्तू धीसीबाई पति लोभीराम जाति गुजर सा देह	231	2	646	148
591	रामेश्वर पिता आपाजी नीलाबाई पति रामेश्वर जाति गुजर सा देह	231	2	647	101
592	मिश्रीलाल पिता हीरालाल इन्दूबाई पति मिश्रीलाल जाति सुतार सा देह	231	2	648	67
593	भगवान पिता गोविन्द सुशीलाबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	2	650	120
594	जोगेन्द्र पिता जगदीश भावनाबाई पति जोगेन्द्र जाति गुजर सा देह	231	2	651	68
595	भगवान पिता एडू सीमाबाई पति भगवान जाति गुजर सा देह	231	2	652	43
596	किशोर पिता मिश्रीलाल गुलाबचंद पिता नानाजी जाति गुजर सा देह	231	2	359/ 684	23
597	प्रेमलाल पिता गोपाल तुलसीबाई पति प्रेमलाल जाति गुजर सा देह	231	2	652/ 685	10
598	गबू पिता पुनमचंद जाति केवट सा देह	231	2	146/686	87
599	शिवा ओटला सार्वजनिक	3	3	656	18
600	बाबा निवास महंत नंदन भारती	3	3	657	265
601	ओटला सार्वजनिक	3	3	658	17
602	ओटला सार्वजनिक	3	3	659	16
603	ओटला त्रिवेणी सार्वजनिक	3	3	660	15
604	आश्रम महंत नंदन भारती	3	3	661	18
605	शिव पिंडी सार्वजनिक	3	3	662	8
606	नन्दी ओटला सार्वजनिक	3	3	663	6
607	शिव मंदिर सार्वजनिक	3	3	664	35
608	पानी की टंकी सार्वजनिक	3	3	665	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
609	आश्रम महंत नंदन भारती	3	3	666	17
610	शिव मंदिर सार्वजनिक	3	3	667	36
611	पानी की टंकी सार्वजनिक	3	3	668	8
612	शोभाराम पिता मुन्शीया जाति भील सा देह	478/6	4	673	28
613	देवराम पिता झेतरिया जाति भील सा देह	478/6	4	674	26
614	जगन पिता धुलिया जाति भील सा देह	478/6	4	675	21
615	झेतरिया पिता मांगीया जाति भील सा देह	478/6	4	676	15
616	बाबू पिता मांगीया जाति भील सा देह	478/6	4	677	13
617	लखन पिता झेतरिया जाति भील सा देह	478/6	4	678	13
618	लखन पिता झेतरिया जाति भील सा देह	478/6	4	679	14
619	मोड़िया पिता झेतरिया जाति भील सा देह	478/6	4	680	22
620	दीनानाथ पिता देवराम बसन्तीबाई पति दीनानाथ जाति तेली सा देह	231	1	337/ 683	32
621	लेन्डका माता मंदिर सार्वजनिक	478/7	4	671	4
		योग		621	45200

परिशिष्ट – 2
निजी कृषि भूमि पर स्थित संरचनाएं

अनु.क्र.	नाम मकान मालिक पिता का नाम	ख.नं.	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	अब्बास खां पिता भूरे खां मुण्डा	120	मकान
2	कन्हैया पिता शंकर गुजर	120	मकान
3	मोहन पिता पुनमचंद, मदन पिता देवीलाल कहार	133	मकान
4	कपूरचंद पिता चंपालाल गुजर	133	मकान
5	रामेश्वर पिता बलीराम गुजर	178	मकान
6	कैलाश पिता रामेश्वर गुजर	161	मकान
7	रामेश्वर पिता भीलाजी	161	मकान
8	श्याम पिता शिवराम गुजर	161	मकान
9	अशोक पिता द्वारकथा हरिजन	222	मकान
10	सीताराम पिता बाल्या हरिजन	222	मकान
11	अशोक पिता फत्तु गुजर	234	मकान
12	आशाराम पिता आपाजी गुजर	234	मकान
13	अमराजी पिता टिकाराम गुजर	239/1	मकान
14	शासकीय, बाथरूम पेशाबघर	240	मकान

(1)	(2)	(3)	(4)
15	तिलोकचंद पिता गणपत गुजर	240	मकान
16	तापीबाई बेवा गणपत गुजर	240	मकान
17	आशाराम पिता मोतीराम कहार	240	मकान
22	कैलाश पिता रामेश्वर गुजर	161	गोबर गैस
23	रामेश्वर पिता भलाजी गुजर	161	गोबर गैस
18	लोकेन पिता खुश्याल गुजर	185/2	मकान
19	खुश्याल पिता भुवानीराम गुजर	185/2	मकान
20	शेरू पिता रामा गुजर	193/1	मकान
21	लक्ष्मण पिता लाल्या भील	193/1	मकान

परिशिष्ट – 3
शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं

अनु.क्र.	ख.नं.	मद	संपत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	59	नि.चरागाह	मकान—29, पशुबाड़ा—2, डेरी—2, आश्रम—1, कुटिया—2, मंदिर—2, धर्मशाला—1, टप्पर—5, पाईपलाईन—123
2	60	ना.का.च.	ओटला—1,
3	200	नाला	मंदिर—1
4	209	ना.का.च.	मकान—23, टीनशेड—1, गोडाउन—1, धर्मशाला—2, सामुदायिक भवन—1, पशुबाड़ा—1

- 2 राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक ऐवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टी कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
- 3 कंपनी के भू-अर्जन आवेदन पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.09.2007 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 12-15/07/सात-2-ए भोपाल दिनांक 04.10.07 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है।
- 4 कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्ति व्यक्ति को ऐसी समर्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समर्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1 में वर्णित आबादी भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं तथा परिशिष्ट 2,3 में वर्णित संरचनाएं कंपनी को प्रदाय करेंगा, जो अनुमति में उल्लेखित निम्न शर्तों के अधीन होगा—
1. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
 2. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
 3. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा।
 4. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुर्नवास नीति में दिए गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी।
 5. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44ए)

6. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारते शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा, और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
 7. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी, तथा ऐसीं खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
 8. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
 9. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा।
 10. प्रदूषण नहीं किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस आशय के प्राप्त करना होगे कि, “पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा”।
 11. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।
 12. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
 13. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा।
 14. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
 15. शासन के प्रतिनिधि कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन/निर्माण आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 16. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें।
 17. प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रिम राशि कंपनी से शासन के खाते में जमा करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- (क) राज्य शासन कंपनी को आश्वस्त करता है कि भूमि और भूमि पर निर्मित भवन या अन्य निर्माण का मुआवजा मिल जाने पर प्राप्त राशि का उपयोग प्रभावित व्यक्ति नये पुनर्वास स्थल पर उसे आवंटित प्लाट पर मकान बनाने के लिए करेगा। यदि वह उसका उपरोक्त अनुसार उपयोग नहीं करता है, तो वह आंवटित स्थल पर मकान बनाने के लिए अन्य राशि और अनुदान राशि की मांग करने का अधिकारी नहीं होगा।
- (ख) राज्य शासन की अनुमति से कंपनी को दी गई भूमि एवं उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण से पुराने मालिक द्वारा नये पुनर्वास स्थल पर अपना मकान बनाने हेतु उपयोगी सामग्री ले जाने के बाद उसका उस भूमि और मकान पर कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह उस पर

अतिकमण/अधिपत्य रखता है, तो राज्य शासन उचित कार्यवाही कर उसे हटायेगा। जिसमें लगाने वाले व्यय के संदाय का उत्तरदायी भी होगा।

- (ग) रस्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
- (घ) इस अनुबंध पत्र की कंडिका 1 में उल्लेखित परिशिष्ट 1,2,3 में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्तियों के अर्जन के फलस्वरूप मूल्य निर्धारण में जो राज्य शासन द्वारा किया गया है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का निपटारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) द्वारा किया जावेगा, तथा अंतिम अपीलिय न्यायालय का आदेश मान्य होगा। यदि किसी देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है, तो राज्य शासन भूमि अधिगृहण की कार्यवाही वापस ले सकेगी और भूमि अधिगृहण वापस लेने की स्थिति में शासन को हुई क्षति जो भूमि अधिगृहण करने की वापसी के फलस्वरूप होगी, उसका भुगतान भी कंपनी द्वारा राज्य शासन को किया जावेगा।

भू—अर्जन की समर्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत पक्ष क—1 राज्य शासन, पक्ष क.—2 कंपनी को अर्जित की गयी भूमि का अधिपत्य एवं स्वत्व प्रदान करने के बाबद आवश्यक कार्यवाही कर दस्तावेज निष्पादन करावेगी। अनुबंध के निष्पादन पंजीयन तथा अन्य दस्तावेजों के निष्पादन, स्टाम्प ड्युटी, पंजीयन शुल्क तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा।

इस अनुबंध में अन्यथा कोई कार्यवाही शेष रहती है, तो दोनों पक्षों द्वारा विधि पूर्वक प्रक्रिया के तहत निपटारा किया जावेगा।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क.—1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क.—2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र सक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

पक्ष क्रमांक—1

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

साक्षी क्र.—1

नाम: गोपाल यादव

पता रुद्रेश्वर कॉलोनी, बिस्टान रोड नाका

खरगोन

(केदार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

म.प्र. शासन राजस्व विभाग

जिला—खरगोन (म.प्र.)

साक्षी क्र.—2

नाम: छोटेखान

पक्ष क्रमांक—2

(असद जाफर)

महाप्रबंधक

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि.
मण्डलेश्वर

पता: 15 टवड़ी मोहल्ला खरगोन

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2011

क्र. 295-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).— न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में दो दिवसीय कार्यशाला "Key issues and Challenges under Protection of Women from Domestic Violence Act and Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000", जो दिनांक 5 मार्च 2011 तथा 6 मार्च 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5 मार्च 2011 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत् होंगी :—

1. (1) अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
- (2) उक्त कार्यशाला में शामिल, ऐसे न्यायिक अधिकारी, जिनकी सेवाएं आवश्यक कार्य हेतु जिला मुख्यालय में आवश्यक हैं, को कार्यशाला में उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करने हेतु संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया है तथा उपस्थिति से मुक्ति प्रदान करने संबंधी सूचना न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को अवश्य प्रेषित करें।
- (2) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 5-3-2011 को प्रातः काल ठीक 10: 00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
- (3) न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Protection of Women from Domestic Violence तथा Juvenile Justice (Care & Protection of children) Act, 2000 एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें।
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
6. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 316-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).— न्यायिक अधिकारी, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण "Refresher Course for Civil Judges" (2007 Batch) (Foruth Batch) जो दिनांक 7 मार्च 2011 से 12 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 7 मार्च 2011 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत् होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 7 मार्च 2011 को प्रातः काल ठीक 10: 00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारंभ होने के, कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें:—
 - (i) Judgment in Civil case (contested) and
 - (ii) Judgment in Criminal case (contested)
 - (iii) Issues framed by themselves
 - (iv) Charge framed by themselves
 - (v) Accused Statement prepared by themselves
5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें।
6. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे चा चुके हैं।
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिलिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे

पूर्व में सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।

10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. C-1498-दो-3-86-2000.—श्री के. डी. खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 7 से 16 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. डी. खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. डी. खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1500-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 28 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 फरवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 6 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि बी. डी. राठी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्र. C-221-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 28 जनवरी 2011 से 1 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1223-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 13 दिसम्बर 2010 का एवं दिनांक 16 दिसम्बर 2010 का दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-1225-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जनवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 30 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच.के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच.के.दुबे, उपरोक्तानुसार

अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1227-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 6 से 7 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 एवं 09 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-1229-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 27 से 29 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 30 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. C-1275-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जनवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 30 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1279-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 14 से 15 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 फरवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 16 फरवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-1281-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 28 जनवरी 2011 से 1 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1283-दो-2-10-2011.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुदुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 24 से 25 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 26 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुदुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-1285-दो-2-40-2007.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. E-933-दो-2-15-2011.—श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 4 से 7 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1601-दो-3-36-2003.—श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 फरवरी 2011 से 5 मार्च 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 फरवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 6 मार्च 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1603-दो-2-17-2011.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 11 से 26 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. B-870-दो-2-17-2011.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 3 से 5 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेट अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 6 फरवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेट अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-872-दो-2-10-2011.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 3 से 5 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेट अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेट अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार

अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2011

क्र. 289-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 237-गोपनीय-2011, दो-3-1-2011 (भाग-ए), दिनांक 15 फरवरी 2011 जहां तक इसका संबंध श्री राजकुमार यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चुरहट, जिला सीधी का चुरहट जिला सीधी से धरमपुरी जिला धार स्थानांतरण से है एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. E-954-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपोठ ग्वालियर को दिनांक 14 से 18 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 फरवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 19 एवं 20 फरवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपोठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, dated 17th February 2011

No. 251-CJ-II-774.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri P.C. Gupta, the then ADJ, Indore (presently posted at Waidhan, District Singrauli) for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND WHEREAS, serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High court as Disciplinary authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri P.C. Gupta, the then ADJ, Indore (presently posted at Waidhan, District Singrauli) under suspension with immediate effect with the headquarters at Shahdol. The High Court Further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No. 253-CJ-I-175.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Virendra Singh Patidar, the then ADJ, Indore (presently posted at Mandsaur) for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND WHEREAS, serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High court as Disciplinary authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Virendra Singh Patidar, the then ADJ, Indore (presently posted at Mandsaur) under suspension with immediate effect with the headquarters at Neemuch. The High Court Further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No. 255-CJ-II-478.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri R.P.Gupt, the then ADJ, Indore (presently posted at Jaora,District Ratlam) for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND WHEREAS, serious nature of the allegations of

misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High court as Disciplinary authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri R.P.Gupt, the then ADJ, Indore (presently posted at Jaora, District Ratlam) under suspension with immediate effect with the headquarters at Dhar. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No. 257-CJ-II-926.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri R.K.Yadav, the then Civil Judge Class-I, Hatod,District Indore, (presently posted at Churhat, District Sidhi), for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND WHEREAS, serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri R.K.Yadav, the then Civil Judge Class-I, Hatod,District Indore, (presently posted at Churhat, District Sidhi),under suspension with immdediate effect with the headquarters at Sidhi The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

Jabalpur, dated 18th February 2011

No. 291-CJ-II-768.—Shri Narendra Kumar Jain, the then Additional District & Sessions Judge, Indore, vide order no. 544, dated 19th May 2010 was placed under suspension with Headquarter at Jhabua, with immediate effect.

As directed headquarter of Shri Narendra Kumar Jain, the then Additional District & Sessions Judge, has been changed from Jhabua to Panna. Shri Narendra Kumar Jain, the then Additional District & Sessions Judge, Indore is directed to join at Panna immediately. District & Sessions Judge, Panna is hereby authorized for payment

of subsistence allowance accordingly.

By order of High Court,
K.D. KHAN,
Principal Registrar (Inspection & Vigilance).

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट),
जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्र. 52-स्था. सैट-2011—श्री हरीश कांत दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2011 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही पूर्व, पश्चात् में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की

जाती है।

अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कांत दुबे जी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. ए-367-दो-14-1-2011.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नलिखित सहायक ग्रेड एक की नियुक्ति/पदोन्ति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500—200—10500 (पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300—34800 +ग्रेड पे रु. 4200) में, अस्थायी एवं स्थानापन रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाती हैं, एवं उन्हें कॉलम नम्बर (3) में दर्शित स्थान पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि यदि वे पदोन्ति स्वीकार करने से इंकार करते हैं तो उनकी पदोन्ति पर आगामी एक वर्ष तक अथवा आगामी विभागीय पदोन्ति कमेटी की बैठक, जो भी पूर्व में हो, तक विचार नहीं किया जावेगा। यदि वे पदोन्ति पर दिनांक 28 फरवरी 2011 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो वे लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्ति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं:—

क्रमांक (1)	नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्ति पर पदस्थापना (3)	टिप्पणी (4)
1	कु. शोभा पवार, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
2	श्री के. एल. कोष्टा (जूनि.), मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
3	श्रीमती रजनी गुप्ता, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर
4	श्रीमती कविता भटनागर, मुख्यपीठ जबलपुर	मुख्यपीठ जबलपुर	रिक्त पद पर

क्र. 269-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री वेद प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर।	सीहोर	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से कुमारी सुषमा खोसला के स्थान पर।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी, 2011

क्र. 200-Confld.-2011-दो-2-21-63 (भाग-पांच).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष, स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रूपये 70290—1540—76450/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम तथा पदनाम	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ILR & Examination), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	01-10-2010	रिक्त पद पर.
2	श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा).	01-10-2010	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
3	श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण एवं सर्तकता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर.	10-11-2010	रिक्त पद पर.
4	कुमारी भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.	10-11-2010	श्री शम्भू दयाल दुबे, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. 236-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तंभ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुभाष सोलंकी	इंदौर	धार	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा के स्थान पर.
2	श्रीमती गीता सोलंकी	इंदौर	धार	धार	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा	धार	झाबुआ	झाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री कपिल कुमार मेहता के स्थान पर.
4	श्री कपिल कुमार मेहता	झाबुआ	इंदौर	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुभाष सोलंकी के स्थान पर.
5	श्री कैलाश चन्द्र यादव	रीवा	बैतूल	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री धीरेन्द्र सिंह	धरमपुरी	रीवा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री के. सी. यादव के स्थान पर.
7	श्री मनोज कुमार तिवारी	भोपाल	खण्डवा	खण्डवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

क्र. 237-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रितुराज सिंह चौहान	जीरापुर	भोपाल	भोपाल	दसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री मनोज कुमार तिवारी के स्थान पर.
2	श्रीमती सविता सिंह	धार	इंदौर	इंदौर	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
3	श्री राजकुमार यादव	चुरहट	धरमपुरी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री धीरेन्द्र सिंह के स्थान पर.

टिप्पणी:—श्री राजकुमार यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चुरहट जिला सीधी का स्थानांतरण उनके अध्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत किया गया है। इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

जबलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्र. 267-गोपनीय-2011-दो-3-250-57 (भाग-29).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के संबंध क्रमांक (2) में अंकित है, और जिन्हें

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 1/2010/21-ब (एक) (मेरिट क्रमांक—) दिनांक 10 फरवरी 2011 एवं 14 फरवरी 2011 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) में नियुक्त किया गया है, उनके नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर स्तंभ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शरद कुमार लटौरिया	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री राममनोहर सिंह दांगी	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री मो. जफर खान	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के षष्ठ्म अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री अमित निगम	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री अनुराग सिंह कुशवाह	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	श्री राजेश नामदेव	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सतना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

क्र. 271-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुमारी सुषमा खोसला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	सिविल जिला, भोपाल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्र. 287-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तंभ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता हैः—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	सारणी	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
					(6)	
(1) 1	(2) श्री सुभाष सोलंकी	(3) इंदौर	(4) ज्ञाबुआ	(5) ज्ञाबुआ	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.	

(1) रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 236-गोपनीय-2011, दो-3-1-2011 (भाग-ए) दिनांक 15 फरवरी 2011 जहाँ तक इसका संबंध श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धार का धार से ज्ञाबुआ स्थानांतरण से है एतद्वारा निरस्त किया जाता है वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।

(2) रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 236-गोपनीय-2011, दो-3-1-2011 (भाग-ए) दिनांक 15 फरवरी 2011 जहाँ तक इसका संबंध श्री सुभाष सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का इंदौर से धार स्थानांतरण से है एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 236-गोपनीय-2011, दो-3-1-2011 (भाग-ए) दिनांक 15 फरवरी 2011 जहाँ तक इसका संबंध श्रीमती गीता सोलंकी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर का इंदौर से धार स्थानांतरण से है एतद्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगी। उनके स्थान पर रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 237-गोपनीय-2011, दो-3-1-2011 (भाग-ए) दिनांक 15 फरवरी 2011 के द्वारा पदस्थ श्रीमती सविता सिंह, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इंदौर के रिक्त न्यायालय में पदस्थ की जाती हैं।

जबलुपur, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्र. 308-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एकट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कंडिका (2) की सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तंभ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता हैः—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	सारणी	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
					(6)	
(1) 1	(2) श्री आनंद कुमार तिवारी	(3) जबलुपur	(4) धार	(5) धार	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	
2	श्री सुशांत हुद्दार	छिंदवाड़ा	महू	इंदौर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एल.एस. दुवासा के स्थान पर।	
3	श्री धर्मिन्दर सिंह	ग्वालियर	शिवपुरी	शिवपुरी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	
4	श्री उमेश पाण्डव	होशंगाबाद	विदिशा	विदिशा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	
5	श्री ललित किशोर	ग्वालियर	अशोकनगर	अशोकनगर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	श्री अनीश कुमार मिश्रा	धार	उज्जैन	उज्जैन	ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
7	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	शिवपुरी	टीकमगढ़	टीकमगढ़	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 304-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 99 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी						
क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कुमारी मीना सिंह	दतिया	दतिया	दतिया	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विमल कुमार जैन सिंघई के स्थान पर.	दतिया
2	श्रीमती मीना अग्रवाल	हरदा	सीहोर	सीहोर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	सीहोर
3	श्री विमल प्रकाश अपर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	सिवनी	सिवनी	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर।	सिवनी
4	श्री प्रेमचन्द शर्मा	अशोकनगर	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	पीठासीन अधिकारी विशेष मण्डलेश्वर न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	मण्डलेश्वर
5	श्री तारकेश्वर सिंह	छतरपुर	हरदा	हरदा	पीठासीन अधिकारी विशेष हरदा न्यायालय की हैसियत से श्रीमती मीना अग्रवाल के स्थान पर।	हरदा
6	श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर	इंदौर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ. अनिल कुमार ठाकरे के स्थान पर।	नरसिंहपुर
7	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)	सोनकच्छ	झाबुआ	झाबुआ	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	झाबुआ

क्र. 305-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	सारणी	
					(1)	(2)
1	श्री लाल सिंह दुवासा	महू	अलीराजपुर	अलीराजपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	
2	श्री रहस बिहारी गुप्ता	मऊगंज	विदिशा	विदिशा	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर।	
3	श्री कोशिक चौहान	नीमच	कन्नौद	देवास	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	
4	श्रीमती रेणुका कंचन	विदिशा	देवास	देवास	द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	
5	श्री रघुवीर सिंह चुण्डावत	भोपाल	सीहोर	सीहोर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	

क्र. 306-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) को सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	सारणी	
					(1)	(2)
1	श्रीमती सरला वाकलबार	भोपाल	मुरैना	मुरैना	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मुरैना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से।	
2	श्रीमती अलका दुबे	देवास	भोपाल	भोपाल	दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान- विदिशा की हैसियत से।	
3	श्री अनिल कुमार सिंह	भोपाल	विदिशा	विदिशा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान- विदिशा की हैसियत से।	

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 15th February 2011

No.B-763-III-6-3-57-IX.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. B-2641-III-6-3-57-IX, Jabalpur, dated 30th June 2010, the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate, First, Class Shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate, First Class can take cognizance, arising within the Railway Lands ruuning through the territories of Revenue Districts shown in Column No. (4) of the said Table with effect from the date of his assumption of charge of his office namely:—

TABLE

S.No.	Name of Magistrate (1)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1	Shri Rituraj Singh Chouhan, Xth CJ-I & JMFC, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Ujjain, Guna, Ashoknagar, Indore, Shajapur, Ratlam, Khandwa, Burhanpur, Sagar, Vidisha, Hoshangabad, Harda, Betul, Gwalior, Jabalpur, Satna, Morena, Narsinghpur, Rewa, Neemuch, Bhind, Katni, Chhatapur, Shahdol, Umaria, Anoppur, Chhindwara & Sehoper.

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. बी-838-तीन-6-2-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप, विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

क्रमांक (1)	न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी (2)	पदस्थापना का स्थान (3)	राजस्व जिला (4)
1	श्री अभिषेक सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
2	कु. श्वेता गोयल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
3	कु. चारूलता दांगी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
4	श्री समरेश सिंह, कुशवाहा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	गुना	गुना
5	श्री कंचन सक्सेना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	चाचौड़ा	गुना
6	श्री जी. पी. गर्ग, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	चाचौड़ा	गुना
7	श्री अरविंद कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
8	श्री सुधीर सिंह ठाकुर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
9	श्री योगीराज पांडे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
10	श्री विवेकानंद त्रिवेदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
11	श्री एल. के. वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
12	श्री सतीश वसुनिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मउंगंज	रीवा
13	श्री अब्दुल्लाह अहमद, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	त्योंथर	रीवा
14	श्री नीरज कुमार सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	राजेन्द्रग्राम	अनूपपुर
15	श्री पी. के. सौधिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	कोतमा	अनूपपुर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार